



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 6—अक्टूबर 12, 2007 (आश्विन 14, 1929)  
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 6—OCTOBER 12, 2007 (ASVINA 14, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 495, दिनांक 10 सितम्बर 2007—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

श्री एस सी भट्टाचार्य, वैज्ञानिक डी को एच.ई.एम.आर.एल. पुणे में एक साल की परखावधि पर दिनांक 30 अगस्त 1999 अपराह्न से वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- पर

पी सारथ

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 496, दिनांक 6 सितम्बर 2007—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

पक्के सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनिशियन अमर सिंह (जेसी-723020एम),  
01 जुलाई 2007

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनिशियन ग्यास्व्या कुमार  
(जेसी-723021पी), 01 अगस्त 2007

सूबेदार मेजर एसकेटी अम्युनिशन हरदयाल सिंह भंडारी  
(जेसी-723260के), 01 जून 2007

सूबेदार मेजर एसकेटी अम्युनिशन बिशन सिंह (जेसी-723224वाई),  
28 जून 2007\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर एसकेटी सिग्नल महेंद्र सिंह (जेसी-723307के),  
20 जून 2007\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर लिपिक जीडी पी सम्बासिवा रेड्डी (जेसी-723487एक्स),  
01 जुलाई 2007

सूबेदार मेजर लिपिक एस प्रोविजन हावा सिंह (जेसी-723560ए),  
14 जून 2007\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर एसएचजीडी सीवजि सिधा हुनमुने (जेसी-725411डब्ल्यू),  
28 जून 2007\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

पक्के सूबेदार के रैंक में

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन गौतम मजुमदार (जेसी-724738एच),  
01 जून 2007

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन रमेश चंद (जेसी-724713डब्ल्यू),  
21 मई 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन गौतम कुमार घोश (जेसी-724771ए),  
01 जुलाई 2007

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन दिपेंद्र डे (जेसी-724772एच),  
01 जुलाई 2007

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन हीरा राम (जेसी-724810एच),  
01 अगस्त 2007

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन रसाल सिंह (जेसी-724714वाई),  
01 जून 2007

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन आच्युतानंद बेहेरा  
(जेसी-724841एन), 01 जुलाई 2007

सूबेदार एसकेटी एमटी सुन्दरलाल (जेसी-725028एक्स), 23 अक्टूबर  
2006\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार एसकेटी जीएसएंडसी एल वेलु मनि (जेसी-725178एन),  
12 फरवरी 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एसकेटी जीएसएंडसी सुभाष चंद (जेसी-725211ए), 01 मार्च  
2007

सूबेदार एसकेटी जीएसएंडसी जय सिंह (जेसी-725249के), 01 जून  
2007

सूबेदार एसकेटी जीएसएंडसी ओम प्रकाश भार्गव (जेसी-725305एक्स),  
01 जुलाई 2007

सूबेदार एसकेटी जीएसएंडसी धरमबीर (जेसी-725263डब्ल्यू),  
28 जुलाई 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एसकेटी जीएसएंडसी राजेन्द्र कुमार (जेसी-725385ए),  
01 अगस्त 2007

सूबेदार एसकेटी एमटी सुभराम जाट (जेसी-725060एम), 01 जून  
2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन इंद्रविर सिंह (जेसी-725643पी),  
01 मई 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल परमिंदर सिंह (जेसी-725744एच),  
01 जुलाई 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बद्रीनाथ कौडल (जेसी-725721एफ),  
01 जुलाई 2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन मंगल सिंह (जेसी-725720वाई),  
01 जुलाई 2007

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन ब्रिज लाल (जेसी-725717वाई),  
20 जुलाई 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल शिव चरन सिंह (जेसी-725701एन),  
01 जून 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल खेम सिंह (जेसी-725700एल), 01 जून  
2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल द्विजन्द्र पाल सिंह (जेसी-725679एन),  
01 जून 2007

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल श्रिनाथ सिंह (जेसी-725745एल),  
01 अगस्त 2007

सूबेदार ड्राइवर स्पेशल राज कुमार सिंह (जेसी-726580के), 01 जुलाई  
2007

सूबेदार ड्राइवर एमटी हरबंस सिंह (जेसी-726535एक्स), 01 जुलाई  
2007

सूबेदार एसएचजीडी रमनिवास (जेसी-726553ए), 01 मई 2007

सूबेदार एसएचजीडी शिव सहाय राय (जेसी-726588डब्ल्यू), 01 मई  
2007

सूबेदार एसएचजीडी नवल किशोर सिंह (जेसी-726556एन), 12 मई  
2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएचजीडी शिव मुनि राय (जेसी-726581एम), 01 मई 2007

सूबेदार एसएचजीडी राकेश कुमार सिंह (जेसी-726690वाई), 01 जून 2007

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएचजीडी अतर सैय्यद फरिद (जेसी-726633एक्स), 14 जुलाई 2007 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएचजीडी राजकिशोर प्रसाद वर्मा (जेसी-726617ए), 02 जून 2007 \*

सूबेदार एसएचजीडी महेन्द्र सिंह (जेसी-726635एच), 01 जून 2007

सूबेदार एसएचजीडी खरत परशुराम बाबू (जेसी-726654एन), 07 जून 2007

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएचजीडी जगदीश कुमार (जेसी-726730पी), 20 जुलाई 2007 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएचजीडी बनवारी लाल (जेसी-726721एन), 01 जून 2007

सूबेदार एसएचजीडी अर्जुन जगन्नाथ बडे (जेसी-726723वाई), 01 जुलाई 2007

सूबेदार एसएचजीडी मफिजुल हक (जेसी-726509डब्ल्यू), 01 मई 2007

सूबेदार एसएचजीडी भरत सिंह (जेसी-726619एल), 01 जून 2007

सूबेदार एसएचजीडी सियामालन आर (जेसी-726536ए), 01 जून 2007

सूबेदार एसएचजीडी ओम प्रकाश (जेसी-726725के), 01 जुलाई 2007

सूबेदार एसएचजीडी भवानी सिंह (जेसी-726582पी), 01 जून 2007

सूबेदार एसएचजीडी श्याम लाल (जेसी-726722डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007

सूबेदार एसएचजीडी तोपलाल छत्रि (जेसी-726614एम), 01 जून 2007

सूबेदार एसएचजीडी मनसुख लकरा (जेसी-726615पी), 01 जून 2007

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन टी मुनुसामी (सं. 6927876के अब जेसी-727491एक्स), 01 मई 2007

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन श्याम बाबू सिंह (सं. 6931240ए अब जेसी-727492ए), 01 मई 2007

हवलदार एसकेटी एमटी सुरेश चंद्रा (सं. 6921763एल अब जेसी-727493एच), 04 जून 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी) -

हवलदार एसकेटी एमटी शिशोधर दुबे (सं. 6921769एम अब जेसी-727494एल), 21 जून 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी एमटी शिव प्रकाश सिंह यादव (सं. 6921770एफ अब जेसी-727495एन), 02 जुलाई 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी एमटी सुभाष चंद्रा नायक (सं. 6921792ए अब जेसी-727496डब्ल्यू), 19 जून 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी एमटी श्यामल चंदा घोष (सं. 6921794एल अब जेसी-727497वाई), 20 जून 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी एमटी जेड रंजीत सिंह धीरूभाई (सं. 6921799के अब जेसी-727498एफ), 09 जुलाई 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राइवर एमटी इंद्रा सिंह घटनी (सं. 6919514एन अब जेसी-727499के), 10 जुलाई 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एसएचजीडी श्री निवास भारद्वाज (सं. 6918501के अब जेसी-727500एन), 01 मई 2007

हवलदार एसएचजीडी अशीम कर्माकर (सं. 6918952के अब जेसी-727501डब्ल्यू), 12 जून 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन दिनेश कुमार सिंह (सं. 692761पी अब जेसी-727502वाई), 01 जून 2007

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन बलजीत सिंह (सं. 6930802ए अब जेसी-727503एफ), 01 जून 2007

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन राधा क्रिशनन नायर ए (सं. 6930846एक्स अब जेसी-727504के), 18 जून 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एसएचजीडी चंद्रा बहादुर थापा (सं. 6919113वाई अब जेसी-727505एम), 01 जून 2007

हवलदार एसएचजीडी बाबाजी सेठी (सं. 6919757वाई अब जेसी-727556पी), 30 जून 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन अविजीत घोष (सं. 6929802एन अब जेसी-727507एक्स), 01 जून 2007

हवलदार क्लर्क जीडी नाबा किशोर पटनायक (सं. 6919846एक्स अब जेसी-727508ए), 05 जुलाई 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जीडी महेंद्रा पाल सिंह (सं. 6919870एन अब जेसी-727509एच), 06 जुलाई 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल रामा शुक्ला (सं. 6919879एच अब जेसी-727510एक्स), 01 जुलाई 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल रघुवर दयाल सिंह (सं. 6919887एफ अब जेसी-727511ए), 01 जुलाई 2007

हवलदार क्लर्क जीडी गौतम पौल (सं. 6919921डब्ल्यू अब जेसी-727512एच), 01 जुलाई 2007

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राज सिंह (सं. 6919938के अब जेसी-727513एल), 01 जुलाई 2007

हवलदार क्लर्क जीडी धनेश कुमार (सं. 6920108ए अब जेसी-727514एन), 01 अगस्त 2007

हवलदार एसकेटी एमटी श्याम लाल कुमार मंडल (सं. 6921796डब्ल्यू अब जेसी-727515डब्ल्यू), 23 जुलाई 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी एमटी राजेश कुमार (सं. 6921797वाई अब जेसी-727516वाई), 16 जुलाई 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एमकेटी एमटी जगमोहन सिंह (सं. 6921807एक्स अब जेसी-727517एफ), 14 जुलाई 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राइवर एमटी विस्वा नाथ विश्वाकर्मा (सं. 6919643एन अब जेसी-727518के), 01 जुलाई 2007

हवलदार ड्राइवर एमटी हिमांगशू देव (सं. 6919924के अब जेसी-727519एम), 01 जुलाई 2007

हवलदार ड्राइवर एमटी शिव कुमार (सं. 6919972के अब जेसी-727520एफ), 19 जुलाई 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राइवर एमटी पोले पल्लि नागईया (सं. 6919985एफ अब जेसी-727521के), 09 जुलाई 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार एसएचजीडी मंगल धारी राय (सं. 6920131एन अब जेसी-727522एम), 01 जुलाई 2007

हवलदार एसएचजीडी मान सिंह (सं. 6920179एफ अब जेसी-727523पी), 01 जुलाई 2007

हवलदार एसएचजीडी राम लत शर्मा (सं. 6920155एक्स अब जेसी-727524एक्स), 01 जुलाई 2007

हवलदार एसएचजीडी रत्ना कांत राभा (सं. 6920187ए अब जेसी-727525ए), 01 जुलाई 2007

हवलदार एसएचजीडी सुर्दशनन एम (सं. 6920188एच अब जेसी-727526एच), 01 जुलाई 2007

#### विशेष सूची

#### सूबेदार धर्म गुरू (पंडित)

पक्के सूबेदार (धर्म गुरू) रविंद्रा कुमार मिश्रा (जेसी-723469पी), 01 अप्रैल 2007

पक्के सूबेदार (धर्म गुरू) राजेंद्रा प्रशाद द्विवेदी (जेसी-723471पी), 01 मई 2007

पक्के सूबेदार (धर्म गुरू) विनोदा नंदा पाठक (जेसी-723470के), 01 जुलाई 2007

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जाएगी)

पक्के सूबेदार (धर्म गुरू) राजेंद्रा झा (जेसी-723472पी), 01 जुलाई 2007

#### नायब सूबेदार धर्म गुरू (पंडित)

जेसी-एन ए वाई ए नायब सूबेदार धर्म गुरू (पंडित) डूंगर राम प्रोहित (अब-727490पी), 30 जून 2007

#### थल सेना विभाग (एमजीओ) ई एम ई कार्मिक

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

अजय प्रकाश सिंह (सं. 14565035एच अब जेसी-760831पी), 01 सितम्बर 2006

बिनोद कुमार उपाध्याय (सं. 14565823एम अब जेसी-760840डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006

चन्दुगाडे विलास जे (सं. 14565815एन अब जेसी-760839एफ), 01 सितम्बर 2006

ग्यान चंद शर्मा (सं. 14565803वाई अब जेसी-760832एक्स),  
01 सितम्बर 2006

नारायण (सं. 14565825एक्स अब जेसी-760841वाई), 01 सितम्बर  
2006

उदय नारायण सिंह (सं. 14555606एच अब जेसी-760835एल),  
01 सितम्बर 2006

हवलदार से नायब सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

अमन कुमार (सं. 14546723एम अब जेसी-760853एन), 01 सितम्बर  
2006

भोबनी पत्नी (सं. 14545514एच अब जेसी-760842एफ),  
05 सितम्बर 2006/01 जुलाई 2006 \*

ध्रुवा शर्मा (सं. 14546604डब्ल्यू अब जेसी-760845पी), 01 सितम्बर  
2006

जयकृष्णा मलिक (सं. 14546301एफ अब जेसी-760847ए),  
01 सितम्बर 2006

नबिन बोरा (सं. 14546504एल अब जेसी-760850ए), 01 सितम्बर  
2006

निहाल राम (सं. 14546645ए अब जेसी-760849एल), 01 सितम्बर  
2006

पुष्पा करन वी सी (सं. 14546651एन अब जेसी-760851एच),  
01 सितम्बर 2006

रस्कार शाहजीराव तुकाराम (सं. 14546623एफ अब  
जेसी-760848एच), 01 सितम्बर 2006

शिव राज सिंह (सं. 14546411डब्ल्यू अब जेसी-760854डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2006

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

एन के कश्मीरा  
अवर सचिव

सं. 497, दिनांक 11 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल (टीएस) (व समकक्ष), कर्नल (चयनित) (व समकक्ष)

वी के गुप्ता 26 जुलाई 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव  
(एमआर-05365वाई) डाले काल्पनिक वरीयता 26 दिसम्बर 2005  
से दी जाती है।

ले. कर्नल (व समकक्ष), कर्नल (चयन) (व समकक्ष)

के सी कोलेय 17 मार्च 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव  
(एमआर-04050एच) डाले काल्पनिक वरीयता 15 दिसम्बर 2005  
से दी जाती है।

प्रभात कुमार 25 अप्रैल 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव  
(एमआर-05042डब्ल्यू) डाले काल्पनिक वरीयता 25 फरवरी 2006 से  
दी जाती है।

अशोक सक्सेना 29 अप्रैल 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव  
(एमआर-04592एम) डाले काल्पनिक वरीयता 08 मार्च 2006 से  
दी जाती है।

वी के सिंगल 15 मार्च 2006 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव  
(एमआर-05471एक्स) डाले काल्पनिक वरीयता 13 मार्च 2006 से  
दी जाती है।

ए जे बेनियूर 20 नवम्बर 2006 वेतन व पेंशन पर बिना  
(एमआर-05251एन) प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 नवम्बर  
2006 से दी जाती है।

एम ई लूथर 12 अगस्त 2005 वेतन व पेंशन पर बिना  
(एमआर-04530एम) प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जुलाई  
2004 से दी जाती है।

मिसेज आर एस भदुरिया 12 अगस्त 2005 वेतन व पेंशन पर बिना  
(एमआर-05170एन) प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 दिसम्बर  
2005 से दी जाती है।

जी रवीन्द्रनाथ  
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक ससेचिसे (कार्मिक)

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 498, दिनांक 10 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

वी आर डी ई, अहमदनगर के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2007 पूर्वाह्न से।

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
श्री के एस जैन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000

1	2	3	4
श्री आर एन मराठे	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एस रामकृष्णा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री जी राम मोहन राव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री बी एल वाघ	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री ए ए पोद्दार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्रीमती सुनिला पी व्यास	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री जी श्रीनिवास राव	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

आई आर डी ई, देहरादून के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्चग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2007 पूर्वाह्न से।

श्री वी एन सिंह	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस सी सहगल	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री बी एस चौहान	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. अजय कुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री बी बी सिंह	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एस सी कुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री जय प्रकाश सिंह	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री पी एस सिंधवाल	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री आर विक्रम कालमेकर	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री अजय कुमार साहनी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री पी सी पाण्डे	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री के सी बहुगुणा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री राजकमल सिंह रावत	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री प्रदीप कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

एन एस टी एल, विशाखापट्टनम के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2007 पूर्वाह्न से।

श्री सी डी मल्लेश्वर	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री देवशीष चक्रवर्ती	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री एन वी राघव राव	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री बी वी पी एस राव	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री पी वी एस एन आचार्युलु	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री वाई एस आर प्रसाद राव	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री के बी रामकृष्णा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री आर वी एस सुब्रह्मण्यम	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000

1	2	3	4
श्रीमती सी एच वी एस सुधा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्रीमती के एस पदमजा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्रीमती वी ममथा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री वाई एल सोमयाजुलु	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री सी केदारनाथ	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री जी वी मनोज कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री टी पी चौधरी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

ए आर डी ई, पुणे के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2007 पूर्वाह्न से।

श्री एम राममूर्ति	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
डॉ. वीरेन्द्र कुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस टी शाह	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री जी जी दत्ता	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री वी एस घाडगे	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
कु. सी पी महाजन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री कैलाश कुमार पाठक	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री वी के दीक्षित	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस श्रीनिवासन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस बी बोरकार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री शेलार शिरीष एम	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री सी वेणुगोपाल राव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री बी राघवेन्द्र राव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री संजय कुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्रीमती वी एस तमहन्कार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री सल्ला रामबाबू	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री मिलिन्द एस बोकाडे	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री सी एस सलुयागिकार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री ए पी नरखेडे	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री भूपेश ए पराटे	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री एम धनपाल	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

एस एस पी एल, दिल्ली के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2007 से।

डॉ. बी के सहगल	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
डॉ. आर के शर्मा	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
डॉ. प्रधाज्योति दत्ता	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400

1	2	3	4
श्री सतीश मोहन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री के के जैन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. (श्रीमती) रेनुका सक्सेना	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. सुरेन्द्र कुमार कोल	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री ए ए नायक	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्रीमती एम वी जी पदमावती	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्रीमती वनीता रानी अग्रवाल	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. टी श्रीनिवासन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस एन चटर्जी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
डॉ. (श्रीमती) विवन नारंग	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एम पी गुप्ता	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री मयनक सिंघल	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री ए बी दुल्हाखांडी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री मोहन सिंह	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
डॉ. (श्रीमती) पुष्पश्री मिश्रा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
डॉ. (श्रीमती) एल राधाप्यारी देवी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

इनमास, दिल्ली के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 02 जुलाई 2007 से।

डॉ. एल रवि शंकर	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री पी सी गुप्ता	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री जे एस अधिकारी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

एल.आर.डी.ई., बेंगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2007 पूर्वाह्न से।

श्री एच एस प्रकाश	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री जी आर रेवानकर	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एल जी एम प्रकासम	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री के वेंकटेश	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस रिवाकुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री जगदीश पी ननीसेट्टी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्रीमती निर्मला शानमुगम	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री जे पी वरधानी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एस रामाकृष्णन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री के जेरी वर्गीज	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एम प्रकाश नारायनन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री के श्रीनिवासुलू	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री पी माँसी श्री वेनी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500



1	2	3	4
सुश्री मीरा दास	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री शिवा कुमार मुथैया	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री रोज अब्राहम	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री विशाल महाजन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री दण्ड राकेश	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री वेनोय कुरियकोज	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री देवाशीष देव	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री उपेन्द्र शंकर पाण्डेय	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

सी एफ ई ई एस, दिल्ली के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2007 से।

डॉ. चित्रा राजागोपाल	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
डॉ. के सी वधवा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. पी के राय	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री पी एन देव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
डॉ. एस मेरी सेलीन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
डॉ. के काडीरवेलू	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
डॉ. आरती भट्ट	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
डॉ. प्रसन्न कुमार राय	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

टी बी आर एल, चण्डीगढ़ के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2007 (पूर्वाह) से।

श्री प्रतीक किशोर	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री आर एस विष्ट	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री राजकुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री धीरेन्द्र गुप्ता	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री संदीप बग्गा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

सी बी आर डी ई, चैन्नई के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2007 (पूर्वाह) से।

श्री कृष्णामूर्ति	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री बी अरुलजोति	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री जी के कुमारवेल	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री सी गोविन्दराजन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एन पोन्नुस्वामि	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. ए एम जुनैद बाशा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्रीमती एस सावित्री	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री के गिरिधरन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्रीमती स्वर्णा रमेश	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000

1	2	3	4
श्री बी बालमुरुगन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री अशोक वेंकटरमणि	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री पी बी नागेश्वरन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री ए शेनबगमूर्ति	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
सुश्री के वसभा कुमारी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एम वाधवरसन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एस पथनीकुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री जी भास्करन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री जी रवि	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री आर मुत्तुकुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री ए आर बालसुबह्मणियन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री आर रवीन्द्रन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री जी वेंकटेशन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
डॉ. के रवीचन्द्रन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री एम तमिलमणि	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

डील, देहरादून के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न) से :--

श्री राजीव कुमार अग्रवाल	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री आर पी दीक्षित	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री सतीश कुमार त्यागी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. चिन्मय भट्टाचार्य	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री संजीव कुमार वर्मा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री सुशील कुमार वर्मा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री राजबहादुर सिंह	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्रीमती किरन चौहान	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री कुलदीप सिंह रावत	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री अजय सिंह कुशवाहा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री आर के भारद्वाज	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री राजेश सिंह	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री राजेन्द्र सिंह	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

राष्ट्रपति सहर्ष एम टी आर डी सी, बेंगलूर के निम्नलिखित का उनके सामने दिखाये गये अगले ग्रेड एवं वेतनमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

डॉ. सुशान्त कुमार छोटे	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री डी सेन्थिल कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
सुश्री आर हेमामालिनी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री नरसिम्हा मूर्थी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

1	2	3	4
---	---	---	---

एच इ एम आर एल, पुणे के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2007 (पूर्वाह) से :--

डॉ. एस एन सिंह	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री जी डी मूर्ति	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री बी भट्टाचार्य	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
डॉ. वी पी बनसोड	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. डी बी सर्वादे	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. पी वी नवाले	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. (श्रीमती) एस डी काकदे	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. मेही लाल	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री पी एस कुम्भार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एच जे गांधी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री जी डी जोशी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री अरविन्द कुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एस आर हर्ष	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री के पी सी राव	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
कु. वी एच खिरे	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
डॉ. (श्रीमती) यू आर नायर	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

आर एंड डी ई (इंजीनियर्स), पुणे के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2007 (पूर्वाह) से :--

डॉ. एस. गुरुप्रसाद	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्रीमती अरलिकट्टि शोभा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री पी के चट्टोपाध्याय	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री यू आर गौतम	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्रीमती वंदना ए गाँधी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री सी के गौतम	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस भौमिक	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री अन्सारी ए एन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एन के चौधरी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री ए एल अगेल्लु रेड्डी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री ए प्रसाद गौड़	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री नाओरम गिरिधर सिंह	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री मृदु कांत पाठक	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री बृजेश सिंह	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

1	2	3	4
श्री संजय कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री खरात अजय हनमंत	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
कृ. किरण अकेल्ला	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री जे पी सिंह	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

डी एम एस आर डी ई, कानपुर के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2007 (पूर्वाह) से :--

डॉ. मोहम्मद नसीम	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री टी सी शर्मा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री आर पी भट	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस बी यादव	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. अनुराग श्रीवास्तव	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री आलोक मल्ल	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस पी बाजपेयी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री आर के गुप्ता	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री रत्नाकर अवस्थी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री हृदय राम	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री के के गुप्ता	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

डी आर डी ई, ग्वालियर के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2007 (पूर्वाह) से :--

डॉ. श्री प्रकाश	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
डॉ. जी पी भेषराम	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. एम वी एस सूर्यनारायण	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. वेपा कामेश्वर राव	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. डी के दूबे	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. आर पी सेमवाल	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
डॉ. डी सुकुमारन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
डॉ. के गणेशन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री ए एस बी भास्कर	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

जी टी आर ई, बेंगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2007 (पूर्वाह) से :--

श्री सी जगन्नाथ	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री राधाकृष्णन	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री आर वी मधुसदनन	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
श्री के सन्तोष कुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000

1	2	3	4
श्री एम रुद्रा गौड	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री सी धंगावेलू	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस रामाचन्द्रा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस ए वासुदेव	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री पी रमेश	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. राजीव जैन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एस आनन्द राव	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री टी एस प्रनेश	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री ए सी भास्कर	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री ए एन विश्वनाथा राव	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री पी कृष्णन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री वी बी पाटिल	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री जी सूरिबाबू	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एस शानमुगम	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
सुश्री टी पी शाईनी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री जे सुधाकर	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री आर वी आर सूर्यनारायणा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री टी कृष्णामूर्थी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
सुश्री शोभा एस प्रभू	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एम मनोहरन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री एल जगदीश्वरा राव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री डी विस्वास	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री बी सुरेश	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री राम राजा भाट	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री वी प्रभाकर	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री अजय प्रताप	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री वी एच डे	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री एच जी राजन्ना	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
सुश्री के वसन्था लक्ष्मी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री कमलेश कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री बेनी जौर्ज	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री के अनिल कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री महेश एम राव	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री रमेश कृष्णा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री ए मंजूनाथा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

1	2	3	4
श्री वी सुदर्शना	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री वी आर चन्द्रा ओवुल रेड्डी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री मनोज कुमार साहू	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री अजीत कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

आर सी एम ए, नासिक के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को उनके सामने दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2007 पूर्वाह्न से।

श्री एस एस काले	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री वी एस मंडलोई	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300

डी ए आर ई, बेंगलूर के वैज्ञानिकों को उनके सामने दर्शाये गये अगले ग्रेड एवं वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2007 पूर्वाह्न से।

श्री एम ए विजयकुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री के सदानन्द उपाध्याय	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री के वी चलमैया शास्त्री	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
सुश्री टी लक्ष्मी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
सुश्री रजनी गर्ग	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
सुश्री एस मीनाक्षी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

पी एक्स ई, बालासोर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को उनके सामने दर्शाये गये अगले उच्चग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2007 पूर्वाह्न से।

श्री एस एन गिरी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एन नायक	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री के सी मलिक	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300

डी ई बी ई एल, बेंगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को उनके सामने दर्शाये गये अगले ग्रेड एवं वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2007 पूर्वाह्न से।

डॉ. बी एस सुन्दरशेखर	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री आर इन्दुशेखर	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300

आई टी आर, बालासोर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2007 पूर्वाह्न से।

श्री ऐ के सेन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्रीमती बी सुचारिता	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री एच के रथ	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
श्री बिश्वजीत डे	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री गौतम साधुखन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
श्री सी के सेठी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्री ऐ के दास	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

1	2	3	4
श्री पी एन पान्डा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्रीमती मधुस्मीता मोहान्ती	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

सेना उड़ान योग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र के श्री के तामिलमनी, वैज्ञानिक जी, मुख्य कार्यकारी अधिशासी (एयरवर्दीनैस) को वैज्ञानिक 'एच' उत्कृष्ट वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 05 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न) से उसी पद पर रु. 22,400-525-24,500 के वेतनमान पर।

ए डी ई, बेंगलूर के श्री पी एस कृष्णन, वैज्ञानिक 'जी' निदेशक को वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 02 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न) से उसी पद पर रु. 22,400-525-24,500 के वेतनमान पर।

एच ई एम आर एल, पुणे के डॉ. ए शुभानन्द राव, वैज्ञानिक 'जी' को वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 02 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 22,400-525-24,500 पर।

भारत राजदूतावास मोस्को में 'साइंटिफिक एटैची' पद पर नियुक्त श्री प्रमोद शुक्ला, वैज्ञानिक 'ई', डील देहरादून को, वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में उसी राजदूतावास में उसी पद पर 01 जुलाई 2007 से वेतनमान रु. 18,400-500-22,400 पर।

पी सारथ  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

#### वायु शाखा

सं. 498, तारीख 7 सितम्बर 2007--भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ सहर्ष प्रदान करते हैं:--

(जू वा अ से मूल वा अ)

सेवा सं.	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल वा अ की तारीख
1	2	3	4	5
295996	वा अ	मुनी स्वामी चिन्नापा	ए सी एच जी डी	03.10.2003
296295	वा अ	श्रीकान्त मिश्रा	ए सी एच जी डी	04.12.2002
296494	वा अ	गोविन्द लाल द्विवेदी	ए सी एच जी डी	04.12.2002
296572	वा अ	रतन लाल	ए सी एच जी डी	04.12.2002
297577	वा अ	जगदम्बा प्रसाद पाण्डे	ए सी एच जी डी	01.05.2003
298278	वा अ	अमर सिंह	ए सी एच जी डी	11.08.2003
619921	वा अ	अंजनी कुमार सिंह	ए डी एस ओ	02.01.2003
620431	वा अ	चन्द्रपाल सिंह तेवतिया	ए डी एस ओ	02.02.2004
620784	वा अ	गुलबीर सिंह तेवतिया	ए डी एस ओ	02.01.2003
622066	वा अ	गंगवाराम श्री रमलु	ए डी एस ओ	02.01.2003
635776	वा अ	बुश माईकल जैकब	ए डी एस ओ	02.01.2003
636966	वा अ	बलदेव चन्द	ए डी एस ओ	02.02.2004
297332	वा अ	सुदर्शन प्रसाद	अकाउंट क्लर्क	02.08.2002
298656	वा अ	विक्रमादित्य मंडल	अकाउंट क्लर्क	03.02.2003
298732	वा अ	राजकिशोर दाश	अकाउंट क्लर्क	03.02.2003
297448	वा अ	रमेश कुमार गौतम	क्लर्क जी डी	04.01.2003

1	2	3	4	5
297788	वा अ	रणजीत सिंह	क्लर्क जी डी	04.01.2003
298663	वा अ	सुलेख सिंह	क्लर्क जी डी	10.06.2003
634822	वा अ	प्रदीप चटौपाध्याय	किप्टो ग्राफर	03.07.2002
647095	वा अ	बिरेन्द्र सिंह	किप्टो ग्राफर	03.07.2002
647471	वा अ	श्री भगवान सिंह	किप्टो ग्राफर	16.07.2003
647737	वा अ	नवल किशोर सिंह	किप्टो ग्राफर	05.07.2002
647855	वा अ	रामा शंकर प्रसाद	किप्टो ग्राफर	03.07.2002
647860	वा अ	प्रतोश दाश	किप्टो ग्राफर	03.07.2002
647965	वा अ	सोना राम चौधरी	किप्टो ग्राफर	05.07.2002
647976	वा अ	बी सुब्रमण्यम	किप्टो ग्राफर	07.07.2002
648321	वा अ	भरत रॉय	किप्टो ग्राफर	16.07.2003
648419	वा अ	सत्यपाल सिंह	किप्टो ग्राफर	18.07.2003
648688	वा अ	राम लखन यादव	किप्टो ग्राफर	20.07.2003
648846	वा अ	मोहम्मद मुश्तफा कमल	किप्टो ग्राफर	16.07.2003
648945	वा अ	इस्लाम खान	किप्टो ग्राफर	16.07.2003
649548	वा अ	रंजन कुमार सिन्हा	किप्टो ग्राफर	03.08.2003
649899	वा अ	कमलेश	किप्टो ग्राफर	16.07.2003
651064	वा अ	रविन्द्र कुमार जैना	किप्टो ग्राफर	03.07.2002
670041	वा अ	राम भवन	किप्टो ग्राफर	16.07.2003
694785	वा अ	राजपाल सिंह सनवाल	शिक्षा अनुदेशक	02.02.2002
694892	वा अ	चार्ल्स इजाक	शिक्षा अनुदेशक	02.02.2002
694896	वा अ	जॉर्ज मैथ्यु	शिक्षा अनुदेशक	02.02.2002
694900	वा अ	परमाशिव अधिमूलम	शिक्षा अनुदेशक	02.08.2002
694984	वा अ	बी एन मिश्रा	शिक्षा अनुदेशक	12.08.2002
694993	वा अ	हरि प्रसाद सिंह	शिक्षा अनुदेशक	03.07.2003
700014	वा अ	आर बी एस मनराल	शिक्षा अनुदेशक	01.07.2003
700017	वा अ	अनुप कुमार	शिक्षा अनुदेशक	12.08.2002
298755	वा अ	गया प्रसाद	उपस्कर सहायक	02.07.2002
610307	वा अ	राम सुरेश भारद्वाज	उपस्कर सहायक	02.05.2003
296221	वा अ	सिया राम सिंह	जी टी आई	09.06.2003
296226	वा अ	एन सी साह	जी टी आई	01.06.2003
610927	वा अ	श्रीधर प्रसाद शर्मा	जी टी आई	01.01.2004
611572	वा अ	प्रभाकर किशन महाजन	जी टी आई	04.08.2003



1	2	3	4	5
611766	वा अ	रविन्द्र कुमार चौहान	जी टी आई	04.08.2003
612884	वा अ	बलबीर सिंह	जी टी आई	03.02.2004
286383	वा अ	धर्मपाल सिंह खत्री	आई ए एफ (पी)	01.05.2003
286843	वा अ	जे पी पाण्डे	आई ए एफ (पी)	01.11.2002
286851	वा अ	अरविन्दस्नोक	आई ए एफ (पी)	04.01.2003
286861	वा अ	सत्यनारायण त्रिपाठी	आई ए एफ (पी)	01.11.2002
286965	वा अ	जे बैथा	आई ए एफ (पी)	03.11.2002
287075	वा अ	एम मुथैयान	आई ए एफ (पी)	03.11.2002
287098	वा अ	सुखबीर सिंह	आई ए एफ (पी)	02.01.2003
287184	वा अ	बी एन ठाकुर	आई ए एफ (पी)	02.01.2003
287212	वा अ	सुनील कुमार सामन्ता	आई ए एफ (पी)	03.05.2003
287216	वा अ	नन्दगोपाल बत्रा	आई ए एफ (पी)	01.05.2003
287396	वा अ	देवेन्द्र प्रसाद	आई ए एफ (पी)	03.05.2003
294656	वा अ	शिव शंकर साह	आई ए एफ (पी)	01.05.2003
242725	वा अ	मंगला प्रसाद चोबे	चिकित्सा सहायक	02.11.2002
242848	वा अ	एस सयैद बसीर अहमद	चिकित्सा सहायक	02.02.2003
618200	वा अ	कैलाश चन्द्र नायक	चिकित्सा सहायक	02.02.2003
632281	वा अ	राजेन्द्र प्रसाद आजाद	चिकित्सा सहायक	02.02.2003
631950	वा अ	रामनरेश सिंह	मेट सहायक	03.12.2002
285750	वा अ	बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह	एम टी फिटर	02.02.2002
287524	वा अ	सुजीत कुमार पाठक	एम टी फिटर	02.06.2002
295695	वा अ	सत्यनारायण परिहार	एम टी डी	03.06.2002
641232	वा अ	मंगल देव मिश्रा	फोटो फिटर	01.06.2003
604826	वा अ	वाई एम कृष्णा राव	रेडियो टेक	02.11.2002
632194	वा अ	गोविन्द बनिक	रेडियो टेक	01.11.2001
292248	वा अ	मोहन त्रिपाठी	एस ई डब्ल्यू	02.11.2002
292331	वा अ	विजय कुमार जैन	एस ई डब्ल्यू	02.08.2002
292762	वा अ	आर जे झा	एस ई डब्ल्यू	02.02.2003
292791	वा अ	प्रेम नाथ शॉ	एस ई डब्ल्यू	02.05.2003
601350	वा अ	आर बी एस कुशवाहा	टेलिस्ट आर टी ओ	03.08.2003
601461	वा अ	देवी लाल श्रीमली	टेलिस्ट आर टी ओ	03.08.2003
602147	वा अ	एस मैयापिल्लै	टेलिस्ट आर टी ओ	02.11.2002
602153	वा अ	भगत राम	टेलिस्ट आर टी ओ	02.11.2002

1	2	3	4	5
602392	वा अ	एस सेनगुप्ता	टेलिस्ट आर टी ओ	02.12.2002
602459	वा अ	श्रीकान्त विश्वकर्मा	टेलिस्ट आर टी ओ	03.01.2003
602988	वा अ	राजकुमार ओझा	टेलिस्ट आर टी ओ	03.06.2003
641877	वा अ	सुरेश सिंह	ए एफ फिटर	02.08.2002
641982	वा अ	राम प्रसाद डांगीवाल	ए एफ फिटर	02.08.2002
642862	वा अ	गुरमीत सिंह	ए एफ फिटर	03.02.2003
643407	वा अ	चन्द्रशेखर पाठक	ए एफ फिटर	03.02.2003
644183	वा अ	ओमशरण पाल खस्त्रिया	ए एफ फिटर	02.08.2002
644662	वा अ	महेन्द्र प्रसाद	ए एफ फिटर	02.08.2002
644667	वा अ	अशोक कुमार मिश्रा	ए एफ फिटर	02.10.2002
657890	वा अ	उपेन्द्र कुमार	ए एफ फिटर	02.10.2002
658194	वा अ	राम कृपाल वर्मा	ए एफ फिटर	02.07.2002
658694	वा अ	शिवानाथ सिंह	ए एफ फिटर	03.11.2002
659058	वा अ	धर्मपाल सिंह	ए एफ फिटर	02.12.2002
659103	वा अ	बुलगन दिगल	ए एफ फिटर	03.01.2003
659477	वा अ	हिरानन्द चौधरी	ए एफ फिटर	03.02.2003
659503	वा अ	नरेश लाल कर्ण	ए एफ फिटर	03.01.2003
659505	वा अ	रघुराम पटनायक	ए एफ फिटर	03.02.2003
659760	वा अ	दिनेश चन्द्र यादव	ए एफ फिटर	03.03.2003
659796	वा अ	शत्रुघन प्रसाद शुक्ला	ए एफ फिटर	03.03.2003
660240	वा अ	बलेश्वर सिंह प्रसाद	ए एफ फिटर	03.04.2003
660321	वा अ	अबनाश चन्द्र शर्मा	ए एफ फिटर	03.04.2003
660325	वा अ	मनोरंजन महाराणा	ए एफ फिटर	03.05.2003
660331	वा अ	श्रीनिवास शर्मा	ए एफ फिटर	03.05.2003
660723	वा अ	भरत लाल विश्वकर्मा	ए एफ फिटर	03.05.2003
281150	वा अ	सी आर रामाकृष्णा पिल्लै	इलैक्ट फिटर	02.06.2002
605629	वा अ	सतनाम सिंह	इलैक्ट फिटर	02.06.2002
607295	वा अ	सतीश रावत	इलैक्ट फिटर	08.01.2003
607901	वा अ	अमल कृष्णा नाथ	इलैक्ट फिटर	01.11.2002
609164	वा अ	रेशम सिंह	इलैक्ट फिटर	02.11.2001
609734	वा अ	अशोक कुमार मित्तल	इलैक्ट फिटर	02.11.2001
609837	वा अ	राजेन्द्रा	इलैक्ट फिटर	03.02.2002
609891	वा अ	गुरजीत सिंह	इलैक्ट फिटर	02.07.2002

1	2	3	4	5
641651	वा अ	लक्ष्मण सिंह बिष्ट	इंजन फिटर	03.04.2003
643097	वा अ	जनेश्वर सिंह	इंजन फिटर	03.02.2003
643488	वा अ	रमेश कुमार	इंजन फिटर	03.02.2003
643579	वा अ	अशोक कुमार	इंजन फिटर	03.07.2002
643927	वा अ	अरविन्द कुमार सिन्हा	इंजन फिटर	02.10.2002
643966	वा अ	शम्भु नाथ शर्मा	इंजन फिटर	03.07.2002
644341	वा अ	लक्ष्मी नारायण पुरी	इंजन फिटर	03.07.2002
644380	वा अ	विश्वानाथ सिंह	इंजन फिटर	02.11.2002
644390	वा अ	दिनेश कुमार सिन्हा	इंजन फिटर	03.07.2002
644775	वा अ	मन्दा परशुराम	इंजन फिटर	03.07.2002
644787	वा अ	ब्रजेश कुमार	इंजन फिटर	03.04.2003
644858	वा अ	सुरेश चन्द आजाद	इंजन फिटर	03.04.2003
658484	वा अ	ओम कुमार अवस्थी	इंजन फिटर	03.08.2002
659025	वा अ	दिनेश कुमार वर्मा	इंजन फिटर	03.04.2003
659056	वा अ	दिनानाथ ओझा	इंजन फिटर	03.02.2003
659702	वा अ	गोपाल बर्मन	इंजन फिटर	03.04.2003
606908	वा अ	राम सिंह	इंसट फिटर	03.06.2002
608402	वा अ	जगदीश महाराज	इंसट फिटर	03.06.2002
608935	वा अ	विवेन्द्र सिंह वर्मा	इंसट फिटर	01.11.2002
609558	वा अ	वेद प्रकाश रॉय	इंसट फिटर	03.06.2002
609708	वा अ	राम प्रवेश सिंह	इंसट फिटर	03.07.2002
650016	वा अ	युगल किशोर प्रसाद	इंसट फिटर	03.07.2002
289845	वा अ	नन्द किशोर नन्दा	रेडियो फिटर	03.05.2003
604725	वा अ	राम गोपाल सिंह थैनवा	रेडियो फिटर	02.07.2002
631890	वा अ	एन डी चांग देव	रेडियो फिटर	02.07.2002
632218	वा अ	सच्चिदानन्द गैरोला	रेडियो फिटर	02.07.2002
632582	वा अ	ललन प्रसाद सिंह	रेडियो फिटर	05.02.2003
633256	वा अ	गुलाब चन्द राम	रेडियो फिटर	04.04.2002
633300	वा अ	गगन बिहारी बराल	रेडियो फिटर	02.07.2002
633641	वा अ	अनुप दास	रेडियो फिटर	02.09.2002
292240	वा अ	बिरेन्द्र कुमार सिंह	वेपन फिटर	01.11.2003
292989	वा अ	सत्यप्रकाश डेका	वेपन फिटर	01.05.2002
296715	वा अ	पूर्ण चन्द बेहरा	वेपन फिटर	02.11.2002

1	2	3	4	5
297046	वा अ	शंकर सिंह यादव	वेपन फिटर	02.11.2002
642315	वा अ	एम बालासुब्रमण्यम	वेपन फिटर	02.01.2003
642386	वा अ	जसमेर सिंह	वेपन फिटर	05.02.2003
643683	वा अ	राजेन्द्र सिंह दलाल	वेपन फिटर	03.06.2003
643696	वा अ	रामशंकर मेहतो	वेपन फिटर	05.04.2003
643745	वा अ	केशव प्रसाद यादव	वेपन फिटर	05.04.2003
644091	वा अ	भंवर लाल जाट	वेपन फिटर	03.06.2003
644580	वा अ	प्रेम चन्द्र बाजपेयी	वेपन फिटर	01.11.2003
638043	वा अ	आर पी मिश्रा	पी एम एफ (इ)	03.03.2004
653195	वा अ	जीत राम वर्मा	पी एम एफ (इ)	03.03.2004
662569	वा अ	शुशान्त कुमार मुखर्जी	पी एम एफ (एम)	16.07.2003
292179	वा अ	चन्देश्वर बिन्द	डब्ल्यू एस फिट (बी)	01.02.2003
292419	वा अ	शिवनन्दन यादव	डब्ल्यू एस फिट (बी)	01.01.2003
292425	वा अ	खुशवंत सिंह	डब्ल्यू एस फिट (बी)	03.02.2003
292393	वा अ	सुभाष दास	डब्ल्यू एस फिट (सी)	01.12.2002
292422	वा अ	सिया राम प्रसाद	डब्ल्यू एस फिट (सी)	01.12.2002
292504	वा अ	ईश्वर सिंह	डब्ल्यू एस फिट (सी)	01.12.2002
292559	वा अ	महेश प्रसाद सिंह	डब्ल्यू एस फिट (सी)	03.04.2003
292676	वा अ	बोरिक यादव	डब्ल्यू एस फिट (सी)	03.10.2003
292707	वा अ	बलबीर सिंह	डब्ल्यू एस फिट (सी)	03.10.2003
292714	वा अ	कुलवन्त सिंह सेहमी	डब्ल्यू एस फिट (सी)	03.10.2003
642338	वा अ	दिनेश चन्द्र दैमारी	डब्ल्यू एस फिट (एम)	02.02.2002
643219	वा अ	समीरन चक्रवर्ती	डब्ल्यू एस फिट (एम)	02.02.2002
662540	वा अ	एम दास	पी एम एफ (एम)	16.07.2003
667330	वा अ	डब्ल्यू पी शंकर	पी एम एफ (एम)	16.07.2003
632593	वा अ	कन्हैया लाल साह	रेडियो टेक	04.11.2002
296435	वा अ	पुरुषोत्तम झा	ए सी एच जी डी	04.12.2002
642889	वा अ	सुशील कुमार	इंजन फिटर	01.06.2001
650328	वा अ	नरेन्द्र कुमार कौशिक	इंसट फिटर	02.02.2003
650512	वा अ	ओम प्रकाश श्योरान	इंसट फिटर	02.02.2003
292203	वा अ	सोमानन्दन के	एस ई डब्ल्यू	15.07.2003
293420	वा अ	रविन्द्र कुमार	एस ई डब्ल्यू	02.06.2003
641444	वा ब	रोहताश यादव	एस ई डब्ल्यू	02.11.2003

1	2	3	4	5
642023	वा अ	देवकी नन्दन	एस ई डब्ल्यू	04.02.2004
642052	वा अ	जयकिशोर प्रसाद जगत	एस ई डब्ल्यू	02.11.2003
644048	वा अ	विजय कुमार त्रिपाठी	एस ई डब्ल्यू	04.02.2004
644443	वा अ	रियाजुद्दीन	एस ई डब्ल्यू	02.03.2004
644454	वा अ	उमेश चन्द्र भट्ट	एस ई डब्ल्यू	02.03.2004
613528	वा अ	एम पापा राव बालगी	जी टी आई	03.04.2004
613608	वा अ	साहिद अलि	जी टी आई	09.06.2004
614803	वा अ	बी के साहू	जी टी आई	09.06.2004
638901	वा अ	एस बी बेदुबैल्यु	पी एम एफ (इ)	01.03.2005
673000	वा अ	एन सी अर्सल	पी एम एफ (इ)	01.03.2005
662628	वा अ	बी बी महापात्रा	पी एम एफ (एम)	13.07.2004
662672	वा अ	लक्ष्मण नाथ नायक	पी एम एफ (एम)	13.07.2004
665921	वा अ	जगदीश कुमार	पी एम एफ (एम)	05.08.2004
668333	वा अ	पी सी शरिया	पी एम एफ (एम)	13.07.2004
668838	वा अ	टी आर जावन्त राव	पी एम एफ (एम)	05.08.2004
668913	वा अ	आर एस बिष्ट	पी एम एफ (एम)	13.07.2004
669096	वा अ	हरेन्द्र साह	पी एम एफ (एम)	13.07.2004
610220	वा अ	रण सिंह	इंजन फिटर	02.01.2004
613153	वा अ	त्रिलोक चन्द रोजी चन्द	इंजन फिटर	02.01.2004
641302	वा अ	देवेन्द्र सिंह ग्रेवाल	इंजन फिटर	15.07.2003
641357	वा अ	उपेन्द्र राय	इंजन फिटर	02.01.2004
642126	वा अ	एफ एच अंसारी	इंजन फिटर	02.01.2004
642439	वा अ	डी के पाण्डा	इंजन फिटर	02.01.2004
642478	वा अ	राम सुरेश सिंह	इंजन फिटर	02.01.2004
642577	वा अ	विवेन्द्र कुमार	इंजन फिटर	03.04.2004
642766	वा अ	राजेन्द्र वर्मा	इंजन फिटर	02.01.2004
643089	वा अ	साहजानन्द सिंह	इंजन फिटर	02.01.2004
643173	वा अ	राम शंकर विरदोई	इंजन फिटर	02.01.2004
643440	वा अ	मदन मोहन दास	इंजन फिटर	02.01.2004
643501	वा अ	किरण सिंह	इंजन फिटर	03.05.2003
643530	वा अ	एस के सिंह	इंजन फिटर	09.07.2002
643548	वा अ	एस एस नेलीस्सरी	इंजन फिटर	02.01.2004
643851	वा अ	अशोक कुमार बत्तीश	इंजन फिटर	02.01.2004

1	2	3	4	5
643888	वा अ	राम प्रवेश सिंह	इंजन फिटर	02.01.2004
643900	वा अ	जगरूप सिंह	इंजन फिटर	02.01.2004
643922	वा अ	सुरेश प्रसाद सिंह	इंजन फिटर	02.01.2004
643981	वा अ	रविन्द्र तिवारी	इंजन फिटर	03.05.2003
644356	वां अ	डी सी साहू	इंजन फिटर	03.05.2003
644789	वा अ	छोटे लाल प्रसाद चौधरी	इंजन फिटर	03.05.2003
657655	वा अ	राजेन्द्र प्रसाद पाशवान	इंजन फिटर	03.05.2003
658962	वा अ	तरकेश्वर प्रसाद	इंजन फिटर	03.05.2003
659044	वा अ	विश्वदेव प्रसाद सिंह	इंजन फिटर	02.06.2003
659051	वा अ	रामजी प्रसाद	इंजन फिटर	03.05.2003
659070	वा अ	रामेश्वर सिंह	इंजन फिटर	02.06.2003
659245	वा अ	प्रकाशन रामानाथन	इंजन फिटर	03.05.2003
659406	वा अ	सतपाल सिंह भारद्वाज	इंजन फिटर	02.06.2003
659511	वा अ	महेश्वर महापात्रा	इंजन फिटर	03.05.2003
659519	वा अ	कैलाश चन्द शर्मा	इंजन फिटर	02.06.2003
659757	वा अ	महेश कुमार सागर	इंजन फिटर	03.05.2003
659784	वा अ	रमेश चन्द्र यादव	इंजन फिटर	03.05.2003
659787	वा अ	राधेश्याम बाथम	इंजन फिटर	02.06.2003
659807	वा अ	समीर बनीक	इंजन फिटर	03.05.2003
659857	वा अ	मोहम्मद सुफियां	इंजन फिटर	02.06.2003
659861	वा अ	एस एन पाण्डे	इंजन फिटर	02.06.2003
659925	वा अ	कुलवन्त सिंह	इंजन फिटर	02.06.2003
659953	वा अ	विजय बेहादुर यादव	इंजन फिटर	03.05.2003
660007	वा अ	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	इंजन फिटर	03.05.2003
660015	वा अ	विमल नारायण त्रिवेदी	इंजन फिटर	05.04.2004
660025	वा अ	गोपीनाथ सिंह	इंजन फिटर	05.04.2004
660032	वा अ	रणधीर सिंह	इंजन फिटर	05.04.2004
660061	वा अ	भूपेन्द्र सिंह रवि चन्द	इंजन फिटर	05.04.2004
660128	वा अ	सुभाष चन्द्र सिंह	इंजन फिटर	05.04.2004
660136	वा अ	शिवनाथ सिंह	इंजन फिटर	05.04.2004
660455	वा अ	सुदर्शन जैन	इंजन फिटर	05.04.2004
660734	वा अ	रंजन कुमार	इंजन फिटर	05.04.2004
660775	वा अ	शंभु शरण झा	इंजन फिटर	05.04.2004

1	2	3	4	5
660808	वा अ	राधा मोहन	इंजन फिटर	05.04.2004
286370	वा अ	शिवजी सिंह	ए सी एच जी डी	12.06.2004
286379	वा अ	पेम नारायण	ए सी एच जी डी	06.12.2003
287591	वा अ	प्रफुल्ल कुमार पटनायक	ए सी एच जी डी	06.12.2003
287941	वा अ	बलबीर सिंह	ए सी एच जी डी	01.11.2004
292573	वा अ	गुरुदेव सिंह	ए सी एच जी डी	10.06.2004
293186	वा अ	ब्रिज भुषण प्रसाद	ए सी एच जी डी	10.06.2004
293374	वा अ	कृष्ण भारद्वाज	ए सी एच जी डी	10.06.2004
294705	वा अ	हिरा लाल शर्मा	ए सी एच जी डी	03.06.2003
294848	वा अ	टी बालासुब्रमण्यम	ए सी एच जी डी	01.06.2004
295046	वा अ	बिन्देश्वरी सिंह	ए सी एच जी डी	06.12.2003
298186	वा अ	मीहीर भट्टाचार्य	ए सी एच जी डी	06.12.2003
298391	वा अ	रविन्द्र प्रसाद सिंह	ए सी एच जी डी	01.06.2004
299615	वा अ	पखेर राम	ए सी एच जी डी	06.12.2003
299850	वा अ	उमाशंकर सिंह	ए सी एच जी डी	06.12.2003
604099	वा अ	के सी दास	ए सी एच जी डी	01.11.2004
610001	वा अ	राम अवतार प्रसाद	ए सी एच जी डी	10.06.2004
610019	वा अ	लखन लाल मीडक	ए सी एच जी डी	06.12.2003
611330	वा अ	ए आई थोमस	ए सी एच जी डी	01.11.2004
611995	वा अ	ए एस एस राव	ए सी एच जी डी	10.06.2004
611996	वा अ	ए मुदुली	ए सी एच जी डी	01.11.2004
612260	वा अ	विजय राम पोखरियाल	ए सी एच जी डी	01.11.2004
615941	वा अ	धर्म देव चौबे	ए सी एच जी डी	01.11.2004
299173	वा अ	श्री कृष्ण यादव	अकाउंट क्लर्क	19.08.2003
299399	वा अ	हमीर राम चौधरी	अकाउंट क्लर्क	03.08.2003
299503	वा अ	उपेन्द्र सरूप सेठी	अकाउंट क्लर्क	03.08.2003
299526	वा अ	हेमकरण	अकाउंट क्लर्क	19.08.2003
299576	वा अ	जगदीश नारायण द्विवेदी	अकाउंट क्लर्क	03.08.2003
299679	वा अ	बिरेन्द्र कुमार सेठी	अकाउंट क्लर्क	19.08.2003
299684	वा अ	देवनाथ राय	अकाउंट क्लर्क	19.08.2003
299708	वा अ	बी एस मुरकुटे	अकाउंट क्लर्क	19.08.2003
610041	वा अ	जसमेर सिंह	अकाउंट क्लर्क	01.06.2004
610144	वा अ	आजाद सिंह	अकाउंट क्लर्क	01.06.2004

1	2	3	4
610185	वा अ	साहिब सिंह	अकाउंट क्लर्क
610454	वा अ	शशी कान्त महाराणा	अकाउंट क्लर्क
610650	वा अ	सी टी राजन	अकाउंट क्लर्क
610673	वा अ	ललता प्रसाद मिश्रा	अकाउंट क्लर्क
611049	वा अ	ओम प्रकाश भारद्वाज	अकाउंट क्लर्क
611534	वा अ	निरंजन शर्मा	अकाउंट क्लर्क
611994	वा अ	आर एम नायक	अकाउंट क्लर्क
612394	वा अ	रतन कुमार मुखोपाध्याय	अकाउंट क्लर्क
612714	वा अ	देवीलाल चौहान	अकाउंट क्लर्क
613043	वा अ	दीपक कुमार मुखर्जी	अकाउंट क्लर्क
613138	वा अ	शयोनन्दन प्रसाद	अकाउंट क्लर्क
613497	वा अ	रतन चन्द्र राणा	अकाउंट क्लर्क
614032	वा अ	पी शंकरानारायण	अकाउंट क्लर्क
614132	वा अ	राम अकबाल सिंह	अकाउंट क्लर्क
614408	वा अ	दिनेश्वर प्रसाद सिंह	अकाउंट क्लर्क
614465	वा अ	सिराजुद्दीन	अकाउंट क्लर्क
614939	वा अ	शिवनाथ सिंह	अकाउंट क्लर्क
299237	वा अ	सत्यनारायण दुबे	क्लर्क जी डी
299262	वा अ	महिधर तालुकदार	क्लर्क जी डी
299269	वा अ	परमात्मा सिंह	क्लर्क जी डी
299270	वा अ	उमेश चन्द्र ठाकुर	क्लर्क जी डी
299318	वा अ	सिमाचला पाण्डा	क्लर्क जी डी
299319	वा अ	बसंत कुमार होता	क्लर्क जी डी
299323	वा अ	संकरा सीता राम	क्लर्क जी डी
299325	वा अ	प्रहलाद साहु	क्लर्क जी डी
299340	वा अ	प्रदीप सी एच महन्ता	क्लर्क जी डी
299350	वा अ	नकुल सी एच साकिवा	क्लर्क जी डी
299385	वा अ	एम पी सुरेश कुमार	क्लर्क जी डी
299479	वा अ	गिरिश चन्द्र मिश्रा	क्लर्क जी डी
299498	वा अ	गुरुदेव चन्द सैनी	क्लर्क जी डी
299501	वा अ	बाग सिंह	क्लर्क जी डी
299515	वा अ	नितिश चन्द्र चंदा	क्लर्क जी डी
299520	वा अ	परमजीत सिंह परिहार	क्लर्क जी डी



1	2	3	4	5
299552	वा अ	अनवर अहमद खान	क्लर्क जी डी	13.12.2003
299666	वा अ	बी के धोप चौधरी	क्लर्क जी डी	13.12.2003
299737	वा अ	शिव कुमार	क्लर्क जी डी	13.12.2003
299759	वा अ	जयप्रकाश सहरावत	क्लर्क जी डी	13.12.2003
299770	वा अ	प्रभुदयाल	क्लर्क जी डी	13.12.2003
299866	वा अ	गिरिश नारायण सिंह	क्लर्क जी डी	13.12.2003
299887	वा अ	नन्दा लाल घोष	क्लर्क जी डी	03.01.2004
602751	वा अ	एन विजय कुमार	क्लर्क जी डी	13.12.2003
610104	वा अ	बी मोहन	क्लर्क जी डी	03.01.2004
610355	वा अ	राम अवतार	क्लर्क जी डी	03.01.2004
610564	वा अ	भरत सिंह चौहान	क्लर्क जी डी	08.07.2004
610583	वा अ	गौरीशंकर रॉय	क्लर्क जी डी	03.01.2004
610690	वा अ	सिराजुद्दीन अंसारी	क्लर्क जी डी	03.01.2004
610899	वा अ	तरूण कान्ती सिंघा	क्लर्क जी डी	03.01.2004
611013	वा अ	अली अकबर	क्लर्क जी डी	05.01.2004
611061	वा अ	श्री नारायण	क्लर्क जी डी	03.01.2004
611172	वा अ	राजेन्द्र प्रसाद	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611234	वा अ	लोकनाथ बेहरा	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611237	वा अ	पूर्ण चन्द साहु	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611402	वा अ	दयानन्द प्रसाद	क्लर्क जी डी	08.07.2004
611495	वा अ	दुर्योधन सिंह चौहान	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611575	वा अ	उत्तम कुमार आर्य	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611576	वा अ	सतपाल राजपूत	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611674	वा अ	कामख्या पॉल	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611688	वा अ	टेक सिंह	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611751	वा अ	श्री गोविन्द चन्द्र परिदा	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611761	वा अ	दिनेश कुमार शुक्ला	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611872	वा अ	ए राधाकृष्णन	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611887	वा अ	हरसरण सिंह	क्लर्क जी डी	08.07.2004
611927	वा अ	गुरमीत सिंह मुलतानी	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611934	वा अ	नरेन्द्र सिंह	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611944	वा अ	शिवशंकर मण्डल	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611959	वा अ	कन्हैया लाल पाण्डे	क्लर्क जी डी	06.07.2004
612153	वा अ	ओम प्रकाश सती	क्लर्क जी डी	06.07.2004

1	2	3	4	5
612154	वा अ	बलबीर सिंह दहिया	क्लर्क जी डी	06.07.2004
612238	वा अ	के के थम्पी चैरायील	क्लर्क जी डी	06.07.2004
612352	वा अ	अमर चन्द बिशनोई	क्लर्क जी डी	06.07.2004
612410	वा अ	कंचन राम	क्लर्क जी डी	06.07.2004
612423	वा अ	रघुवीर सरण रावत	क्लर्क जी डी	08.07.2004
612721	वा अ	राजसेखरन नायर पी जी	क्लर्क जी डी	08.07.2004
644878	वा अ	राजेन्द्र प्रसाद यादव	एस ई डब्ल्यू	02.03.2004
604636	वा अ	एम एम हुसैन	ए एफ एस ओ	03.04.2004
615887	वा अ	नूर मोहम्मद	ए एफ एस ओ	03.04.2004
631576	वा अ	सैलैन घोष	ए एफ एस ओ	13.07.2004
631688	वा अ	बी सी बिश्वाश	ए एफ एस ओ	12.10.2003
631848	वा अ	उमेश चन्द्र पाण्डे	ए एफ एस ओ	03.04.2004
631948	वा अ	जगदीश रॉय	ए एफ एस ओ	13.07.2004
632049	वा अ	शमसूल हक	ए एफ एस ओ	13.07.2004
632210	वा अ	सतीश चन्द शर्मा	ए एफ एस ओ	13.07.2004
632243	वा अ	शिवनाथ	ए एफ एस ओ	12.10.2003
632295	वा अ	श्री कृष्ण प्रसाद यादव	ए एफ एस ओ	08.10.2003
632418	वा अ	श्याम बिहारी सिंह	ए एफ एस ओ	03.04.2004
632596	वा अ	महाबीर सिंह	ए एफ एस ओ	03.04.2004
632651	वा अ	रिचर्ड एम डी	ए एफ एस ओ	03.04.2004
632734	वा अ	रवि कुमार	ए एफ एस ओ	03.04.2004
632968	वा अ	सुलतान सिंह	ए एफ एस ओ	05.04.2004
633115	वा अ	नवल किशोर सिंह	ए एफ एस ओ	08.10.2003
633148	वा अ	धिरेंद्र कुमार पी एस	ए एफ एस ओ	08.10.2003
633165	वा अ	मोहम्मद सहाबुद्दीन	ए एफ एस ओ	08.10.2003
698842	वा अ	रामकिशोर चतुर्वेदी	कैट असिस्टेंट	04.06.2004
610479	वा अ	नगेन्द्र प्रसाद	कैट असिस्टेंट	04.12.2003
611467	वा अ	मुरुगन	कैट असिस्टेंट	04.06.2004
611738	वा अ	सत्यदेव ओझा	कैट असिस्टेंट	04.12.2003
611928	वा अ	बलकार सिंह	कैट असिस्टेंट	04.12.2003
612427	वा अ	अजय कुमार साह	कैट असिस्टेंट	04.06.2004
612560	वा अ	सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज	कैट असिस्टेंट	04.06.2004
613419	वा अ	बिरेन्द्र कुमार सिंह	कैट असिस्टेंट	03.10.2004

1	2	3	4	5
613485	वा अ	दिगम्बर सिंह नेगी	कैट असिस्टेंट	03.10.2004
615719	वा अ	साहब सिंह	कैट असिस्टेंट	04.06.2004
625770	वा अ	समुदर सिंह	रेडार फिटर	03.12.2004
625775	वा अ	जितेन्द्र सिंह यादव	रेडार फिटर	03.12.2004
625779	वा अ	सत्यनारायण दीक्षित	रेडार फिटर	03.12.2004
625980	वा अ	रामानन्द यादव	रेडार फिटर	03.12.2004
625985	वा अ	नरेन्द्र कुमार त्यागी	रेडार फिटर	03.12.2004
625992	वा अ	सुशील कुमार कौशिक	रेडार फिटर	03.12.2004
625995	वा अ	जसविन्दर सिंह मान	रेडार फिटर	03.12.2004
626053	वा अ	विकेश खुराना	रेडार फिटर	03.12.2004
626092	वा अ	श्री श्रीधर साहु	रेडार फिटर	03.12.2004
626307	वा अ	श्यामु यादव	रेडार फिटर	03.12.2004
626396	वा अ	सुरेश चन्द मैथानी	रेडार फिटर	03.12.2004
626435	वा अ	प्रभात सिंह जमवाल	रेडार फिटर	03.12.2004
626799	वा अ	जय सिंह	रेडार फिटर	03.12.2004
638713	वा अ	शेर बहादुर सिंह	रेडार फिटर	03.12.2004
638748	वा अ	सुरेश पाल चोरन	रेडार फिटर	03.12.2004
638770	वा अ	दिनेश कुमार	रेडार फिटर	03.12.2004
638771	वा अ	कुलबीर सिंह रावत	रेडार फिटर	03.12.2004
638855	वा अ	राजेश कुमार सिंह	रेडार फिटर	03.12.2004
638871	वा अ	सधन कुमार चौधरी	रेडार फिटर	03.12.2004
638930	वा अ	संकरन रविचन्द्रन	रेडार फिटर	03.12.2004
639159	वा अ	समुन्दर सिंह छैल	रेडार फिटर	03.12.2004
639163	वा अ	मणी कान्त	रेडार फिटर	03.12.2004
639250	वा अ	निरोद कुमार जैना	रेडार फिटर	03.12.2004
639271	वा अ	शिव कुमार झा	रेडार फिटर	03.12.2004
639285	वा अ	होशियार सिंह यादव	रेडार फिटर	03.12.2004
639309	वा अ	प्रकाश चन्द पोखरियाल	रेडार फिटर	03.12.2004
639336	वा अ	बिजेन्द्र सिंह बिष्ट	रेडार फिटर	03.12.2004
639462	वा अ	बलन मनी	रेडार फिटर	03.12.2004
639545	वा अ	नरसी दास	रेडार फिटर	03.12.2004
639563	वा अ	सतबीर सिंह जांगडा	रेडार फिटर	03.12.2004
639590	वा अ	सुरेन्द्र सिंह यादव	रेडार फिटर	03.12.2004

1	2	3	4	5
639601	वा अ	बेगराज सिंह	रेडार फिटर	03.12.2004
639625	वा अ	उदयान शर्मा	रेडार फिटर	03.12.2004
639630	वा अ	राम कृष्ण पाल	रेडार फिटर	03.12.2004
639641	वा अ	जग जीवन लाल	रेडार फिटर	03.12.2004
651149	वा अ	दिलबाग सिंह सांगवान	रेडार फिटर	13.07.2004
653826	वा अ	ए एल पाण्डे	रेडार फिटर	03.12.2004
653850	वा अ	जय भगवान	रेडार फिटर	03.12.2004
653862	वा अ	आदित्य नारायण	रेडार फिटर	03.12.2004
653914	वा अ	अवधेश सिंह यादव	रेडार फिटर	03.12.2004
653982	वा अ	गोतम कुमार चक्रवर्ती	रेडार फिटर	03.12.2004
654046	वा अ	रतन कुमार मिश्रा	रेडार फिटर	03.12.2004
654062	वा अ	इन्द्रपाल गुप्ता	रेडार फिटर	03.12.2004
654103	वा अ	मुकेश कुमार	रेडार फिटर	03.12.2004
654125	वा अ	सुरेश कुमार यादव	रेडार फिटर	03.12.2004
654200	वा अ	सुभाष चन्द्र	रेडार फिटर	03.12.2004
654205	वा अ	विरेन्द्र मिश्रा	रेडार फिटर	03.12.2004
654212	वा अ	चन्द्र किशोर त्रिपाठी	रेडार फिटर	03.12.2004
654221	वा अ	अलि हसन खान	रेडार फिटर	03.12.2004
654228	वा अ	उदयवीर सिंह	रेडार फिटर	03.12.2004
654231	वा अ	शिवा प्रसाद सिंह	रेडार फिटर	03.12.2004
654284	वा अ	रजनीश सिंह	रेडार फिटर	03.12.2004
654298	वा अ	श्याम लाल शर्मा	रेडार फिटर	03.12.2004
654311	वा अ	दीपक कुमार कुकुरेती	रेडार फिटर	03.12.2004
654317	वा अ	अनुप सिंह जाखड़	रेडार फिटर	03.12.2004
654319	वा अ	लज्जा राम शाकिया	रेडार फिटर	03.12.2004
654362	वा अ	विश्वजीत कुमार	रेडार फिटर	03.12.2004
654517	वा अ	राज कुमार राँय	रेडार फिटर	03.12.2004
654535	वा अ	देवराज सिंह नागर	रेडार फिटर	03.12.2004
654536	वा अ	रामनिवास	रेडार फिटर	03.12.2004
654538	वा अ	सुभाष चन्द्र यादव	रेडार फिटर	03.12.2004
654547	वा अ	रोहताश कुमार सिंह रावत	रेडार फिटर	03.12.2004
654564	वा अ	मनोज कुमार मल्होत्रा	रेडार फिटर	03.12.2004
654575	वा अ	योगेश चन्द्र	रेडार फिटर	03.12.2004

1	2	3	4	5
654599	वा अ	उमेश कुमार शर्मा	रेडार फिटर	03.12.2004
672907	वा अ	उल्लास चन्द्रहास देवते	रेडार फिटर	03.12.2004
673046	वा अ	हरिशंकर मिश्रा	रेडार फिटर	03.12.2004
673103	वा अ	योगेश कुमार शर्मा	रेडार फिटर	03.12.2004
673105	वा अ	सुहेन्दर पाल चौहान	रेडार फिटर	03.12.2004
673174	वा अ	गिरिश चन्द्र जोशी	रेडार फिटर	03.12.2004
673185	वा अ	राजेन्द्र सिंह गुप्ता	रेडार फिटर	03.12.2004
673191	वा अ	धर्मपाल सिंह सहरावत	रेडार फिटर	09.12.2004
673196	वा अ	रामबीर सिंह	रेडार फिटर	03.12.2004
642413	वा अ	चन्द्रिका शर्मा	ए एफ फिटर	02.08.2003
642809	वा अ	सी ए पाटिल	ए एफ फिटर	02.08.2003
643014	वा अ	जनार्दन प्रसाद	ए एफ फिटर	02.08.2003
643338	वा अ	एस एन रमाचन्द्रन	ए एफ फिटर	02.08.2003
643354	वा अ	किशोरी सिंह	ए एफ फिटर	02.08.2003
643789	वा अ	रामजी प्रसाद	ए एफ फिटर	02.08.2003
643791	वा अ	दया सिंह	ए एफ फिटर	02.08.2003
643844	वा अ	बनफल यादव	ए एफ फिटर	02.08.2003
644265	वा अ	अमर सिंह	ए एफ फिटर	02.10.2003
657650	वा अ	बुट्टा सिंह	ए एफ फिटर	02.10.2003
657889	वा अ	केदार प्रसाद सिंह	ए एफ फिटर	02.09.2003
658175	वा अ	मोहम्मद हसन	ए एफ फिटर	02.12.2003
659045	वा अ	बिजोय कुमार सिंह	ए एफ फिटर	02.10.2003
659065	वा अ	लाल बिहारी राय	ए एफ फिटर	02.10.2003
659066	वा अ	मिथलेश कुमार सिन्हा	ए एफ फिटर	02.10.2003
659344	वा अ	सोहन पाल सिंह	ए एफ फिटर	02.09.2003
659434	वा अ	राम बहादुर	ए एफ फिटर	02.09.2003
659443	वा अ	दमबेर सिंह	ए एफ फिटर	02.09.2003
659448	वा अ	दीप सिंह सिकोरिया	ए एफ फिटर	02.09.2003
659502	वा अ	ललित नारायण मिश्रा	ए एफ फिटर	02.09.2003
659735	वा अ	हरिश कुमार पाल	ए एफ फिटर	02.09.2003
659862	वा अ	बिरेन्द्र कुमार मिश्रा	ए एफ फिटर	02.09.2003
660200	वा अ	हरबंस सिंह चौहान	ए एफ फिटर	02.12.2003
660285	वा अ	दिलीप कुमार घोष	ए एफ फिटर	03.03.2003

1	2	3	4	5
660421	वा अ	अम्बा दत्त पाण्डे	ए एफ फिटर	02.09.2003
660449	वा अ	सुधान्सु शेखर दास	ए एफ फिटर	02.09.2003
660556	वा अ	सूर्य कान्त रॉय	ए एफ फिटर	02.09.2003
660654	वा अ	प्रदीप कुमार पुण्डीर	ए एफ फिटर	02.06.2003
660707	वा अ	शिवा प्रसाद दास	ए एफ फिटर	02.06.2003
660725	वा अ	सुरेन्द्र कुमार	ए एफ फिटर	02.06.2003
660732	वा अ	चन्द्र देव साह	ए एफ फिटर	02.06.2003
660736	वा अ	प्रदीप कुमार सिन्हा	ए एफ फिटर	03.05.2003
660742	वा अ	सच्चिदानन्द प्रसाद	ए एफ फिटर	02.06.2003
660785	वा अ	मनपाल	ए एफ फिटर	02.06.2003
660861	वा अ	राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	ए एफ फिटर	02.11.2003
660875	वा अ	अमरेश रॉय चौधरी	ए एफ फिटर	02.06.2003
660921	वा अ	संतोष कुमार घोष	ए एफ फिटर	02.09.2003
660988	वा अ	कृष्ण लाल	ए एफ फिटर	02.06.2003
661008	वा अ	मोहम्मद समीम अंसारी	ए एफ फिटर	02.09.2003
661012	वा अ	उमाशंकर सिंह	ए एफ फिटर	02.09.2003
661018	वा अ	शर्मानन्द सिंह	ए एफ फिटर	05.02.2003
661115	वा अ	उमेश दत्त शर्मा	ए एफ फिटर	02.11.2003
661120	वा अ	हरिनारायण शर्मा	ए एफ फिटर	02.12.2003
661145	वा अ	जगनाथ वर्मा	ए एफ फिटर	02.09.2003
661194	वा अ	राजकुमार तिवारी	ए एफ फिटर	02.09.2003
661211	वा अ	नरेन्द्र कुमार पुरोहित	ए एफ फिटर	02.10.2003
661243	वा अ	राम सिया	ए एफ फिटर	02.09.2003
662005	वा अ	रियाज अहमद खान	ए एफ फिटर	02.11.2003
661059	वा अ	ओंकार सिंह	ए एफ फिटर	02.10.2003
632473	वा अ	स्वर्ण सिंह	ए एफ एस ओ	07.08.2004
654255	वा अ	देबाज्योती डे	रेडार फिटर	03.12.2004
608184	वा अ	रमेश कुमार	उपस्कर सहायक	02.08.2003
610055	वा अ	कृष्ण सरूप गुप्ता	उपस्कर सहायक	02.02.2003
610575	वा अ	हर सिंह साह	उपस्कर सहायक	02.06.2003
610579	वा अ	सहदेव प्रसाद सिन्हा	उपस्कर सहायक	02.06.2003
610692	वा अ	रूद्रप्रताप द्विवेदी	उपस्कर सहायक	02.06.2003
610744	वा अ	चन्द्रपाल सिंह यादव	उपस्कर सहायक	02.11.2003

1	2	3	4	5
610832	वा अ	रामचन्द्र सहगल	उपस्कर सहायक	02.06.2003
610961	वा अ	वी शशीधरन	उपस्कर सहायक	02.06.2003
611024	वा अ	सुरेन्द्र प्रसाद प्रधान	उपस्कर सहायक	02.06.2003
611094	वा अ	एम एस गुलियानी	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611115	वा अ	विभूति भूषण यादव	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611209	वा अ	खेमचन्द जयसवाल	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611210	वा अ	ईश्वरी जोशी	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611213	वा अ	अजीत सिंह	उपस्कर सहायक	02.08.2003
611315	वा अ	के गोपीनाथन	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611409	वा अ	सूदेश्वर साहु	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611474	वा अ	विजय कुमार महाराणा	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611485	वा अ	सजीवन लाल शर्मा	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611502	वा अ	जी एल यादव	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611584	वा अ	ओम प्रकाश	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611585	वा अ	ईन्द्र सिंह मनाना	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611679	वा अ	टी सी जॉन	उपस्कर सहायक	15.07.2003
612497	वा अ	बनवारी लाल यादव	उपस्कर सहायक	02.08.2003
612642	वा अ	एम ए रिजवी	उपस्कर सहायक	02.08.2003
612792	वा अ	गुरमीत सिंह	उपस्कर सहायक	02.08.2003
612838	वा अ	सुरेन्द्र सिंह रावत	उपस्कर सहायक	02.08.2003
612946	वा अ	बुद्धि सागर त्रिपाठी	उपस्कर सहायक	02.08.2003
612987	वा अ	लक्ष्मण बेहरा	उपस्कर सहायक	02.08.2003
613160	वा अ	एस आर किशोर कासी प्रसाद	उपस्कर सहायक	02.09.2003
613250	वा अ	के केशवन	उपस्कर सहायक	02.09.2003
613492	वा अ	गजेन्द्र पाल सिंह	उपस्कर सहायक	02.09.2003
613493	वा अ	ऋषि पाल सिंह चौहान	उपस्कर सहायक	02.09.2003
613729	वा अ	बी एस साजवान	उपस्कर सहायक	02.09.2003
613797	वा अ	लक्ष्मी प्रसाद सिंह	उपस्कर सहायक	02.10.2003
613881	वा अ	अशोक कुमार	उपस्कर सहायक	02.10.2003
613972	वा अ	शिवदर्शन	उपस्कर सहायक	02.10.2003
614423	वा अ	राजकिशोर सिंह	उपस्कर सहायक	02.11.2003
614652	वा अ	ऋषि राम बहुगुणा	उपस्कर सहायक	02.11.2003
614689	वा अ	चौद सिंह देशवाल	उपस्कर सहायक	02.11.2003

1	2	3	4	5
614750	वा अ	अमर सिंह राठौड़	उपस्कर सहायक	02.11.2003
645255	वा अ	गुरबचन सिंह	उपस्कर सहायक	02.11.2003
645308	वा अ	चन्द्र शेखर एस जी	उपस्कर सहायक	02.12.2003
645344	वा अ	मधु सुदनन सी	उपस्कर सहायक	02.12.2003
643772	वा अ	भीम सेन सूर्या	ए एफ फिटर	02.06.2003
660572	वा अ	सुरेश कुमार छोक्कर	ए एफ फिटर	02.09.2003
660804	वा अ	भरमल बिशनोई	ए एफ फिटर	02.11.2003
642245	वा अ	सतीश कुमार ब्यास	इंजन फिटर	02.01.2004
287386	वा अ	एस एन बलनावर	आई ए एफ (पी)	02.08.2003
287551	वा अ	रतन चन्द चौहान	आई ए एफ (पी)	02.08.2003
287557	वा अ	अर्जुन कुमार सिंह	आई ए एफ (पी)	02.08.2003
287576	वा अ	आर एस परमार	आई ए एफ (पी)	02.09.2003
287704	वा अ	रामस्वामी एम	आई ए एफ (पी)	02.09.2003
287711	वा अ	हरपाल सिंह	आई ए एफ (पी)	02.08.2003
287721	वा अ	नगेन्द्र नाथ ओझा	आई ए एफ (पी)	02.09.2003
287744	वा अ	रघुनाथ सिंह राठौर	आई ए एफ (पी)	04.09.2003
287953	वा अ	राम प्रसाद मौर्या	आई ए एफ (पी)	06.09.2003
615309	वा अ	बलवान सिंह	आई ए एफ (पी)	03.11.2003
615314	वा अ	जी भारथी दासन	आई ए एफ (पी)	03.11.2003
615322	वा अ	ए भारथन	आई ए एफ (पी)	03.11.2003
615364	वा अ	सुदेश कुमार यादव	आई ए एफ (पी)	03.02.2004
615366	वा अ	रामकुमार धूल	आई ए एफ (पी)	03.01.2004
616025	वा अ	अमर सिंह	आई ए एफ (पी)	03.01.2004
616224	वा अ	बंसी लाल सूथार	आई ए एफ (पी)	03.01.2004
616239	वा अ	अमर नाथ	आई ए एफ (पी)	03.01.2004
616254	वा अ	कैलाश पाण्डे	आई ए एफ (पी)	13.02.2004
616761	वा अ	बी सुब्रमण्यम	आई ए एफ (पी)	01.05.2004
617027	वा अ	नारायण सिंह	आई ए एफ (पी)	04.06.2004
617258	वा अ	राजेन्द्र मण्डल	आई ए एफ (पी)	04.06.2004
617296	वा अ	जगजीवन गौरी	आई ए एफ (पी)	04.06.2004
617705	वा अ	जगदीश प्रसाद	आई ए एफ (पी)	04.06.2004
606829	वा अ	ईश्वर एस के	इंसट फिटर	02.08.2003
608791	वा अ	श्री भगवान प्रसाद	इंसट फिटर	02.01.2004



1	2	3	4	5
608910	वा अ	ए आर रामानन्द	इंसट फिटर	15.07.2003
609490	वा अ	अशोक कुमार सूद	इंसट फिटर	03.05.2003
609569	वा अ	ज्ञानेन्द्र सिंह	इंसट फिटर	03.05.2003
632057	वा अ	दुली चन्द	इंसट फिटर	02.02.2004
650148	वा अ	जय सिंह एस एस	इंसट फिटर	03.04.2003
650161	वा अ	परमल सिंह आर्या	इंसट फिटर	20.03.2003
650215	वा अ	जयपाल सिंह यादव	इंसट फिटर	20.03.2003
650216	वा अ	ईन्दराज सिंह नागर	इंसट फिटर	20.03.2003
650225	वा अ	लक्ष्मीनारायण पाण्डे	इंसट फिटर	20.03.2003
650257	वा अ	समीउद्दीन	इंसट फिटर	03.05.2003
650285	वा अ	प्रहलाद सिंह मानवे	इंसट फिटर	03.05.2003
650352	वा अ	गजेन्द्र प्रसाद सिंह	इंसट फिटर	20.03.2003
650523	वा अ	गुरनाम सिंह बापारै	इंसट फिटर	03.05.2003
297916	वा अ	नारायण कुमार	अकाउंट क्लर्क	01.06.2004
299495	वा अ	प्रकाश चन्द	अकाउंट क्लर्क	19.08.2003
610002	वा अ	बिन्देश्वरी प्रसाद त्रिपाठी	अकाउंट क्लर्क	01.06.2004
610763	वा अ	गोविन्द लाल धर	अकाउंट क्लर्क	08.08.2004
611874	वा अ	कृष्ण कुमार कटियार	अकाउंट क्लर्क	08.08.2004
611902	वा अ	गुरदयाल सिंह संधु	अकाउंट क्लर्क	08.08.2004
612109	वा अ	अर्जुन सिंह चन्देल	अकाउंट क्लर्क	08.08.2004
613291	वा अ	श्री कान्त मिश्रा	अकाउंट क्लर्क	10.08.2004
613627	वा अ	एस भट्टाचार्य	अकाउंट क्लर्क	12.08.2004
614862	वा अ	केमपन्ना छोगला	अकाउंट क्लर्क	01.01.2005
645031	वा अ	मोहन चन्द्र पाण्डे	अकाउंट क्लर्क	01.01.2005
645349	वा अ	रूपराम खोखर	अकाउंट क्लर्क	01.02.2005
242670	वा अ	रामशीस प्रसाद	चिकित्सा सहायक	02.06.2003
274844	वा अ	ललन प्रसाद यादव	चिकित्सा सहायक	02.06.2003
242876	वा अ	सुरेन्द्र कुमार सिंह	चिकित्सा सहायक	02.06.2003
242928	वा अ	डी के पाण्डा महापात्रा	चिकित्सा सहायक	02.06.2003
242948	वा अ	विजय कुमार त्यागी	चिकित्सा सहायक	02.06.2003
242961	वा अ	भुवनेश्वर शर्मा	चिकित्सा सहायक	02.06.2003
242967	वा अ	राम कुमार दिक्षित	चिकित्सा सहायक	02.06.2003
242977	वा अ	कश्मीर सिंह	चिकित्सा सहायक	15.07.2003

1	2	3	4	5
242982	वा अ	जागेश्वर सिंह	चिकित्सा सहायक	06.02.2004
243000	वा अ	हरेन्दर पाल सिंह	चिकित्सा सहायक	06.02.2004
632709	वा अ	ईन्द्रजीत ओझा	चिकित्सा सहायक	02.06.2003
650614	वा अ	मुरारी धर यादव	चिकित्सा सहायक	02.08.2004
655093	वा अ	रणवीर सिंह	चिकित्सा सहायक	08.02.2004
655159	वा अ	ए अली मलवान	चिकित्सा सहायक	10.02.2004
655204	वा अ	उदयशंकर	चिकित्सा सहायक	10.02.2004
655214	वा अ	केवल सिंह	चिकित्सा सहायक	12.02.2004
655303	वा अ	विष्णु कुमार	चिकित्सा सहायक	02.08.2004
655403	वा अ	राजेश्वर दुबे	चिकित्सा सहायक	02.08.2004
655454	वा अ	महेश्वर प्रधान	चिकित्सा सहायक	02.08.2004
655571	वा अ	सुभाष चन्द्र साह	चिकित्सा सहायक	02.08.2004
655626	वा अ	स्कंध गुप्ता	चिकित्सा सहायक	04.12.2004
286753	वा अ	ईन्द्र सिंह	एम टी फिटर	02.08.2003
286871	वा अ	जहर सिंह यादव	एम टी फिटर	04.10.2004
287171	वा अ	अब्दुल खैर खान	एम टी फिटर	02.09.2003
287621	वा अ	मुरलीधर	एम टी फिटर	02.02.2003
287663	वा अ	बी के चक्रवर्ती	एम टी फिटर	02.11.2002
615024	वा अ	जी सी मोहन्ती	एम टी फिटर	02.09.2003
615459	वा अ	दिनेश प्रसाद श्रीवास्तव	एम टी फिटर	15.07.2003
659312	वा अ	राधा मोहन	एम टी फिटर	02.11.2002
659689	वा अ	धूप चन्द तनवर	एम टी फिटर	02.12.2002
659764	वा अ	अजय कुमार पाण्डे	एम टी फिटर	02.12.2002
659779	वा अ	दशरथ सिंह	एम टी फिटर	02.12.2002
659791	वा अ	राम खिलावन सिंह	एम टी फिटर	02.04.2003
659850	वा अ	बबन प्रसाद सिंह	एम टी फिटर	02.03.2003
659919	वा अ	बलविन्दर सिंह	एम टी फिटर	02.04.2003
660174	वा अ	उमेश कुमार सिंह	एम टी फिटर	04.10.2004
660366	वा अ	देशराज राणा	एम टी फिटर	02.06.2003
603368	वा अ	सुभाष चन्द्र नन्दवाना	टेलिस्ट आर टी ओ	03.09.2004
611016	वा अ	जीत लाल गुप्ता	क्लर्क जी डी	03.01.2004
611176	वा अ	कुलदीप सिंह	क्लर्क जी डी	01.05.2004
611841	वा अ	रामचन्द्र देवनाथ	क्लर्क जी डी	01.05.2004
612165	वा अ	आर एस मधुसुधन राव	क्लर्क जी डी	06.07.2004

1	2	3	4	5
612349	वा अ	सुरेश चन्द्र सैनी	क्लर्क जी डी	06.07.2004
612454	वा अ	भौनी वेंकट राव	क्लर्क जी डी	08.07.2004
612787	वा अ	चन्द्र सिंह फरसवान	क्लर्क जी डी	10.07.2004
641418	वा अ	जयराज रामकृष्णा पिल्लै	क्लर्क जी डी	10.07.2004
641094	वा अ	बलवीन्द्र सिंह राणा	फोटो फिटर	01.02.2004
641197	वा अ	शेख खुशी मोहम्मद	फोटो फिटर	04.02.2004
642541	वा अ	रमजान अली	फोटो फिटर	01.08.2003
643188	वा अ	आर कलिअप्पन	फोटो फिटर	04.08.2003
644011	वा अ	अभय कुमार सिंह	फोटो फिटर	01.02.2004
644437	वा अ	उमाशंकर रॉय	फोटो फिटर	01.06.2004
291848	वा अ	संतोख सिंह स्पल	वेपन फिटर	01.06.2004
291932	वा अ	घनश्याम ओझा	वेपन फिटर	01.02.2004
292988	वा अ	सत्येन्द्र सिंह	वेपन फिटर	01.02.2004
297412	वा अ	पी कृष्णामूर्ती	वेपन फिटर	01.02.2004
612738	वा अ	रविन्द्र नाथ चटर्जी	वेपन फिटर	01.06.2004
642020	वा अ	रमेश चन्द्र दिक्षित	वेपन फिटर	04.11.2004
642036	वा अ	बिरेन्द्र भट्टा	वेपन फिटर	01.02.2004
642699	वा अ	मुत्तैया	वेपन फिटर	04.11.2004
642872	वा अ	रमेश चन्द्र कुशवाहा	वेपन फिटर	01.02.2004
643688	वा अ	सुकुमार गयेन	वेपन फिटर	01.06.2004
644080	वा अ	रविन्द्र नाथ साहु	वेपन फिटर	01.06.2004
660737	वा अ	प्रदीप कुमार महतो	ए एफ फिटर	02.12.2003
700605	वा अ	वी वी मुर्ती	शिक्षा अनुदेशक	01.01.2004
700811	वा अ	धिरेन्द्र कुमार दास	शिक्षा अनुदेशक	01.01.2004
725809	वा अ	ओंकार त्रिपाठी	शिक्षा अनुदेशक	03.01.2004
727083	वा अ	ए एस बिजु	शिक्षा अनुदेशक	01.01.2004
727446	वा अ	गोविन्द चन्द्र दास	शिक्षा अनुदेशक	01.01.2004
727449	वा अ	प्रसन्नता कुमार रथ	शिक्षा अनुदेशक	01.01.2004
728396	वा अ	पॉली जोसफ	शिक्षा अनुदेशक	03.01.2004
728555	वा अ	बसंत कुमार तरेनिया	शिक्षा अनुदेशक	03.06.2004
728557	वा अ	अमूल्य कुमार मोहन्ती	शिक्षा अनुदेशक	01.02.2004
728614	वा अ	अशोक कुमार खत्री	शिक्षा अनुदेशक	03.06.2004
728622	वा अ	दीपक कुमार मण्डल	शिक्षा अनुदेशक	03.06.2004

1	2	3	4	5
610753	वा अ	रमन कुट्टी विजय कुमार	उपस्कर सहायक	02.06.2003
610822	वा अ	गुरपाल सिंह कालरा	उपस्कर सहायक	02.06.2003
610959	वा अ	एम चन्द राणा	उपस्कर सहायक	02.06.2003
611413	वा अ	नन्द किशोर सिंह	उपस्कर सहायक	15.07.2003
611700	वा अ	सुरेश कुमार शर्मा	उपस्कर सहायक	02.08.2003
611707	वा अ	दर्शन सिंह	उपस्कर सहायक	02.08.2003
613306	वा अ	डी के शुक्ला	उपस्कर सहायक	02.09.2003
613659	वा अ	रवि कान्त	उपस्कर सहायक	02.09.2003
613817	वा अ	बिजोय चन्द मुखर्जी	उपस्कर सहायक	02.09.2003
614362	वा अ	राजेन्द्र कुमार	उपस्कर सहायक	02.10.2003
641633	वा अ	जगजीत सिंह सैनी	उपस्कर सहायक	02.08.2003
612939	वा अ	शिवमोहन सिंह चौहान	जी टी आई	01.03.2004
612940	वा अ	रामरज वर्मा	जी टी आई	01.03.2004
613315	वा अ	रफीउद्दीन	जी टी आई	01.04.2004
615340	वा अ	श्यामबहादुर शर्मा	आई ए एफ (पी)	03.11.2003
650145	वा अ	विवेन्द्र कुमार शर्मा	इंसट फिटर	03.04.2003
616075	वा अ	सदानन्द साहु	एम टी डी	10.02.2004
616311	वा अ	गोकुल बिहारी पात्रो	एम टी डी	01.03.2004
617128	वा अ	दामोदर बेलवाल	एम टी डी	01.06.2003
617135	वा अ	पी के जयाचन्द्रन नायर	एम टी डी	01.06.2003
617161	वा अ	इन्दल सिंह	एम टी डी	01.06.2003
617173	वा अ	शिवपाल	एम टी डी	16.07.2003
617259	वा अ	बिन्देश्वरी मण्डल	एम टी डी	16.07.2003
617323	वा अ	प्रतोप कुमार	एम टी डी	01.07.2003
617352	वा अ	रूपराम चौधरी	एम टी डी	16.07.2003
617353	वा अ	मिठा सिंह रावत	एम टी डी	01.07.2003
617383	वा अ	अरविन्द कुमार	एम टी डी	01.03.2004
617389	वा अ	योगेन्द्र कुमार दिक्षित	एम टी डी	01.07.2003
617727	वा अ	श्यामलाल सिंह	एम टी डी	03.08.2003
617742	वा अ	रमायण रॉय	एम टी डी	03.08.2003
617765	वा अ	दिव्या लोचन दास	एम टी डी	03.08.2003
617769	वा अ	दिनकर शंकर गडे	एम टी डी	03.08.2003
617797	वा अ	राजभानु सिंह	एम टी डी	03.08.2003

1	2	3	4	5
618014	वा अ	कपिल देव रॉय	एम टी डी	03.08.2003
618027	वा अ	स्वप्न कुमार भट्टाचार्य	एम टी डी	03.08.2003
618047	वा अ	अनुप कुमार चक्रवर्ती	एम टी डी	03.08.2003
618054	वा अ	राघवन नायर टी वी	एम टी डी	03.12.2003
618213	वा अ	रमाशंकर पचौरी	एम टी डी	03.12.2003
618348	वा अ	प्रभाकर पाण्डा	एम टी डी	03.12.2003
618397	वा अ	ओमप्रकाश	एम टी डी	03.12.2003
618496	वा अ	जवाहर लाल	एम टी डी	01.02.2004
618812	वा अ	अमरेन्द्र भट्टाचार्य	एम टी डी	10.02.2004
618854	वा अ	देवेन्द्र सिंह बहुरा	एम टी डी	10.02.2004
632180	वा अ	विजय कुमार विश्वकर्मा	एम टी डी	03.12.2003
638779	वा अ	अरविन्द कुमार	पी एम एफ (ई)	01.03.2005
654195	वा अ	बिपिन बिहारी पटनायक	पी एम एफ (ई)	01.03.2005
654304	वा अ	गौतम दत्ता	पी एम एफ (ई)	01.03.2005
669260	वा अ	योगेश्वर ओंकार राव सोनार	पी एम एफ (एम)	13.07.2004
631061	वा अ	एन के सिंह	रेडियो टेक	02.01.2003
631089	वा अ	निर्मल कुमार सरकार	रेडियो टेक	07.02.2003
631806	वा अ	राजेश कुमार छाबरा	रेडियो टेक	03.02.2003
632085	वा अ	महिन्द्रा बहादूर महिन्द्रा	रेडियो टेक	03.02.2003
632177	वा अ	सुबोध प्रसाद सिंह	रेडियो टेक	03.02.2003
632706	वा अ	ओम प्रकाश पौदार	रेडियो टेक	03.06.2003
632994	वा अ	कृष्ण देव पाठक	रेडियो टेक	03.04.2003
633013	वा अ	देवनारायण शर्मा	रेडियो टेक	03.11.2001
633038	वा अ	एच के पी लोराछिया	रेडियो टेक	07.02.2003
633202	वा अ	करनैल सिंह सैनी	रेडियो टेक	03.04.2003
633447	वा अ	दिनेश प्रसाद	रेडियो टेक	02.01.2003
633544	वा अ	विन्ध्याचल सिंह	रेडियो टेक	02.01.2003
633589	वा अ	सुरेन्द्र सिंह ठाकरन	रेडियो टेक	03.04.2003
633847	वा अ	अशोक पाल सिंह तेवतिया	रेडियो टेक	03.02.2003
633849	वा अ	मलखान सिंह	रेडियो टेक	03.04.2003
633913	वा अ	देशराज देशवाल	रेडियो टेक	03.06.2003
634132	वा अ	बिद्याधर लेंका	रेडियो टेक	03.02.2003
634295	वा अ	राजेन्द्र प्रताप सिंह	रेडियो टेक	02.01.2003

1	2	3	4	5
634391	वा अ	अरूणलप्पन लुईश	रेडियो टेक	03.06.2003
634484	वा अ	धिरेश्वर कलिता	रेडियो टेक	02.01.2003
292433	वा अ	रामाशंकर विश्वकर्मा	डब्ल्यू एस फिट (बी)	01.05.2003
292438	वा अ	सी एस कुशवाहा	डब्ल्यू एस फिट (बी)	05.10.2003
292439	वा अ	ज्ञान सिंह	डब्ल्यू एस फिट (बी)	01.05.2003
292450	वा अ	अवतार सिंह	डब्ल्यू एस फिट (बी)	03.10.2003
292601	वा अ	बशिष्ठ पाण्डे	डब्ल्यू एस फिट (सी)	07.10.2003
292800	वा अ	विश्वनाथ चक्रवर्ती	डब्ल्यू एस फिट (सी)	07.10.2003
292825	वा अ	मान सिंह	डब्ल्यू एस फिट (सी)	09.10.2003
293065	वा अ	पुरुषोत्तम लाल	डब्ल्यू एस फिट (सी)	14.07.2004
293402	वा अ	अमरजीत सिंह सिधु	डब्ल्यू एस फिट (सी)	14.07.2004
644914	वा अ	राजेन्द्र प्रसाद यादव	डब्ल्यू एस फिट (एम)	02.01.2003
657191	वा अ	उमाशंकर प्रसाद	डब्ल्यू एस फिट (एम)	02.06.2003
657474	वा अ	राम उज्जागर यादव	डब्ल्यू एस फिट (एम)	02.11.2002
648743	वा अ	नरपत सिंह राजपूत	क्रिप्टो ग्राफर	07.08.2003
601705	वा अ	बलवान सिंह	रेडियो फिटर	05.05.2003
602329	वा अ	लेखराम	रेडियो फिटर	05.05.2003
604203	वा अ	पदम चरण देहुरी	रेडियो फिटर	01.08.2003
604254	वा अ	पी डी जोशी	रेडियो फिटर	01.08.2003
632141	वा अ	जी ए राव	रेडियो फिटर	01.01.2004
632193	वा अ	कुलवन्त सिंह	रेडियो फिटर	01.02.2005
632260	वा अ	नगेन्द्र सिंह	रेडियो फिटर	01.04.2004
632563	वा अ	दिनेश कुमार गुप्ता	रेडियो फिटर	01.02.2005
632588	वा अ	रामनारायण सिंह	रेडियो फिटर	01.08.2003
632991	वा अ	प्रसिद्ध नारायण धर दुबे	रेडियो फिटर	01.07.2003
633023	वा अ	अरविन्द कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01.02.2005
633249	वा अ	मल्ल कुमार मजुमदार	रेडियो फिटर	01.08.2004
633291	वा अ	हरेंद्र सिंह	रेडियो फिटर	01.04.2004
633438	वा अ	ओमपाल सिंह सोयम	रेडियो फिटर	05.05.2003
633549	वा अ	रविन्द्र कुमार	रेडियो फिटर	01.08.2003
633673	वा अ	रणबीर सिंह लोचब	रेडियो फिटर	01.02.2005
633941	वा अ	गिरीजेश पाठक	रेडियो फिटर	01.07.2003
633970	वा अ	चतुर्भुज सिंह	रेडियो फिटर	01.02.2005

1	2	3	4	5
634257	वा अ	सेख मुस्ताख अहमद	रेडियो फिटर	01.11.2003
634292	वा अ	राम प्रसाद साव	रेडियो फिटर	01.08.2004
634589	वा अ	अशोक कुमार चन्द्रराम	रेडियो फिटर	05.05.2003
634655	वा अ	राधा गोविन्द ओझा	रेडियो फिटर	05.05.2003
634689	वा अ	मदन पाल सिंह	रेडियो फिटर	01.08.2003
634703	वा अ	सी एस शर्मा	रेडियो फिटर	05.05.2003
634780	वा अ	अरूण कुमार	रेडियो फिटर	01.08.2004
634793	वा अ	नारायण स्वामी नमलवर	रेडियो फिटर	01.08.2004
634794	वा अ	गुरुमूर्ति स्वामीनाथन	रेडियो फिटर	01.04.2004
634849	वा अ	विजय कुमार	रेडियो फिटर	05.05.2003
603159	वा अ	भगत राम	टेलिस्ट आर टी ओ	06.06.2004
603512	वा अ	रामस्वरूप यादव	टेलिस्ट आर टी ओ	02.10.2003
603852	वा अ	नारायण सिंह जोधा	टेलिस्ट आर टी ओ	02.01.2004
603865	वा अ	जी एच देवराज	टेलिस्ट आर टी ओ	04.06.2004
603917	वा अ	चन्द्रशेखर पाण्डे	टेलिस्ट आर टी ओ	04.06.2004
604293	वा अ	रामेश्वर दास	टेलिस्ट आर टी ओ	06.06.2004
631361	वा अ	राम कुमार गुप्ता	टेलिस्ट आर टी ओ	08.06.2004
641314	वा अ	वासुदेवन पिल्लै आर	टेलिस्ट आर टी ओ	08.06.2004
619386	वा अ	ए यु भास्कर	ए डी एस ओ	03.06.2004
619549	वा अ	सूरत चन्द्र त्रिपाठी	ए डी एस ओ	03.06.2004
620906	वा अ	जयनाथ शर्मा	ए डी एस ओ	03.06.2004
635739	वा अ	बालाचन्द्रा रामाकृष्णा भट्ट	ए डी एस ओ	03.06.2004
635851	वा अ	दोमनिक एस के जी	ए डी एस ओ	03.06.2004
298679	वा अ	जगदम्बा प्रसाद मिश्रा	क्लर्क अकाउंट	05.08.2003
299572	वा अ	अविनाश सिंह	क्लर्क अकाउंट	19.08.2003
612784	वा अ	पूर्ण चन्द	क्लर्क अकाउंट	08.08.2004
612898	वा अ	सुनील कुमार सक्सेना	क्लर्क अकाउंट	08.08.2004
610376	वा अ	बबूल चन्द्र डे	क्लर्क जी डी	03.01.2004
606857	वा अ	प्रेमासी राही	इलैक्ट फिटर	01.11.2003
607281	वा अ	दलीप कुमार श्रीवास्तवा	इलैक्ट फिटर	01.11.2003
607495	वा अ	एस एस प्रसाद गोपाल	इलैक्ट फिटर	01.11.2003
608048	वा अ	इन्द्रजीत सिंह	इलैक्ट फिटर	03.05.2003
608183	वा अ	बिजय कुमार मण्डल	इलैक्ट फिटर	05.06.2003

1	2	3	4	5
608587	वा अ	गुरुमुख सिंह	इलैक्ट फिटर	05.05.2003
608925	वा अ	इन्द्रापाल सिंह	इलैक्ट फिटर	01.11.2003
609603	वा अ	नागेश्वर सिंह	इलैक्ट फिटर	05.05.2003
609658	वा अ	सुबोध कुमार बिश्वास	इलैक्ट फिटर	03.05.2003
609826	वा अ	विजयन नायर के आर	इलैक्ट फिटर	03.05.2003
609834	वा अ	गंगाधर द्विवेदी	इलैक्ट फिटर	05.05.2003
609882	वा अ	मदन कुमार सिंह	इलैक्ट फिटर	02.12.2003
609888	वा अ	सुभाष चन्द्र आप्टा	इलैक्ट फिटर	03.05.2003
609940	वा अ	बद्री प्रसाद चौधरी	इलैक्ट फिटर	03.05.2003
611400	वा अ	शिव कुमार गुप्ता	इलैक्ट फिटर	03.05.2003
622162	वा अ	रबिनारायण मोहनती	इलैक्ट फिटर	05.08.2003
622263	वा अ	बलवन्त सिंह	इलैक्ट फिटर	03.08.2003
622596	वा अ	हरि सिंह	इलैक्ट फिटर	03.08.2003
634865	वा अ	पशुपति नाथ मण्डल	इलैक्ट फिटर	05.02.2003
634961	वा अ	ब्रिजेश कुमार शर्मा	इलैक्ट फिटर	01.02.2003
634968	वा अ	एस आर अलफेड	इलैक्ट फिटर	03.05.2003
635000	वा अ	सुरेन्द्र कुमार	इलैक्ट फिटर	01.02.2003
635121	वा अ	अशोकन कोल्लन	इलैक्ट फिटर	03.05.2003
635124	वा अ	जगत नारायण पाण्डे	इलैक्ट फिटर	03.05.2003
635125	वा अ	शिव बहादुर राय	इलैक्ट फिटर	03.08.2003
635672	वा अ	गोपीनाथन टी	इलैक्ट फिटर	05.06.2003
635692	वा अ	योगेन्द्र प्रसाद	इलैक्ट फिटर	03.08.2003
635839	वा अ	नवल किशोर ठाकुर	इलैक्ट फिटर	03.08.2003
635877	वा अ	सूरज प्रसाद विश्वकर्मा	इलैक्ट फिटर	03.08.2003
650029	वा अ	राम प्रसाद	इलैक्ट फिटर	03.11.2003
650053	वा अ	जयपाल सिंह	इलैक्ट फिटर	02.12.2003
650080	वा अ	वी टी रामालिंगम	इलैक्ट फिटर	03.08.2003
650121	वा अ	सुरेश सिंह	इलैक्ट फिटर	03.03.2003
650226	वा अ	नगीना प्रसाद	इलैक्ट फिटर	03.03.2003
650228	वा अ	मुख्तार सिंह	इलैक्ट फिटर	02.12.2003
650261	वा अ	श्री राम	इलैक्ट फिटर	03.03.2003
650332	वा अ	डी के मजुमदार	इलैक्ट फिटर	03.11.2003
650347	वा अ	मोहम्मद अली अंसारी	इलैक्ट फिटर	05.08.2003
650424	वा अ	रामधन मलिक	इलैक्ट फिटर	03.11.2003



650424	वा अ	रामधन मलिक	इलैक्ट फिटर	03.11.2003
1	2	3	4	5
650460	वा अ	डी के दास	इलैक्ट फिटर	03.08.2003
650521	वा अ	दलजीत सिंह धतवालिया	इलैक्ट फिटर	05.02.2003
650759	वा अ	किशोर चन्द्र महापात्रा	इलैक्ट फिटर	03.11.2003
650820	वा अ	पशुपति नाथ सिंह	इलैक्ट फिटर	01.02.2003
650949	वा अ	हरि सिंह भारद्वाज	इलैक्ट फिटर	01.02.2003
650990	वा अ	नवनीत सुधान	इलैक्ट फिटर	03.11.2003
651563	वा अ	गुलशन कुमार मणिकटला	इलैक्ट फिटर	03.08.2003
676823	वा अ	अनिल कुमार साहु	फ्लाइंट इंजीनियर	14.06.2003
677529	वा अ	दीदार सिंह	फ्लाइंट इंजीनियर	14.06.2003
677920	वा अ	अजय कुमार	फ्लाइंट इंजीनियर	14.06.2003
695966	वा अ	ए एम एस कुमार	फ्लाइंट इंजीनियर	14.06.2003
696048	वा अ	बिनोद कुमार चौहान	फ्लाइंट इंजीनियर	14.06.2003
696659	वा अ	सुरेश कुमार खत्री	फ्लाइंट इंजीनियर	02.12.2003
658829	वा अ	दिनेश कुमार सिंह	फ्लाइंट गनर	02.12.2004
662193	वा अ	पदम सिंह चौहान	फ्लाइंट गनर	02.12.2004
666870	वा अ	बलवान सिंह	फ्लाइंट गनर	02.12.2004
655248	वा अ	जे पी अगस्टीयन	चिकित्सा सहायक	12.02.2004
286926	वा अ	परमिन्दर सिंह	एम टी फिटर	02.08.2003
615653	वा अ	बी भास्करन	एम टी फिटर	04.10.2004
659759	वा अ	इन्द्रजीत सिंह	एम टी फिटर	02.12.2002
659770	वा अ	राम अवध सिंह	एम टी फिटर	02.12.2002
659849	वा अ	एन के कुनोकजी	एम टी फिटर	02.02.2003
660133	वा अ	देव सिंह	एम टी फिटर	02.06.2003
660178	वा अ	चन्द्रा केत सिंह	एम टी फिटर	02.06.2003
660359	वा अ	दिनेश कुमार पाठक	एम टी फिटर	02.04.2003
292001	वा अ	धीरेन चन्द्र कलिता	फोटो फिटर	01.05.2004
287397	वा अ	सत्यनारायण	आई ए एफ (पी)	02.08.2003
287560	वा अ	नन्द किशोर पी डी यादव	आई ए एफ (पी)	02.08.2003
615357	वा अ	जे आर आर केशव रेड्डी	आई ए एफ (पी)	03.01.2004
616024	वा अ	ओम प्रकाश अशलिया	आई ए एफ (पी)	13.02.2004
616758	वा अ	पदम सिंह सिनसिनवार	आई ए एफ (पी)	13.02.2004
617020	वा अ	मदन मोहन राय	आई ए एफ (पी)	01.05.2004

1	2	3	4	5
608740	वा अ	बंसी लाल वर्मा	इंसट फिटर	02.12.2003
608814	वा अ	विजय सिंह कटियार	इंसट फिटर	02.10.2003
608867	वा अ	ददन सिंह	इंसट फिटर	02.09.2003
608978	वा अ	शशी कुमार सिंह	इंसट फिटर	15.07.2003
609156	वा अ	बिनय कुमार	इंसट फिटर	15.07.2003
609346	वा अ	भोला प्रसाद सिंह	इंसट फिटर	02.09.2003
650358	वा अ	कमल कान्त मिश्रा	इंसट फिटर	20.03.2003
298603	वा अ	ओम प्रकाश तुसीर	उपस्कर सहायक	02.07.2002
611778	वा अ	महमूद अली	उपस्कर सहायक	02.08.2003
611780	वा अ	श्यामल बरण देव	उपस्कर सहायक	02.08.2003
613380	वा अ	प्रीतपाल सिंह जैया	उपस्कर सहायक	02.09.2003
614205	वा अ	राजदेव यादव	उपस्कर सहायक	02.10.2003
645397	वा अ	बिनोद नारायण झा	उपस्कर सहायक	02.12.2003
285849	वा अ	शेर सिंह भाटी	एम टी डी	03.06.2003
615730	वा अ	बसंत महतो	एम टी डी	03.06.2003
616617	वा अ	उपेन्द्र प्रसाद मण्डल	एम टी डी	03.06.2003
616818	वा अ	रणजीत सिंह	एम टी डी	03.06.2003
617142	वा अ	सत्येन्द्र कुमार घोष	एम टी डी	01.06.2003
617355	वा अ	बिनय शंकर मिश्रा	एम टी डी	01.07.2003
618038	वा अ	आई पी चाको	एम टी डी	03.08.2003
618264	वा अ	प्रदीप मिश्रा	एम टी डी	03.12.2003
618465	वा अ	जयचन्द्र सिंह	एम टी डी	01.02.2004
618467	वा अ	बिरेन्द्र सिंह यादव	एम टी डी	01.02.2004
618795	वा अ	टी सेठी	एम टी डी	10.02.2004
613179	वा अ	नारायण चन्द्र घोष	पी जे आई	03.03.2004
617085	वा अ	विवेकानन्द दत्ता	पी जे आई	01.03.2004
645253	वा अ	विजय कुमार	पी जे आई	02.11.2003
662704	वा अ	मनोरंजन पाधी	पी एम एफ (एम)	13.07.2004
298821	वा अ	सुभाष भावसर	क्लर्क अकाउंट	05.08.2003
287035	वा अ	चुनी लाल	एम टी फिटर	02.09.2003
616178	वा अ	चिन्ता हरण भक्ता	एम टी फिटर	02.09.2003
631791	वा अ	साम चैरियन	रेडियो फिटर	01.08.2003
633695	वा अ	राम बदन सिंह	रेडियो फिटर	01.02.2005
633776	वा अ	गजानन विष्णु पवार	रेडियो फिटर	01.01.2004

1	2	3	4	5
633800	वा अ	राम लुभाया	रेडियो फिटर	01.08.2004
633814	वा अ	सूजय कुमार	रेडियो फिटर	01.02.2005
634094	वा अ	तारा प्रसाद साहा	रेडियो फिटर	01.01.2004
634117	वा अ	तेज सिंह भाटी	रेडियो फिटर	01.02.2005
634286	वा अ	कैलाश नारायण	रेडियो फिटर	01.01.2004
634585	वा अ	कन्देन्द्रा कुमार शर्मा	रेडियो फिटर	01.02.2005
651103	वा अ	सुशील कुमार हालदार	रेडियो फिटर	01.07.2003
603440	वा अ	बेलम सिंह	टेलिस्ट आर टी ओ	03.09.2003
603668	वा अ	विलियम्स के ए	टेलिस्ट आर टी ओ	02.10.2003
603703	वा अ	आर डी सेन गुप्ता	टेलिस्ट आर टी ओ	02.01.2004
299688	वा अ	एन एस विलसन	क्लर्क जी डी	13.12.2003
299809	वा अ	एस मुरुगोसन	क्लर्क जी डी	13.12.2003
700926	वा अ	गिरीश चन्द्र जोश	शिक्षा अनुदेशक	01.01.2004
700972	वा अ	नरेन्द्र प्रताप सिंह	शिक्षा अनुदेशक	01.01.2004
701720	वा अ	चन्द्रपाल सिंह भण्डारी	शिक्षा अनुदेशक	01.01.2004
704227	वा अ	नरेन्द्र प्रसाद महापात्रा	शिक्षा अनुदेशक	01.01.2004
726808	वा अ	मणि भूषण चौबे	शिक्षा अनुदेशक	01.01.2004
727458	वा अ	बिधू भूषण मिश्रा	शिक्षा अनुदेशक	01.01.2004
727463	वा अ	दुर्गा प्रसाद दास	शिक्षा अनुदेशक	07.01.2004
728394	वा अ	के ए ऑमन	शिक्षा अनुदेशक	01.02.2004
606761	वा अ	नरेन्द्र देव चौहान	इलैक्ट फिटर	01.11.2003
607349	वा अ	हरबंस सिंह नेगी	इलैक्ट फिटर	05.02.2003
608902	वा अ	बलबीर सिंह	इलैक्ट फिटर	01.11.2003
609939	वा अ	रमाशंकर प्रसाद	इलैक्ट फिटर	05.05.2003
609948	वा अ	दयानन्द यादव	इलैक्ट फिटर	03.05.2003
621456	वा अ	सत्यप्रकाश सिंह	इलैक्ट फिटर	02.12.2003
622476	वा अ	पलविन्द्र सिंह विक्र	इलैक्ट फिटर	03.08.2003
622570	वा अ	मोहन लाल सुथार	इलैक्ट फिटर	05.08.2003
635233	वा अ	श्रवण कुमार	इलैक्ट फिटर	05.06.2003
635414	वा अ	कमल कान्त अग्रवाल	इलैक्ट फिटर	05.08.2003
635625	वा अ	एस हुसैन	इलैक्ट फिटर	05.06.2003
635780	वा अ	रामनिवास राय	इलैक्ट फिटर	05.08.2003
650087	वा अ	संकरशन जैना	इलैक्ट फिटर	02.12.2003
650151	वा अ	विक्रम सिंह वर्मा	इलैक्ट फिटर	02.12.2003
650171	वा अ	सुभाष चन्द्र पाण्डा	इलैक्ट फिटर	03.05.2003

1	2	3	4	5
650615	वा अ	नन्द लाल केसरी	इलैक्ट फिटर	05.02.2003
650810	वा अ	राम प्रसन सिंह	इलैक्ट फिटर	01.02.2003
651063	वा अ	पी के कर महापात्रा	इलैक्ट फिटर	02.12.2003
651144	वा अ	जॉनसन एन के	इलैक्ट फिटर	05.06.2003
651150	वा अ	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	इलैक्ट फिटर	02.12.2003
651282	वा अ	समबसीवा राव वी	इलैक्ट फिटर	03.11.2003
677914	वा अ	आदेश कुमार शर्मा	फ्लाईट इंजीनियर	02.12.2003
678153	वा अ	मान सिंह चौहान	फ्लाईट इंजीनियर	14.06.2003
609045	वा अ	लाल धर प्रसाद सिंह	इंसट फिटर	02.09.2003
609686	वा अ	जगदीश चन्द ठाकुर	इंसट फिटर	02.02.2004
299462	वा अ	अरविन्धासन विजय प्रकाशन	मेट सहायक	06.08.2004
603465	वा अ	सतवीर सिंह जून	मेट सहायक	07.06.2004
632244	वा अ	यदुनाथ राय	मेट सहायक	01.02.2004
632415	वा अ	सुकुमार सामन्ता	मेट सहायक	03.06.2004
617312	वा अ	मोहम्मद हसन	एम टी डी	16.07.2003
618394	वा अ	लखन बहादूर सिंह	एम टी डी	03.12.2003
619268	वा अ	देवनेसन रूबेन	म्यूजिशियन	16.08.2004
293184	वा अ	राम दिनेश झा	फोटो फिटर	03.05.2004
641783	वा अ	रमाकान्ता गुप्ता	फोटो फिटर	03.06.2003
642296	वा अ	वेद प्रकाश	फोटो फिटर	04.08.2003
642877	वा अ	रामलखन	फोटो फिटर	05.06.2003
643181	वा अ	हरि कृष्णा सिंह	फोटो फिटर	01.05.2004
644015	वा अ	आई जी दोनी	फोटो फिटर	01.02.2004
291830	वा अ	जी जॉर्ज	वेपन फिटर	01.06.2004
293660	वा अ	मैन सिंह मोर	वेपन फिटर	01.06.2004
642005	वा अ	रमेश सिंह	वेपन फिटर	04.11.2003
642753	वा अ	सुरेन्द्र प्रसाद पौद्दार	वेपन फिटर	01.02.2004
642945	वा अ	जी बी राव	वेपन फिटर	01.06.2004
643288	वा अ	सत्य नारायण सिंह	वेपन फिटर	01.06.2004
292587	वा अ	चैरियन जोसफ	डब्ल्यू एस फिट (बी)	05.10.2003
641116	वा अ	वेद प्रकाश शर्मा	डब्ल्यू एस फिट (एम)	04.12.2002
618883	वा अ	रामचन्द्र प्रसाद सिंह	ए एफ एस ओ	07.08.2004
631091	वा अ	रविन्द्रन नाया पी बी	ए एफ एस ओ	13.07.2004
632108	वा अ	संतोख सिंह	ए एफ एस ओ	03.04.2004

1	2	3	4	5
632736	वा अ	ठाकुर दास	ए एफ एस ओ	03.04.2004
613118	वा अ	दीनानाथ सिंह	कैट सहायक	03.10.2004
626134	वा अ	श्याम कुमार राय	रेडार फिटर	03.12.2004
626199	वा अ	सीता नाथ साहु	रेडार फिटर	03.12.2004
638683	वा अ	प्रदीप कुमार राय हालदार	रेडार फिटर	03.12.2004
638959	वा अ	अनुप चन्द्र सुथार	रेडार फिटर	03.12.2004
639061	वा अ	कमलाकर चिन्तामन कोल्हे	रेडार फिटर	03.12.2004
639246	वा अ	अमरावली सूर्या राव	रेडार फिटर	03.12.2004
654126	वा अ	दतारिया एकनाथ सगरे	रेडार फिटर	03.12.2004
672959	वा अ	इ आर दीपक आदम	रेडार फिटर	03.12.2004
672979	वा अ	प्रवीण कुमार सिंघल	रेडार फिटर	03.12.2004
673199	वा अ	विजय कुमार जखमोला	रेडार फिटर	03.12.2004

कुल: 994 (केवल नौ सौ चौरानवे नाम)

अन्जलि सिंह  
उप सचिव

थल सेना शाखा

शुद्धिपत्र

सं. 499, दिनांक 11 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति भारत के राजपत्र भाग 1 खंड 4 में 19 मई 2007 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना शीर्षक नियमित सेना/स्थायी कमीशन व उपशीर्षक विंग कमांडर/ग्रुप कैप्टन (टी एस) से ग्रुप कैप्टन (चयन) (समकक्ष) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

विंग कमांडर/ग्रुप कैप्टन (टी एस) से ग्रुप कैप्टन (चयन) (समकक्ष)

के स्थान पर

एस चौधरी 10 अप्रैल 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।  
(एमआर-04253 एम)  
(वा.से.-16199)

पढा जाए।

एस चौधरी 10 अप्रैल 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।  
(एमआर-04253 एम)  
(वा.से.-16199)

जी रवीन्द्र नाथ  
बिग्रेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (कार्मिक)

MINISTRY OF DEFENCE  
DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT  
ORGANISATION

New Delhi, the 6th October 2007

No. 495, dated 10 Sep. 2007.—The President is pleased to make the following appointment :—

Shri SC Bharracharya to be temporary Scientist 'D' on probation for one year in HEMRL, Pune with effect from 30 Aug 1999 (F/N) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500.

P. SARATH  
Joint Director (Pers.)

ARMY BRANCH

No. 496, dated 06th Sep 2007.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Substantive Subedar Major

Sub Maj AMN Tech Amar Singh (JC-723020M), 01 Jul 2007

Sub Maj AMN Tech Gyarsya Kumhar (JC-723021P), 01 Aug 2007

Sub Major SKT Amn Hardayal Singh Bhandari (JC-723260K), 01 Jun 2007

Sub Maj SKT Amn Bishan Singh (JC-723224Y), 28 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT Sig Mahender Singh (JC-723307K), 20 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk GD P Sambasiva Reddy (JC-723487X), 01 Jul 2007

Sub Maj Clks Prov Hawa Singh (JC-723507A), 14 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SH GD Shivaji Sidha Hunmune (JC-725411W), 28 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Sub

Sub Amn Tech Goutam Majumder (JC-724738H), 01 Jun 2007

Sub Amn Tech Ramesh Chand (JC-724713W), 21 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Amn Tech Gautam Kumar Ghosh (JC-724771A), 01 Jul 2007

Sub Amn Tech Dipendu Dey (JC-724772H), 01 Jul 2007

Sub Amn Tech Heera Ram (JC-724810N), 01 Aug 2007

Sub Amn Tech Rasal Singh (JC-724714Y), 01 Jun 2007

Sub Amn Tech Achyutanada Behera (JC-724841N), 01 Jun 2007

Sub SKT MT Sunder Lal (JC-725028X), 23 Oct 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C L Velu Mani (JC-725178N), 12 Feb 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Subhash Chand (JC-725211A), 01 Mar 2007

Sub SKT GS&C Jai Singh (JC-725249K), 01 Jun 2007

Sub SKT GS&C Om Prakash Bhargava (JC-725305X), 01 Jul 2007

Sub SKT GS&C Dharamvir (JC-725263W), 28 Jul 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Rajendra Kumar (JC-725385A), 01 Aug 2007

Sub SKT MT Shubh Ram Jat (JC-725060M), 01 Jun 2007

Sub Clk S Prov Indravir Singh (JC-725643P), 01 May 2007

Sub Clk S Cont Parminder Singh (JC-725744H), 01 Jul 2007

Sub Clk S Cont Badri Nath Koundal (JC-725721F), 01 Jul 2007

Sub Clk S Prov Mangal Singh (JC-725720Y), 01 Jul 2007

Sub Clk S Prov Brij Lal (JC-725717Y), 20 Jul 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Clk S Cont Shiv Charan Singh (JC-725701N), 01 Jun 2007

Sub Clk S Cont Khem Singh (JC-725700L), 01 Jun 2007

Sub Clk S Cont Dwijendra pal Singh (JC-725679N), 01 Jun 2007

Sub Clk S Cont Shrinath Singh (JC-725745L), 01 Aug 2007

Sub Dvr Spl Raj Kumar Singh (JC-726580K), 01 Jul 2007

Sub Dvr MT Harbans Singh (JC-726535X), 01 Jul 2007

Sub SH GD Ramniwas (JC-726553X), 01 May 2007

Sub SH GD Sheo Sahai Rai (JC-726588W), 01 May 2007

Sub SH GD Naul Kishore Singh (JC-726556N), 12 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Sub SH GD Sew Muni Roy (JC-726581M), 01 May 2007  
 Sub SH GD Rakesh Kumar Singh (JC-726690Y), 01 Jun 2007  
 Sub SH GD Atar Sayyed Farid (JC-726633X), 14 Jul 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)  
 Sub SH GD Rajkishor Prasad Verma (JC-726617A), 02 Jul 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)  
 Sub SH GD Mahender Singh (JC-726635H), 01 Jun 2007  
 Sub SH GD Kharat Parashuram Baboo (JC-726654N), 07 Jun 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)  
 Sub SH GD Jagdish Kumar (JC-726730P), 20 Jul 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)  
 Sub SH GD Banwari Lal (JC-726721N), 01 Jun 2007  
 Sub SH GD Arjun Jagannath Bade (JC-726723Y), 01 Jul 2007  
 Sub SH GD Mafizul Haque (JC-726509W), 01 May 2007  
 Sub SH GD Bharat Singh (JC-726619L), 01 Jun 2007  
 Sub SH GD Syiamalan R (JC-726536A), 01 Jun 2007  
 Sub SH GD Om Prakash (JC-726725K), 01 Jul 2007  
 Sub SH GD Bhawani Singh (JC-726582P), 01 Jun 2007  
 Sub SH GD Shyam Lal (JC-726722W), 01 Jul 2007  
 Sub SH GD Toplal Chhetri (JC-726614M), 01 Jun 2007  
 Sub SH GD Mansukh Lakara (JC-726615P), 01 Jun 2007  
 To be Nb Sub  
 Hav (AT) T Munusamy (No. 6927876K now JC-727491X), 01 May 2007  
 Hav (AT) Shyam Babu Singh (No. 6931240A now JC-727492A), 01 May 2007  
 Hav (SKT MT) Suresh Chandra (No. 6921763L now JC-727493H), 04 Jun 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)  
 Hav (SKT MT) Sheshdhar Dubey (No. 6921769M now JC-727494L), 21 Jun 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)  
 Hav (SKT MT) Shiv Prakash Singh Yadav (No. 6921770A now JC-727495N), 02 Jul 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT MT) Subhash Chandra Nayak (No. 6921792A now JC-727496W), 19 Jun 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)  
 Hav (SKT MT) Shyamlal Chandra Ghosh (No. 6921794L now JC-727497Y), 20 Jun 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)  
 Hav (SKT MT) Z Ranjit Singh Dhirubhai (No. 6921799K now JC-727498F), 09 Jul 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)  
 Hav (DVR MT) Indra Singh Ghatany (No. 6919514N now JC-727499K), 10 Jul 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)  
 Hav (SH GD) Sri Niwas Bharadwaj (No. 6918501K now JC-727500N), 01 May 2007  
 Hav (SH GD) Ashim Karmakar (No. 6918952K now JC-727501W), 12 Jun 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)  
 Hav (AT) Dinesh Kumar Singh (No. 6929761P now JC-727502Y), 01 Jun 2007  
 Hav (AT) Baljeet Singh (No. 6930802A now JC-727503F), 01 Jun 2007  
 Hav (AT) Radha Krishnan Nair S (No. 6930846X now JC-727504K), 18 Jun 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)  
 Hav/SH GD Chandra Bahadur Thapa (No. 6919113Y now JC-727505M), 01 Jun 2007  
 Hav/SH GD Babaji Sethi (No. 6919757Y now JC-727506P), 30 Jun 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)  
 Hav/AT Avijit Ghosh (No. 6929802N now JC-727507X), 01 Jul 2007  
 Hav/Clk GD Naba Kishore Pattanaik (No. 6919846X now JC-727508A), 05 Jul 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)  
 Hav/Clk GD Mahenderpal Singh (No. 6919870N now JC-727509H), 06 Jul 2007\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Rama Shukla (No. 6919879H now JC-727510X), 01 Jul 2007

Hav/Clk S Cont Raghubar Dayal Singh (No. 6919887F now JC-727511A), 01 Jul 2007

Hav/Clk GD Gautam Paul (No. 6919921W now JC-727512H), 01 Jul 2007

Hav/Clk S Cont Raj Singh (No. 6919938K now JC-727513L), 01 Jul 2007

Hav/Clk GD Dhanesh Kumar (No. 6920108A now JC-727514N), 01 Aug 2007

Hav/SKT MT Shyam Lal Kumar Mandal (No. 6921796W now JC-727515W), 23 Jul 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT MT Rajesh Kumar (No. 6921797Y now JC-727516Y), 16 Jul 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT MT Jagmohan Singh (No. 6921807X now JC-727517F), 14 Jul 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/DVA MT Viswanath Vishwakarma (No. 6919643N now JC-727518K), 01 Jul 2007

Hav/DVR MT Himangshu DEB (No. 6919924K now JC-727519M), 01 Jul 2007

Hav/DVR MT Shiv Kumar (No. 6919972K now JC-727520F), 19 Jul 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/DVR MT Pole Pallinagaih (No. 6919985F now JC-727521K), 09 Jul 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Mangal Dhari Ray (No. 6920131N now JC-727522M), 01 Jul 2007

Hav/SH GD Man Singh (No. 6920179F now JC-727523P), 01 Jul 2007

Hav/SH GD Ramlat Sharma (No. 6920155X now JC-727524X), 01 Jul 2007

Hav/SH GD Ratna Kanta Rabha (No. 6920187A now JC-727525A), 01 Jul 2007

Hav/SH GD Sudharsanan M (No. 6920188H now JC-727526H), 01 Jul 2007

To be Subedar Religious Teacher (Pandit)

Sub/Pandit Rabindra Kumar Mishra (JC-723469P), 01 Apr 2007

Sub/Pandit Rajendra Prasad Dwivedi (JC-723471M), 01 May 2007

Sub/Pandit Binoda Nanda Pathak (JC-723470K), 01 Jul 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Sub/Pandit Rajendra Jha (JC-723472K), 01 Jul 2007

To be Naib Subedar religious Teacher (Pandit)

JC Naya Nb Sub/Pandit Dungar Ram Purohit (JC-727490P), 30 Jun 2007

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Hav Ajay Prakash Singh (No. 14565035H now JC-760831P), 01 Sep 2006

Hav Binod Kumar Upadhyaya (No. 14565823M now JC-760840W), 01 Sep 2006

Hav Chandugade Vilas J (No. 14565815N now JC-760839F), 01 Sep 2006

Hav Gyan Chand Sharma (No. 14565803Y now JC-760832X), 01 Sep 2006

Hav Narayan (No. 14565825X now JC-760841Y), 01 Sep 2006

Hav Udai Narayan Singh (No. 14555606H now JC-760835L), 01 Sep 2006

Hav To be Nb Sub DVR (MT)

Hav Aman Kumar (No. 14546723M now JC-760853N), 01 Sep 2006

Bhobani Paiee (No. 14545514H now JC-760842F), 05 Sep 2006/01 Jul 2006\*

Hav Dhruba Sharma (No. 14546604W now JC-760845P), 01 Sep 2006

Hav Jayakrishna Malik (No. 14546301F now JC-760847A), 01 Sep 2006

Hav Nabin Bora (No. 14546504L now JC-760850A), 01 Sep 2006

Hav Nihal Ram (No. 14546645A now JC-760849L), 01 Sep 2006

Hav Pushpa karan VC (No. 14546651N now JC-760851H), 01 Sep 2006

Hav Raskar Shahajirao Tukaram (No. 14546623F now JC-760848H), 01 Sep 2006

Hav Shiv Raj Singh (No. 14546411W now JC-760854W), 01 Sep 2006

\*(Gtd ante dated seniority)

N. K. KASHMIRA  
Under Secretary



No. 497, dated 11th September 2007.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

## (ARMY MEDICAL CORPS)

## Col (TS) to be Col (Selection)

V K Gupta (MR-05365Y), 26 Jul 2006 with notional seniority without effect on pay and pension from 26 Dec 2005.

Lt Col/Col (TS) (& equivalent) to be Col (Selection)

K C Koley (MR-04050H), 17 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay and pension from 15 Dec 2005.

Prabhat Kumar (MR-05042W), 25 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay and pension from 25 Feb 2006.

Ashok Saxena (MR-04592M), 29 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay and pension from 08 Mar 2006.

V K Singal (MR-05471X), 15 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay and pension from 13 Mar 2006.

A J Venniyoor (MR-05251N), 20 Nov 2006 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Nov 2006.

Lt Col (& equivalent) to be Col (& equivalent)

M E Luther (MR-04530M), 12 Aug 2006 with notional seniority without effect on pay and pension from 02 Jul 2004.

Mrs RS Bhaduria (MR-05170N), 07 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Dec 2006.

G RAVINDRANATH  
Dy. DGAFMS (P)

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 498, dated 10th Sep 2007.—The President is pleased to promote the following Scientists of VRDE, Ahmednagar from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each :—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
Sh. K S Jain	Se 'E'	Se 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. R N Marathe	Se 'D'	Se 'E'	Rs. 14,300-400-18,000/-
Sh. S Ramakrishna	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. G. Ramamohana Rao	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. B L Wagh	Se 'C'	Se 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. A A Potdar	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Smt. Sunila P Vyas	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. G. Srinivasa Rao	Se 'C'	Se 'D'	—do—

13—264 GI/2007

The President is pleased to promote the following Scientists of IRDE, Dehradun from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each :—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
Sh. V N Singh	Se 'E'	Se 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. S C Sehgal	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. B S Chauhan	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. Ajay Kumar	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. B B Singh	Se 'D'	Se 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. S C Kumar	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. Jai Prakash Singh	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. P S Sindhwai	Se 'C'	Se 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. R Vikram Kalmekar	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. Ajay Kumar Sahni	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. P C Pandey	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. K C Bahuguna	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. Rajkamal Singh Rawat	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. Pradeep Kumar	Se 'C'	Se 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of NSTL, Visakhapatnam from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2007 (F/N) as mentioned against each :—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
Sh. C D Malleswar	Se 'F'	Se 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Sh. Debasis Chakraborti	Se 'F'	Se 'G'	—do—
Sh. N V Raghava Rao	Se 'F'	Se 'G'	—do—
Sh. BVPS Rao	Se 'E'	Se 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. PVS N Aeharyulu	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. YSB Prasada Rao	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. K B Ramakrishna	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. RVS Subrahmanyam	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Smt. Ch. V S Sudha	Se 'D'	Se 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. K S Sadmaja	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Smt. B Mamatha	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. Y L Somayajulu	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. C Kedarnath	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. G V Manoj Kumar	Se 'C'	Se 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. T P Choudary	Se 'C'	Se 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of ARDE, Pune from their existing grade to the next higher

1	2	3	4
Smt. Meenakshi Gupta	Se 'E'	Se 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Dr. P.K. Rai	Se 'D'	Se 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. P. N. Deo	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Dr. S. Mary Celin	Se 'C'	Se 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Dr. K. Kadirvelu	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Dr. Arti Bhatt	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Dr. Prasun Kumar Roy	Se 'C'	Se 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of TBRL, Chandigarh from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each :—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
Sh. Prateek Kishore	Se 'E'	Se 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. R.S. Bishi	Se 'D'	Se 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. Raj Kumar	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. Dharendra Gupta	Se 'C'	Se 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. Sandeep Bagga	Se 'C'	Se 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of CVRDE, Chennai from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2007 (F/N) as mentioned against each :—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4
Sh. K. Krishnamurthy	Se 'F'	Se 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Sh. B. Aruljothi	Se 'E'	Se 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. G.K. Kumaravel	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. C. Govindarajan	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. N. Ponnuswamy	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Dr. Junaaid Basha	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Smt. S. Savithri	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. K. Giridharan	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Smt. Swarna Ramesh	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. V. Balamurugan	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. Ashok Venkataramani	Se 'D'	Se 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. P.V. Nageswaran	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. A. Shenbagamoorthy	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Ms. K. Vasantha Kumari	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. M. Vazhvarasan	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. S. Pazhanikumar	Se 'D'	Se 'E'	—do—

1	2	3	4
Sh. G. Bhaskaran	Se 'C'	Se 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. G. Ravi	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. R. Muthukumar	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. A.R. Balasubramanian	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. Sh. R. Raveendran	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. G. Venkatesan	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Dr. K. Ravichandran	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. M. Tamilmani	Se 'C'	Se 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of DEAL, Dehradun from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2007 (F/N) as mentioned against each :—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Sh. Rajiv Kumar Agarwal	Se 'F'	Se 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Sh. R.P. Dixit	Se 'F'	Se 'G'	—do—
Sh. Satish Kumar Tyagi	Se 'E'	Se 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Dr. Chinmoy Bhattacharyya	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. Sanjeev Kumar Verma	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. Susheel Kumar Verma	Se 'E'	Se 'F'	—do—
Sh. Raj Bahadur Singh	Se 'D'	Se 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Smt. Kiran Chauhan	Se 'D'	Se 'E'	—do—
Sh. Kuldeep Singh Rawat	Se 'C'	Se 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. Ajay Singh Kushwaha	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. R.K. Bhardwaj	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. Rajesh Singh	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. Rajendra Singh	Se 'C'	Se 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of MTRDC, Bangalore from their existing grade to the next grade w.e.f. 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each :—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Dr. Sushant Kumar Chhotray	Se 'C'	Se 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. D. Senthil Kumar	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. R. Hema Malini	Se 'C'	Se 'D'	—do—
Sh. Narasimha Murthy	Se 'C'	Se 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of HEMRL, Pune from their existing grade to the next higher

grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each :—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Sh. M. Ramamurthy	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Dr. Virendra Kumar	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. S. T. Shah	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. G. G. Dutta	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. V. S. Ghadge	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Ms. C. P. Mahajan	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. Kailash Kumar Pathak	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. V. K. Dixit	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. S. Srinivasan	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. S. B. Borkar	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. Shelar Shirish M.	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. C. Venugopala Rao	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. B. Raghavendra Rao	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. Sanjay Kumar	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Smt. V. S. Tamhankar	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. Sala Rambahu	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. Milind S. Bokade	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. C. S. Salutagikar	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. A. P. Narkhede	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Bhupesh A. Parate	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. M. Dhanapal	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of SSPL, Delhi from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Dr. B. K. Sehgal	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Dr. R. K. Sharma	Sc 'F'	Sc 'G'	—do—
Dr. Parthajyoti Datta	Sc 'F'	Sc 'G'	—do—
Sh. Satish Mohan	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. K. K. Jain	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Dr. (Smt.) Renuka Saxena	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Dr. Surinder Kumar Koul	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. A. A. Naik	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Smt. M. V. G. Padmavati	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Smt. Vanita Rani Agarwal	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Dr. T. Srinivasan	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. S. N. Chatterjee	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Dr. (Smt) Vivan Narang	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. M. P. Gupta	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. Mayank Singhal	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. A. B. Dhaulakhandi	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Mohan Singh	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Dr. (Smt.) Puspashree Mishra	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Dr. (Smt.) L. Radhapiyani Devi	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of INMAS, Delhi from their existing grade to the next higher grade with effect from 02 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Dr. L. Ravi Shankar	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. P. C. Gupta	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. J. S. Adhikari	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of LRDE, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Sh. H. S. Prakash	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. G. R. Rewankar	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. L. G. M. Prakasam	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. K. Venkatesha	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. S. Sivakumar	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. Jagadish P. Nanisetty	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Smt. Nirmala Shanmugam	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. J. P. Vardhani	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. S. Ramakrishnan	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. K. Jery Varghese	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. M. Prakash Narayanan	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. K. Sreenivasulu	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. P. Jhansi Sreeveni	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. M. S. Meera Das	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Shiva Kumar Mathaiah	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Rose Abraham	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Vishal Mahajan	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Dand Rakesh	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Benoy Kuriakose	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Debasish Deb	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Upendra Shankar Pandey	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of CFEES, Delhi from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4
Dr. Chitra Rajagopal	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Dr. K. C. Wadhwa	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-

grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Dr. S. N. Singh	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Sh. G. D. Murthy	Sc 'F'	Sc 'G'	—do—
Sh. B. Bhattacharya	Sc 'F'	Sc 'G'	—do—
Dr. V. P. Bansod	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Dr. D. B. Sarwade	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Dr. P. B. Navle	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Dr. (Ms.) S. D. Kakade	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Dr. Mehital	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. P. S. Kumbhar	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. H. J. Gandhi	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. G. D. Joshi	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. Arvind Kumar	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. S. R. Harshe	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. K. P. Rao	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Ms. V. H. Khire	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Dr. (Mrs) U. R. Nair	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of R&DE (Engrs), Pune from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Dr. S. Guruprasad	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Smt. Aralikatti Shobha	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. P. K. Chattopadhyaya	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. U. R. Gautam	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Smt. Vandna A. Gandhi	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. C. K. Gautam	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. S. Bhaumik	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. Ansari A. N.	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. N. K. Chaudhary	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. A. L. Agellureddy	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. A. Prasad Goud	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. Naorem Giridhar Singh	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. Mridu Kanj Pathak	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. Brjesh Singh	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Sanjay Kumar	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Kharat Ajay Hanmani	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Ms. Kiran Akella	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. J. P. Singh	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of DMSRDE, Kanpur from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Dr. Mohd. Nasim	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Sh. T. C. Shami	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. R. P. Bhat	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. S. B. Yadav	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Dr. Anurag Srivastava	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. Alok Mall	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. S. P. Bajpai	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. R. K. Gupta	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. Ratnakar Awasthi	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. Hriday Ram	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. K. K. Gupta	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of DRDE, Gwalior from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Dr. Shri Prakash	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Dr. G. P. Meshram	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Dr. M. V. S. Suryanarayana	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Dr. Vepa Kameswara Rao	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Dr. D. K. Dubey	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Dr. R. P. Semwal	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Dr. D. Sukumaran	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Dr. K. Ganesan	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. A. S. B. Bhaskar	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-

The President is pleased to promote the following Scientists of GTRE, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4
Sh. C. Jaganathan	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Sh. Radhakrishnan	Sc 'F'	Sc 'G'	—do—
Sh. R. V. Madhusoodanan	Sc 'F'	Sc 'G'	—do—

1	2	3	4
Sh. K. Santhosh Kumar	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. M. Rudra Goud	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. C. Thangavelu	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. S. Ramachandra	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. S. A. Vasudev	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. P. Ramesh	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Dr. Rajeev Jain	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. S. Ananda Rao	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. T.S. Pranesh	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. A.C. Bhaskar	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. A.N. Vishwanatha Rao	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
Sh. P. Krishnan	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. V.B. Patil	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. G. Suribabu	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. S. Shanmugam	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Ms. T.P. Shyne	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. J. Sudhakar	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. R.V.R. Suryanarayana	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. T. Krishnamurthy	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Ms. Shobha S. Prabhu	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. M. Manoharan	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. L. Jagadeeswara Rao	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. D. Biswas	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. D Suresh	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. Ramaraja Bhat	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh V. Prabhakar	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh. Ajay Pratap	Sc 'D'	Sc 'E'	—do—
Sh B.H. De	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. H.G. Rajanna	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Ms. K. Vasantha Lakshmi	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Kamlesh Kumar	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Benny George	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. K. Anil Kumar	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Mahesh M. Rao	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Ramesh Krishna	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. A. Manjunatha	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. V Sudharshana	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. B.R. Chandra Obul Reddy	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Manoj Kumar Sahu	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Sh. Ajit Kumar	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of RCMA, Nashik from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Sh. S.S. Kale	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. B.S. Mandloi	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-

The President is pleased to promote the following Scientists of DARE, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Sh. M.A. Vijaykumara	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. K. Sadanada Upadhya	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. K.V. Chalamaiah Sastry	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Ms. T. Lakshmi	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Ms. Rajni Garg	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—
Ms. Meenakshi	Sc 'C'	Sc 'D'	—do—

The President is pleased to promote the following Scientists of PXE, Balasore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Sh. S.N. Giri	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. N. Nayak	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—
sh. K.C. Mallick	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-

The President is pleased to promote the following Scientists of DEBEL, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Dr. B.S. Sundersheshu	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
sh. R. Indushekar	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-

The President is pleased to promote the following Scientists of ITR, Balasore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2007 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4
Sh. A.K. Sen	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Smt. B Sucharita	Sc 'E'	Sc 'F'	—do—

1	2	3	4
Sh. H.K. Rath	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Sh. Biswajit De	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Sh. Gautam Sadhukhan	Sc 'D'	Sc 'E'	-- do --
Sh. C.K. Sethy	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Sh. A.K. Das	Sc 'C'	Sc 'D'	-- do --
Sh. P.N. Panda	Sc 'C'	Sc 'D'	-- do --
Smt. Madhusmita Mohanty	Sc 'C'	Sc 'D'	-- do --

The President is pleased to make the following promotion:—

Shri K. Tamilmani, Scientist 'G' Chief Executive (Airworthiness), CEMILAC, Bangalore to be Scientist 'H' (Outstanding) in Defence Research & Development Service with effect from 05 Jul 2007 (F/N) in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500 in the same appointment.

Shri P.S. Krishnan, Scientist 'D', Director, ADE, Bangalore to be Scientist 'H' (Outstanding) in Defence Research & Development Service with effect from 02 Jul 2007 (F/N) in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500 in the same appointment.

Dr. A. Subhananda Rao, Scientist 'G', HEMRL, Pune to be Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in the Defence Research & Development Service with effect from 02 Jul 2007 (F/N) in the Pay Scale of Rs. 22,400-525-24,500.

Shri Pramod Shukla, Sc 'E', DEAL, Dehradun Posted as Scientific Attache in Embassy of India, Moscow, to be Sc 'F' in the same post and same Embassy with effect from 01 Jul 2007 in the Pay Scale of Rs. 16,400-450-20,000.

P. SARATH  
Joint Director (Pers)

#### AIR BRANCH

No. 498, dated 07th September 2007—The President of India is pleased to make the following promotion: :—

(JWOs to Sub Wos)

Rank, Name, Ser No., Trade and Sub Rank Date

WO Muni Samy Chinnappa (295996), Ach GD, 03 Oct 2003

WO Shri Kant Mishra (296295), Ach GD, 04 Dec 2002

WO Govind Lal Dwivedi (296494), Ach GD, 04 Dec 2002

WO Rattan Lal (296572), Ach GD, 04 Dec 2002

WO Jagdamba Prasad Pandey (297577), Ach GD, 01 May 2003

WO Amar Singh (298278), Ach GD, 11 Aug 2003

WO Anjani Kumar Singh (619921), ADSO, 02 Jan 2003

WO Chandrapal Singh Teotia (620431), ADSO, 02 Feb 2004

WO Gulbir Singh Teotia (620784), ADSO, 02 Jan 2003

WO Gangavaram Sri Ramulu (622066), ADSO, 02 Jan 2003

WO Bruce Micheal Jacobs (635776), ADSO, 02 Jan 2003

WO Baldev Chand (63696), ADSO, 02 Feb 2004

WO Sudarshan Prasad (297332), Clk Accts, 02 Aug 2002

WO Bikrama Ditya Mandal (298656), Clk Accts, 03 Feb 2003

WO Rajkishore Das (298732), Clk Accts, 03 Feb 2003

WO Ramesh Kumar Gautam (297448), Clk GD, 04 Jan 2003

WO Ranjit Singh (297788), Clk GD, 04 Jan 2003

WO Sulekh Singh (298663), Clk GD, 10 Jun 2003

WO Pradip Chattopadhyay (634822), Crypto, 03 Jul 2002

WO Birendra Singh (647095), Crypto, 03 Jul 2002

WO Shree Bhagwan Singh (647471), Crypto, 16 Jul 2003

WO Nawal Kishore Singh (647737), Crypto, 05 Jul 2002

WO Rama Shanker Prasad (647855), Crypto, 03 Jul 2002

WO Prantosh Das (647860), Crypto, 03 Jul 2002

WO Sonaram Chaudhary (647965), Crypto, 05 Jul 2002

WO Venkataraman Subramaniam (647976), Crypto, 07 Jul 2002

WO Bharat Roy (648321), Crypto, 16 Jul 2003

WO Satya Pal Singh (648419), Crypto, 18 Jul 2003

WO Ram Lakhan Yadav (648688), Crypto, 20 Jul 2003

WO MD Mustafa Kamal (648846), Crypto, 16 Jul 2003

WO Islam Khan (648945), Crypto, 16 Jul 2003

WO Ranjan Kumar Sinha (649548), Crypto, 03 Aug 2003

WO Kamlesh (649899), Crypto, 16 Jul 2003

WO Rabindra Kumar Jena (651064), Crypto, 03 Jul 2002

WO Rani Bhawan (670041), Crypto, 16 Jul 2003

WO Rajpal Singh Sanwal (694785), ED Inst, 02 Feb 2002

WO Charles Isaac (694892), ED Inst, 02 Feb 2002

WO George Mathew (694896), ED Inst, 02 Feb 2002

WO Paramasivam Adhimoolam (694900), ED Inst, 02 Aug 2002

WO Biranchi Narayana Misra (694984), ED Inst, 12 Aug 2002

WO Hari Prasad Singh (694998), ED Inst, 03 Jul 2003

WO Raghu Beer Singh Manral (700014), ED Inst, 01 Jul 2003

WO Anup Kumar (700017), ED Inst, 12 Aug 2002

WO Gaya Prasad (298755), EQPT Asst, 02 Jul 2002

WO Ram Suresh Bharadwaj (610307), EQPT Asst, 02 May 2003

WO Siya Ram Singh (296221), GTI, 09 Jun 2003

WO Nimai Chandra Saha (296226), GTI, 01 Jun 2003

WO Shridhar Prasad Sharma (610927), GTI, 01 Jan 2004

WO Prabhakar Kisan Mahajan (611572), GTI, 04 Aug 2003

WO Ravendra Kumar Chauhan (611766), GTI, 04 Aug 2003

WO Bal Bir Singh (612884), GTI, 03 Feb 2004

WO Dharam Pal Singh Khatri (286383), IAF (P), 01 May 2003

WO Jagjahir Prasad Pandey (286843), IAF (P), 01 Nov 2002

WO Aravindakshanok (286851), IAF (P), 04 Jan 2003

WO Satya Narayan Tripathi (286861), IAF (P), 01 Nov 2002

WO Jhulan Baitha (286965), IAF (P), 03 Nov 2002

WO M Muthaiyan (287075), IAF (P), 03 Nov 2002

WO Sukhvirsingh (287098), IAF (P), 02 Jan 2003

WO Bhogendra N Thakur (287184), IAF (P), 02 Jan 2003

WO Sunil Kumar Samanta (287212), IAF (P), 03 May 2003

WO Nand Gopal Batra (287216), IAF (P), 01 May 2003

WO Devendra Prasad (287396), IAF (P), 03 May 2003

WO Sib Sankar Saha (294656), IAF (P), 01 May 2003

WO Chaube Mangla Prasad (242725), MED Asst, 02 Nov 2002

WO S Syed Basheer Ahmed (242848), MED Asst, 02 Feb 2003

WO Kailash Chandra Nayak (618200), MED Asst, 02 Feb 2003

WO Rajendra Prasad Ajaḍ (632281), MED Asst, 02 Feb 2003

WO Ram Naresh Singh (631950), MET Asst, 03 Dec 2002

WO Bindeshwari Prasad Singh (285750), MT FIT, 02 Feb 2002

WO Sujit Kumar Pathak (287524), MT FIT, 02 Jun 2002

WO Satya Narayan Parihar (295695), MTD, 03 Jun 2002

WO Mangal Deo Mishra (241232), Photo Fit, 01 Jun 2003

WO Yarlagadda Murali Krishanarao (604826), RDO Tech, 02 Nov 2002

WO Gobinda Banik (632194), RDO Tech, 01 Nov 2001

WO Mohan Tripathy (292248), SEW, 02 Nov 2002

WO Vijay Kumar Jain (292331), SEW, 02 Aug 2002

WO Ramanand Jagadanand Jha (292762), SEW, 02 Feb 2003

WO Prem Nath Shaw (292791), SEW, 02 May 2003

WO Ram Badan Singh Kushwaha (601350), Telst RTO, 03 Aug 2003

WO Devi Lal Shrimali (601461), Telst RTO, 03 Aug 2003

WO S Meyyapillai (602147), Telst RTO, 02 Nov 2002

WO Bhagat Ram (602153), Telst RTO, 02 Nov 2002

WO Subrata Sengupta (602392), Telst RTO, 02 Dec, 2002

WO Shri Kant Vishwakarma (602459), Telst RTO, 03 Jan 2003

WO Raj Kumar Ojha (602988), Telst RTO, 03 Jun 2003

WO Suresh Singh (641877), AF Fit, 02 Aug 2002

WO Ramesh Prasad Dangiwal (641982), AF Fit, 02 Aug 2002

WO Gurmeet Singh (642862), AF Fit, 03 Feb 2003

WO Chandra Shekhar Pathak (643407), AF Fit, 03 Feb 2003

WO Om Sharan Pal Khastria (644183), AF Fit, 02 Aug 2002

WO Mahendra Prasad (644662), AF Fit, 02 Aug 2002

WO Ashok Kumar Mishra (644667), AF Fit, 02 Oct 2002

WO Upendra Kumar (657890), AF Fit, 02 Oct 2002

WO Ramkripal Verma (658194), AF Fit, 02 Jul 2002

WO Shivanath Singh (658694), AF Fit, 03 Nov 2002

WO Dharm Pal Singh (659058), AF Fit, 02 Dec 2002

WO Bulgan Digal (659103), AF Fit, 03 Jan 2003

WO Hira Nand Choudhary (659477), AF Fit, 03 Feb 2003

WO Naresh Lal Karn (659503), AF Fit, 03 Jan 2003

WO Raghuram Pattnaik (659505), AF Fit, 03 Feb 2003

WO Dinesh Chandra Yadav (659760), AF Fit, 03 Mar 2003

WO Satrugan Prasad Shukla (659796), AF Fit, 03 Mar 2003

- WO Singh Baleshwar Prasad (660240), AF Fit, 03 Apr 2003
- WO Abnash Chander Sharma (660321), AF Fit, 03 Apr 2003
- WO Mano Ranjan Maharana (660325), AF Fit, 03 May 2003
- WO Shrinibas Sharma (660331), AF Fit, 03 May 2003
- WO Bharat Lal Vishwakarma (660723), AF Fit, 03 May 2003
- WO C R Ramakrishna Pillai (281150), Elect Fit, 02 Jun 2002
- WO Satnam Singh (605629), Elect Fit, 02 Jun 2002
- WO Satish Rawat (607295), Elect Fit, 08 Jan 2003
- WO Amal Krishna Nath (607901), Elect Fit, 01 Nov 2002
- WO Resham Singh (609164), Elect Fit, 02 Nov 2001
- WO Ashok Kumar Mittal (609734), Elect Fit, 02 Nov 2001
- WO Rajendra (609837), Elect Fit, 03 Feb 2002
- WO Gurjit Singh (609891), Elect Fit, 02 Jul 2002
- WO Laxman Singh Bisht (641651), Eng Fit, 03 Apr 2003
- WO Janeshwar Singh (643097), Eng Fit, 03 Feb 2003
- WO Ramesh Kumar (643488), Eng Fit, 03 Feb 2003
- WO Ashok Kumar (643579), Eng Fit, 03 Jul 2002
- WO Arvind Kumar Sinha (643927), Eng Fit, 02 Oct 2002
- WO Shambhu Nath Sharma (643966), Eng Fit, 03 Jul 2002
- WO Lakshmi Narayan Pury (644341), Eng Fit, 03 Jul 2002
- WO Bishwanath Singh (644380), Eng Fit, 02 Nov 2002
- WO Dinesh Kumar Sinha (644390), Eng Fit, 03 Jul 2002
- WO Manda Parsuram (644775), Eng Fit, 03 Jul 2002
- WO Brijesh Kumar (644787), Eng Fit, 03 Apr 2003
- WO Suresh Chand Azad (644858), Eng Fit, 03 Apr 2003
- WO Om Kumar Awasthi (658484), Eng Fit, 03 Aug 2002
- WO Dinesh Kumar Verma (659025), Eng Fit, 03 Apr 2003
- WO Dina Nath Ojha (659056), Eng Fit, 03 Feb 2003
- WO Gopal Barman (659702), Eng Fit, 03 Apr 2003
- WO Ram Singh (606908), Inst Fit, 03 Jun 2002
- WO Jagdish Maharaj (608402), Inst Fit, 19 Jul 2002
- WO Virandra Singh Verma (608935), Inst Fit, 01 Nov 2002
- WO Bed Prakash Roy (609558), Inst Fit, 03 Jun 2002
- WO Ram Prabesh Singh (609708), Inst Fit, 03 Jul 2002
- WO Yugal Kishor Prasad (650016), Inst Fit, 03 Jul 2002
- WO Nand Kishore Nanda (289845), RDO Fit, 03 May 2003
- WO Ramgopal Singh Thenua (604725), RDO Fit, 02 Jul 2002
- WO Nagre Digambar Changdeo (631890), RDO Fit, 02 Jul 2002
- WO Sachida Nand Gairola (632218), RDO Fit, 02 Jul 2002
- WO Lallan Prasad Singh (632582), RDO Fit, 05 Feb 2003
- WO Gulab Chand Ram (633256), RDO Fit, 04 Apr 2002
- WO Gagan Bihari Baral (633300), RDO Fit, 02 Jul 2002
- WO Anup Das (633641), RDO Fit, 02 Sep 2002
- WO Birendr Kumar Singh (292240), WPN Fit, 01 Nov 2003
- WO Satya Prasad Deka (292989), WPN Fit, 01 May 2002
- WO Purna Chandra Behera (296715), WPN Fit, 02 Nov 2002
- WO Shanker Singh Yadav (297046), WPN Fit, 02 Nov 2002
- WO M Bala Subra Manian (642315), WPN Fit, 02 Jan 2003
- WO Jasmer Singh (642386), WPN Fit, 05 Feb 2003
- WO Rajinder Singh Dalal (643683), WPN Fit, 03 Jun 2003
- WO Ram Shankar Mahto (643696), WPN Fit, 05 Apr 2003
- WO Keshav Prasad Yadav (643745), WPN Fit, 05 Apr 2003
- WO Bhanwar Lal Jat (644091), WPN Fit, 03 Jun 2003
- WO Prem Chandra Bajpai (644580), WPN Fit, 01 Nov 2003
- WO Ramendra Pal Mishra (638043), PMF (Elec), 03 Mar 2004
- WO Jeet Singh Verma (653195), PMF (Elec), 03 Mar 2004
- WO Sushanta KR Mukherjee (662569), PMF (Mech), 16 Jul 2003
- WO Chandeshwar Bind (292179), WS Fit (B), 01 Feb 2003
- WO Shiv Nandan Yadav (292419), WS Fit (B), 01 Jan 2003
- WO Khushwant Singh (292425), WS Fit (B), 03 Feb 2003
- WO Subhas Dass (292393), WS Fit (C), 01 Dec 2002
- WO Siyaram Prasad (292422), WS Fit (C), 01 Dec 2002
- WO Ishwar Singh (292504), WS Fit (C), 01 Dec 2002
- WO Mahesh Prasad Singh (292559), WS Fit (C), 03 Apr 2003
- WO Bhorik Yadva (292676), WS Fit (C), 03 Oct 2003
- WO Baibir Singh (292707), WS Fit (C), 03 Oct 2003
- WO Kulwant Singh Sehmi (292714), WS Fit (C), 03 Oct 2003
- WO Dinesh Chandra Daimari (642338), WS Fit (M), 02 Feb 2002
- WO Samiran Chakraborty (643219), WS Fit (M), 02 Feb 2002

- WO Manasranjan Das (662540), PMF (Mech), 16 Jul 2003
- WO Walawalkar Paresh Shankar (667330), PMF (Mech), 16 Jul 2003
- WO Kanhaiya Lal Sah (632593), RDO (Tech), 04 Nov 2002
- WO Purusotam Jha (296435), ACH GD, 04 Dec 2002
- WO Sushil Kumar (642889), ENG Fit, 01 Jun 2001
- WO Narendra Kumar Kaushik (650328), INST Fit, 02 Feb 2003
- WO Om Prakash Sheoran (650512), INST Fit, 02 Feb 2003
- WO Somanandan K (292203), SEW, 15 Jul 2003
- WO Rovinder Kumar (293420), SEW, 02 Jun 2003
- WO Rahitasw Yadav (641444), SEW, 02 Nov 2003
- WO Devki Nandan (642023), SEW, 04 Feb 2004
- WO Jai Kishor Prasad Jagat (642052), SEW, 02 Nov 2003
- WO Vijay Kumar Tripathy (644048), SEW, 04 Feb 2004
- WO Riazuddin (644443), SEW, 02 Mar 2004
- WO Umesh Chandra Bhatt (644454), SEW, 02 Mar 2004
- WO Magupalli Paparao (Balgı) (613528), GTI, 03 Apr 2004
- WO Shahid Ali (613608), GTI, 09 Jun 2004
- WO Bata Krushna Sahoo (614803), GTI, 09 Jun 2004
- WO Sharidhara Bhat Beedubailu (638901), PMF (Elec), 01 Mar 2005
- WO Nrusingha Charan Arshal (673000), PMF (Elec), 01 Mar 2005
- WO Bibhuti Bhusan Mohapatra (662628), PMF (Mech), 13 Jul 2004
- WO Laxman Nath Nayak (662672), PMF (Mech), 13 Jul 2004
- WO Jagdish Kumar (665921), PMF (Mech), 05 Aug 2004
- WO Phukan Chandra Sahriya (668333), PMF (Mech), 13 Jul 2004
- WO Thakare Ravindra Jaywantrao (668838), PMF (Mech), 05 Aug 2004
- WO Rajendra Singh Bist (668913), PMF (Mech), 13 Jul 2004
- WO Harendra Sah (669096), PMF (Mech), 13 Jul 2004
- WO Ran Singh (610220), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Trilok Chand Roji Chand (613153), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Devinder Singh Grewal (641302), ENG Fit, 15 Jul 2003
- WO Upendra Rai (641357), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Fazlul Haque Ansari (642126), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Dhirendr Kumar Panda (642439), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Ram Suresh Singh (642478), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Birendra Kumar (642577), ENG Fit, 03 Apr 2004
- WO Rajendra Verma (642766), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Sahaja Nand Singh (643089), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Rama Shanker Weerodai (643173), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Madan Mohan Dash (643440), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Kiran Singh (643501), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Jitendra Kumar Singh (643530), ENG Fit, 09 Jul 2002
- WO Simon Sebastian Nellissery (643548), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Ashok Kumar Batish (643851), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Ram Pravesh Singh (643888), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Jagrup Singh (643900), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Suresh Prasad Singh (643922), ENG Fit, 02 Jan 2004
- WO Ravindra Tiwari (643981), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Dhruba Charana Sahoo (644356), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Chhote Lal Prasad Keshary (644789), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Rajendra Prasad Paswan (657655), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Tarkeshwar Prasad (658962), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Vishwa Deo Prasad Singh (659044), ENG Fit, 02 Jun 2003
- WO Ramjee Prasad (659051), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Rameshwar Singh (659070), ENG Fit, 02 Jun 2003
- WO Prakasan Ramanathan (659245), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Satyapal Singh Bhardwaj (659406), ENG Fit, 02 Jun 2003
- WO Maheswara Mahapatra (659511), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Kailash Chand Sharma (659519), ENG Fit, 02 Jun 2003
- WO Mahesh Kumar Sagar (659757), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Ramesh Chandra Yadav (659784), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Radhey Shyam Batham (659787), ENG Fit, 02 Jun 2003

- WO Samir Banik (659807), ENG Fit, 03 May 2003
- WO MD Sufian (659857), ENG Fit, 03 Jun 2003
- WO Shobha Nath Pandey (659861), ENG Fit, 02 Jun 2003
- WO Kulwant Singh (659925), ENG Fit, 02 Jun 2003
- WO Vijai Bahadur Yadav (659953), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Surendra Prasad Singh (660007), ENG Fit, 03 May 2003
- WO Bimal Narayan Trivedy (660015), ENG Fit, 05 Apr 2004
- WO Gopi Nath Singh (660025), ENG Fit, 05 Apr 2004
- WO Randhir Singh (660032), ENG Fit, 05 Apr 2004
- WO Bhupender Singh Ravi Chand (660061), ENG Fit, 05 Apr 2004
- WO Subhash Chandra Singh (660128), ENG Fit, 05 Apr 2004
- WO Shiv Nath Singh (660136), ENG Fit, 05 Apr 2004
- WO Sudarsan Jena (660455), ENG Fit, 05 Apr 2004
- WO Kumar Rajan (660734), ENG Fit, 05 Apr 2004
- WO Shambhu Sharan Jha (660775), ENG Fit, 05 Apr 2004
- WO Radha Mohan (660808), ENG Fit, 05 Apr 2004
- WO Shiwji Singh (286370), Ach GD, 12 Jun 2004
- WO Prem Narain (286379), Ach GD, 06 Dec 2003
- WO Profullo Kumar Patnaik (287591), Ach GD, 06 Dec 2003
- WO Balbir Singh (287941), Ach GD, 01 Nov 2004
- WO Gurdev Singh (292573), Ach GD, 10 Jun 2004
- WO Brij Bhushan Prasad (293186), Ach GD, 10 Jun 2004
- WO Krishan Bhardwaj (293374), Ach GD, 10 Jun 2004
- WO Hira Lal Sharma (294705), Ach GD, 10 Jun 2004
- WO Tangellmudi Balasubrahmaniam (294848), Ach GD, 01 Jun 2004
- WO Bindeshwari Singh (295046), Ach GD, 06 Dec 2003
- WO Mihir Bhattacharya (298186), Ach GD, 06 Dec 2003
- WO Rabindra Prasad Singh (298391), Ach GD, 01 Jun 2004
- WO Pakher Ram (299615), Ach GD, 06 Dec 2003
- WO Uma Shanker Singh (299850), Ach GD, 06 Dec 2003
- WO KC Das (604099), Ach GD, 01 Nov 2004
- WO Ramautar Prasad (610001), Ach GD, 10 Jun 2004
- WO Lakhanlal Morak (610019), Ach GD, 06 Dec 2003
- WO Thomas A I (611330), Ach GD, 01 Nov 2004
- WO A S S Rao (611995), Ach GD, 10 Jun 2004
- WO A Muduli (611996), Ach GD, 01 Nov 2004
- WO Bijay Ram Pokhriyal (612260), Ach GD, 01 Nov 2004
- WO Dharam Deo Chaubey (615941), Ach GD, 01 Nov 2004
- WO Shree Krishna Yadav (299173), Clk Accts, 19 Aug 2003
- WO Hamir Ram Chaudhary (299399), Clk Accts, 03 Aug 2003
- WO Opinder Sarup Sethi (299503), Clk Accts, 03 Aug 2003
- WO Hemkaran (299526), Clk Accts, 19 Aug 2003
- WO Jagdish Narayan Dwivedi (299576), Clk Accts, 03 Aug 2003
- WO Virendra Kumar Sethi (299679), Clk Accts, 19 Aug 2003
- WO Deo Nath Rai (299684), Clk Accts, 19 Aug 2003
- WO Vishnu Shanka Murkute (299708), Clk Accts, 19 Aug 2003
- WO Jasmer Singh (610041), Clk Accts, 01 Jun 2004
- WO Azad Singh (610144), Clk Accts, 01 Jun 2004
- WO Sahib Singh (610185), Clk Accts, 01 Jun 2004
- WO Shashi Kanta Maharana (610454), Clk Accts, 01 Jun 2004
- WO Charuvilayel Thomas Rajan (610650), Clk Accts, 01 Jun 2004
- WO Lalta Prasad Mishra (610673), Clk Accts, 01 Jun 2004
- WO Om Prakash Bhardwaj (611049), Clk Accts, 08 Aug 2004
- WO Niranjan Sarma (611534), Clk Accts, 08 Aug 2004
- WO R M Nayak (611994), Clk Accts, 08 Aug 2004
- WO Ratan Kumar Mukhopadhyay (612394), Clk Accts, 08 Aug 2004
- WO Devi Lal Chouhan (612714), Clk Accts, 08 Aug 2004
- WO Dipak Kumar Mukherjee (613043), Clk Accts, 10 Aug 2004
- WO Sheo Nandan Prasad (613138), Clk Accts, 10 Aug 2004
- WO Rattan Chand Rana (613497), Clk Accts, 12 Aug 2004
- WO Sankaranarayanan Parappathodi (614032), Clk Accts, 01 Feb 2005
- WO Ram Akbal Singh (614132), Clk Accts, 12 Aug 2004
- WO Dineshwar Prasad Singh (614408), Clk Accts, 12 Aug 2004
- WO Sirajuddin (614465), Clk Accts, 01 Jan 2005



- WO Shiv Nath Singh (614939), Clk Accts, 01 Jan 2005
- WO Dubey Satyanarayan (299237), Clk GD, 06 Aug 2003
- WO Mahidhar Talukdar (299262), Clk GD, 06 Aug 2003
- WO Paramatma Singh (299269), Clk GD, 06 Aug 2003
- WO Umesh Chandra Thakur (299270), Clk GD, 06 Aug 2003
- WO Sima Chala Panda (299318), Clk GD, 06 Aug 2003
- WO Basanta Kumar Hota (299319), Clk GD, 06 Aug 2003
- WO Sunkara Seetaram (299323), Clk GD, 06 Aug 2003
- WO Prahlad Sahoo (299325), Clk GD, 06 Aug 2003
- WO Pradip Ch. Mahanta (299340), Clk GD, 06 Aug 2003
- WO Nakul Ch. Saikia (299350), Clk GD, 06 Aug 2003
- WO Mannat Panayada Suresh Kumar (299385), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Girish Chandra Mishra (299479), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Gurdev Chand Saini (299498), Clk GD, 06 Aug 2003
- WO Bhag Singh (299501), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Nitish Chandra Chanda (299515), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Parmjit Singh Parihar (299520), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Anwar Ahmad Khan (299552), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Birendra Kumar Ghosh Chaudhury (299666), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Shiv Kumar (299737), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Jaiparakash Sehrawat (299759), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Prabhu Dayal (299770), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Girish Narayan Singh (299866), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Nanda Lal Ghosh (299887), Clk GD, 03 Jan 2004
- WO Nallanathel Vijayakumar (602751), Clk GD, 13 Dec 2004
- WO V Mohan (610104), Clk GD, 03 Jan 2004
- WO Ram Autar (610355), Clk GD, 03 Jan 2004
- WO Bharat Singh Chauhan (610564), Clk GD, 08 Jul 2004
- WO Gouri Shanker Roy (610583), Clk GD, 03 Jan 2004
- WO Sirajuddin Ansari (610690), Clk GD, 03 Jan 2004
- WO Tarun Kanti Singha (610899), Clk GD, 03 Jan 2004
- WO Ali Akbar (611013), Clk GD, 05 Jan 2004
- WO Shri Narain (611061), Clk GD, 03 Jan 2004
- WO Rajinder Parshad (611172), Clk GD, 01 May 2004
- WO Lokanath Behera (611234), Clk GD, 01 May 2004
- WO Purn Chandra Sahoo (611237), Clk GD, 01 May 2004
- WO Daya Nand Prasad (611402), Clk GD, 08 Jul 2004
- WO Durayodhan Singh Chauhan (611495), Clk GD, 01 May 2004
- WO Uttam Kumar Arya (611575), Clk GD, 01 May 2004
- WO Saty Pal Rajput (611576), Clk GD, 01 May 2004
- WO Kamakhya Paul (611674), Clk GD, 01 May 2004
- WO Tek Singh (611688), Clk GD, 01 May 2004
- WO Sri Govinda Chandra Parida (611751), Clk GD, 01 May 2004
- WO Dinesh Chandra Shukla (611761), Clk GD, 01 May 2004
- WO A Radhakrishnan (611872), Clk GD, 01 May 2004
- WO Harsaran Singh (611887), Clk GD, 08 Jul 2004
- WO Gurmit Singh Multani (611927), Clk GD, 01 May 2004
- WO Narinder Singh (611934), Clk GD, 01 May 2004
- WO Shiv Shankar Mandal (611944), Clk GD, 01 May 2004
- WO Kanhaiya Lal Pandey (611959), Clk GD, 06 Jul 2004
- WO Om Prakash Sati (612153), Clk GD, 06 Jul 2004
- WO Balbir Singh Dahiya (612154), Clk GD, 06 Jul 2004
- WO Krishnan Kutty Thumfe Chirayil (612238), Clk GD, 06 Jul 2004
- WO Amar Chand Bishnoi (612352), Clk GD, 06 Jul 2004
- WO Kanchan Ram (612410), Clk GD, 06 Jul 2004
- WO Raghubir Saran Rawat (612423), Clk GD, 08 Jul 2004
- WO Rajasekharan Nair PG (612721), Clk GD, 08 Jul 2004
- WO Gajendra Prasad Yadav (644878), SEW, 02 Mar 2004
- WO MD Mustaque Hossain (604636), AFSO, 03 Apr 2004
- WO Noor Mohammad (615887), AFSO, 03 Apr 2004
- WO Sailen Ghosh (631576), AFSO, 13 Jul 2004
- WO Bidhan Chandra Biswas (631688), AFSO, 12 Oct 2003
- WO Umesh Chandra Pande (631848), AFSO, 03 Apr 2004
- WO Jagdish Roy (631948), AFSO, 13 Jul 2004
- WO Shamsul Haque (632049), AFSO, 13 Jul 2004
- WO Satish Chand Sharma (632210), AFSO, 13 Jul 2004
- WO Shiv Nath (632243), AFSO, 12 Oct 2003
- WO Shri Krishna Prasad Yadav (632295), AFSO, 08 Oct 2003

- WO Shyam Bihari Singh (632418), AFSO, 03 Apr 2004  
WO Mahavir Singh (632596), AFSO, 03 Apr 2004  
WO Richard MD (632651), AFSO, 03 Apr 2004  
WO Ravi Kumar (632734), AFSO, 03 Apr 2004  
WO Sultan Singh (632968), AFSO, 05 Apr 2004  
WO Nawal Kishor Singh D (633115), AFSO, 08 Oct 2003  
WO Dharendra Kumar Pahada Singh (633148), AFSO, 08 Oct 2003  
WO MD Shahabuddin (633165), AFSO, 08 Oct 2003  
WO Ram Kishore Chaturvedi (298842), CAT Asst, 04 Jun 2004  
WO Nagendra Prasad (610479), CAT Asst, 04 Dec 2003  
WO Murugan P (611467), CAT Asst, 04 Jun 2004  
WO Satya Deo Ojha (611738), CAT Asst, 04 Dec 2003  
WO Balkar Singh (611928), CAT Asst, 04 Dec 2003  
WO Ajoy Kumar Saha (612427), CAT Asst, 04 Jun 2004  
WO Surinder Kumar Bhardwaj (612560), CAT Asst, 04 Jun 2004  
WO Birendra Kumar Singh (613419), CAT Asst, 03 Oct 2004  
WO Digamber Singh Negi (613485), CAT Asst, 03 Oct 2004  
WO Sahab Singh (615719), CAT Asst, 04 Jun 2004  
WO Samudra Singh (625770), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Jitendra Singh Yadav (625775), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Satyanarayan Dixit (625779), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Rama Nand Yadav (625980), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Narendra Kumar Tyagi (625985), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Sushil Chandra Kaushik (625992), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Jasvinder Singh Mann (625995), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Vinkesh Khurana (626053), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Sri Sridhar Sahoo (626092), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Shyamu Yadav (626307), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Suresh Chandra Maithani (626396), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Parbhat Singh Jamwal (626435), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Singh Jai (626799), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Sher Bahadur Singh (638713), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Suresh Pal Schoran (638748), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Dinesh Kumar (638770), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Kulveer Singh Rawat (638771), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Rajesh Kumar Singh (638855), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Sadhan Kumar Choudhury (638871), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Sankaran Ravi Chandran (638930), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Samunder Singh Chayel (639159), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Mani Kant (639163), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Nirod Kumar Jena (639250), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Shiv Kumar Jha (639271), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Hoshiar Singh Yadav (639285), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Prakash Chandra Pokhriyal (639309), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Bijander Singh Bisht (639336), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Balan Mani (639462), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Narsi Dass (639545), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Satbir Singh Jangra (639563), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Surender Singh Yadav (639590), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Begraj Singh (639601), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Udayan Sharma (639625), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Ram Krishna Pal (639630), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Jagjiwan Lal (639641), Rad Fit, 13 Jul 2004  
WO Dilbagh Singh Sangwan (651149), Rad Fit, 13 Jul 2004  
WO Pandey A I. (653826), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Jai Bhagwan (653850), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Aditya Narayan (653862), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Awadhesh Singh Yadav (653914), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Goutam Kumar Chakraborty (653982), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Ratan Kumar Mishra (654046), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Indra Pal Gupta (654062), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Mukesh Kumar (654103), Rad Fit, 04 Jan 2005  
WO Suresh Kumar Yadav (654125), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Subhash Chandra (654200), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Birendra Mishra (654205), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Chandra Kishore Tripathi (654212), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Alihasan Khan (654221), Rad Fit, 03 Dec 2004  
WO Udai Vir Singh (654228), Rad Fit, 03 Dec 2004

WO Shiva Prasad Singh (654231), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Mohamad Hashan (658175), AF Fit, 02 Dec 2003
WO Rajnish Singh (654284), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Bijoy Kumar Singh (659045), AF Fit, 02 Oct 2003
WO Sham Lal Sharma (654298), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Lal Behari Roy (659065), AF Fit, 02 Oct 2003
WO Deepak Kumar Kukrety (654311), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Mithilesh Kumar Sinha (659066), AF Fit, 02 Oct 2003
WO Anoop Singh Jakhar (654317), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Sohan Pal Singh (659344), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Lajja Ram Shakya (654319), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Ram Bahadur (659434), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Vishwajit Kumar (654362), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Damber Singh (659443), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Raj Kumar Rai (654517), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Deep Singh Sikoria (659448), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Devraj Singh Nagar (654535), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Lalit Narayan Mishra (659502), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Ram Niwas (654536), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Harish Kumar Pal (659735), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Subhash Chandra Verma (654538), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Birendra Kumar Mishra (659862), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Rohitash Kumar Singh Rawat (654547), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Harbans Singh Chouhan (660200), AF Fit, 02 Dec 2003
WO Manoj Kumar Malhotra (654564), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Dilip Kumar Ghosh (660285), AF Fit, 03 Mar 2003
WO Yogesh Chander (654575), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Amba Datt Pandey (660421), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Umesh Kumar Sharma (654599), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Sudhansu Sekhar Das (660449), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Ulhas Chandrahas Deote (672907), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Surya Kanta Roy (660556), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Hari Shankar Mishra (673046), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Pardip Kumar Pundir (660654), AF Fit, 02 Jun 2003
WO Yogesh Kumar Sharma (673103), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Siba Prasad Das (660707), AF Fit, 02 Jun 2003
WO Suhendra Pal Chauhan (673105), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Surendra Kumar (660725), AF Fit, 02 Jun 2003
WO Girish Chandra Joshi (673174), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Chandra Deo Sah (660732), AF Fit, 02 Jun 2003
WO Rajendra Singh Gupta (673185), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Pradeep Kumar Sinha (660736), AF Fit, 03 May 2003
WO Dharam Pal Singh Sharawat (673191), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Sachchidanand Prasad (660742), AF Fit, 02 Jun 2003
WO Rambir Singh (673196), Rad Fit, 03 Dec 2004	WO Man Pal (660785), AF Fit, 02 Jun 2003
WO Chandrika Sharma (642413), AF Fit, 02 Aug 2003	WO Rajendra Prasad Verma (660861), AF Fit, 02 Nov 2003
WO Patil C A (642809), AF Fit, 02 Aug 2003	WO Amaresh Roy Chowdhury (660875), AF Fit, 02 Jun 2003
WO Janardan Prasad (643014), AF Fit, 02 Aug 2003	WO Santosh Kumar Ghosh (660921), AF Fit, 02 Sep 2003
WO S N Rama Chandran (643338), AF Fit, 02 Aug 2003	WO Krishna Lall (660988), AF Fit, 02 Jun 2003
WO Kishori Singh (643354), AF Fit, 02 Aug 2003	WO Muhmad Samim Ansari (661008), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Ramajee Prasad (643789), AF Fit, 02 Aug 2003	WO Uma Shanker Singh (661012), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Daya Singh (643791), AF Fit, 02 Aug 2003	WO Sharma Nand Singh (661018), AF Fit, 05 Feb 2003
WO Banaphal Yadav (643844), AF Fit, 02 Aug 2003	WO Umesh Dutt Sharma (661115), AF Fit, 02 Nov 2003
WO Amar Singh (644265), AF Fit, 02 Aug 2003	WO Hari Narayan Sharma (661120), AF Fit, 02 Dec 2003
WO Buta Singh (657650), AF Fit, 02 Oct 2003	WO Jaga Nath Verma (661145), AF Fit, 02 Sep 2003
WO Kedar Prasad Singh (657889), AF Fit, 02 Sep 2003	WO Raj Kumar Tiwari (661194), AF Fit, 02 Sep 2003
	WO Narendra Kumar Purohit (661211), AF Fit, 02 Oct 2003

- WO Ram Siya (661243), AF Fit, 02 Sep 2003
- WO Riyaz Ahmed Khan (662005), AF Fit, 02 Nov 2003
- WO Onkar Singh (662059), AF Fit, 02 Oct 2003
- WO Swaran Singh (632473), AF SO, 07 Aug 2004
- WO Debajyoti Dey (654255), Rad Fit, 03 Dec 2004
- WO Ramesh Kumar (608184), Eqpt Asst, 02 Aug 2003
- WO Krishan Sarup Gupta (610055), Eqpt Asst, 02 Feb 2003
- WO Har Singh Sah (610575), Eqpt Asst, 02 Jun 2003
- WO Sahdeo Prasad Sinha (610579), Eqpt Asst, 02 Jun 2003
- WO Rudra Pratap Dwivedi (610692), Eqpt Asst, 02 Jun 2003
- WO Chandrapal Singh Yadav (610744), Eqpt Asst, 02 Nov 2003
- WO Ram Chander Sehgal (610832), Eqpt Asst, 02 Jun 2003
- WO V Sasidharan (610961), Eqpt Asst, 02 Jun 2003
- WO Surendra Prasad Pradhan (611024), Eqpt Asst, 02 Jun 2003
- WO Mohkam Singh Guliani (611094), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Bibhuti Bhushan Yadav (611115), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Khem Chand Jaiswal (611209), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Ishwari Joshi (611210), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Ajit Singh (611213), Eqpt Asst, 02 Aug 2003
- WO Kurupth Gopinathan (611315), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Sudheshwar Sahu (611409), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Bijaya Kumar Moharana (611474), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Sajiwan Lal Sharma (611485), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Gend Lal Yadava (611502), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Om Parkash (611584), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Indra Singh Manana (611585), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO TC John (611679), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Banwari Lal Yadava (611497), Eqpt Asst, 02 Aug 2003
- WO Mehdi Abbas Rizvi (612642), Eqpt Asst, 02 Aug 2003
- WO Gurmit Singh (612792), Eqpt Asst, 02 Aug 2003
- WO Surendra Singh Rawat (612838), Eqpt Asst, 02 Aug 2003
- WO Buddhisager Tripathi (612946), Eqpt Asst, 02 Aug 2003
- WO Lakshmana Behera (612987), Eqpt Asst, 02 Aug 2003
- WO Shukla Ram Kishor Kashi Prasad (613160), Eqpt Asst, 02 Sep 2003
- WO Kodakkat Kesavan (613250), Eqpt Asst, 02 Sep 2003
- WO Gajendra Pal Singh (613492), Eqpt Asst, 02 Sep 2003
- WO Rishipal Singh Chauhan (613493), Eqpt Asst, 02 Sep 2003
- WO Bagambar Singh Sajwan (613729), Eqpt Asst, 02 Sep 2003
- WO Lakshmi Prasad Singh (613797), Eqpt Asst, 02 Oct 2003
- WO Ashok Kumar (613881), Eqpt Asst, 02 Oct 2003
- WO Shiv Darshan (613972), Eqpt Asst, 02 Oct 2003
- WO Raj Kishor Singh (614423), Eqpt Asst, 02 Nov 2003
- WO Rishi Ram Bahuguna (614652), Eqpt Asst, 02 Nov 2003
- WO Chand Singh Deswal (614689), Eqpt Asst, 02 Nov 2003
- WO Rathod Amar Singh (614750), Eqpt Asst, 02 Nov 2003
- WO Gurbchan Singh (645255), Eqpt Asst, 02 Nov 2003
- WO Chandrashekar Sangappa Gowder (645308), Eqpt Asst, 02 Dec 2003
- WO Madhusudhanan Cheerody (645344), Eqpt Asst, 02 Dec 2003
- WO Bhim Sain Suryan (643772), AF Fit, 02 Jun 2003
- WO Suresh Kumar Chhokar (660572), AF Fit, 02 Sep 2003
- WO Bharmal Bishnoi (660804), AF Fit, 02 Nov 2003
- WO Satish Kumar Vyas (642245), Eng Fit, 02 Jan 2004
- WO Suresh Nagappa Balunavar (287386), Iaf (P), 02 Aug 2003
- WO Rattan Chand Chouhan (287551), Iaf (P), 02 Aug 2003
- WO Arjun Kumar Singh (287557), Iaf (P), 02 Aug 2003
- WO Ram Singh Parmar (287576), Iaf (P), 02 Sep 2003
- WO Ramaswamy Manivannan (287704), Iaf (P), 02 Sep 2003
- WO Harpal Singh (287711), Iaf (P), 02 Aug 2003
- WO Nagendra Nath Ojha (287721), Iaf (P), 02 Sep 2003
- WO Raghunath Singh Rathore (287744), Iaf (P), 04 Sep 2003
- WO Ram Prasad Maurya (287953), Iaf (P), 06 Sep 2003
- WO Balwan Singh (615309), Iaf (P), 03 Nov 2003

- WO G Barathi Dasan (615314), Iaf (P), 03 Nov 2003
- WO Annari Bharathan (615322), Iaf (P), 03 Nov 2003
- WO Sudesh Kumar Yadav (615364), Iaf (P), 03 Feb 2004
- WO Ram Kumar Dhull (615366), Iaf (P), 03 Jan 2004
- WO Amar Singh (616025), Iaf (P), 03 Jan 2004
- WO Banshilal Suthar (616224), Iaf (P), 03 Jan 2004
- WO Amar Nath (616239), Iaf (P), 03 Jan 2004
- WO Kailash Pandey (616254), Iaf (P), 13 Feb 2004
- WO B Subramanian (616761), Iaf (P), 01 May 2004
- WO Narain Singh (617027), Iaf (P), 04 Jun 2004
- WO Rajendra Mandal (617258), Iaf (P), 04 Jun 2004
- WO Jag Jiwan Gauri (617296), Iaf (P), 04 Jun 2004
- WO Jagdish Prasad (617705), Iaf (P), 04 Jun 2004
- WO Ishwar Siddayya Kadadevar (606829), Inst Fit, 02 Aug 2003
- WO Shree Bhagwan Prasad (608791), Inst Fit, 02 Jan 2004
- WO Aloysius Roc Ramanand (608910), Inst Fit, 15 Jul 2003
- WO Ashok Kumar Sood (609490), Inst Fit, 03 May 2003
- WO Gyanendra Singh (609569), Inst Fit, 03 May 2003
- WO Dulichand (632057), Inst Fit, 02 Feb 2004
- WO Shunmugum Jaisingh Sethuram (650148), Inst Fit, 03 Apr 2003
- WO Parmal Singh Arya (650161), Inst Fit, 20 Mar 2003
- WO Jai Pal Singh Yadav (650215), Inst Fit, 20 Mar 2003
- WO Indraj Singh Nagar (650216), Inst Fit, 20 Mar 2003
- WO Lakshmi Narayan Pandey (650225), Inst Fit, 20 Mar 2003
- WO Sami Uddin (650257), Inst Fit, 03 May 2003
- WO Prahlad Singh Manave (650285), Inst Fit, 03 May 2003
- WO Gajendra Prasad Singh (650352), Inst Fit, 20 Mar 2003
- WO Gurnam Singh Boparai (650523), Inst Fit, 03 May 2003
- WO Narain Kumar (297916), Clk Accts, 01 Jun 2004
- WO Parkash Chand (299495), Clk Accts, 19 Aug 2003
- WO Bindeshwari Prasad Tripathi (610002), Clk Accts, 01 Jun 2004
- WO Gobinda Lal Dhar (610763), Clk Accts, 08 Aug 2004
- WO Krishan Kumar Katiyar (611874), Clk Accts, 08 Aug 2004
- WO Gurdayal Singh Sandhu (611902), Clk Accts, 08 Aug 2004
- WO Arjun Singh Chandel (612109), Clk Accts, 08 Aug 2004
- WO Shri Kant Mishra (613291), Clk Accts, 10 Aug 2004
- WO Sajal Bhattacharjee (613627), Clk Accts, 12 Aug 2004
- WO Kempanna Chougala (614862), Clk Accts, 01 Jan 2005
- WO Mohan Chandra pandey (645031), Clk Accts, 01 Jan 2005
- WO Roopa Ram Khokhar (645349), Clk Accts, 01 Feb 2005
- WO Ramashis Prasad (242670), Med Asst, 02 Jun 2003
- WO Lalan Prasad Yadav (242844), Med Asst, 02 Jun 2003
- WO Surendra Kumar Singh (242876), Med Asst, 02 Jun 2003
- WO Dilip Kumar Panda Mahapatra (242928), Med Asst, 02 Jun 2003
- WO Vijay Kumar Tyagi (242948), Med Asst, 02 Jun 2003
- WO Bhuwaneshwar Sharma (242961), Med Asst, 02 Jun 2003
- WO Ram Kumar Dixit (242967), Med Asst, 02 Jun 2003
- WO Kashmir Singh (242977), Med Asst, 15 Jul 2003
- WO Jageshwar Singh (242982), Med Asst, 06 Feb 2004
- WO Harendra Pal Singh (243000), Med Asst, 06 Feb 2004
- WO Indra Jeet Ojha (632709), Med Asst, 02 Jun 2003
- WO Murali Dhar Yadava (650614), Med Asst, 02 Aug 2004
- WO Ranvir Singh (655093), Med Asst, 08 Feb 2004
- WO Asger Ali Malwan (655159), Med Asst, 10 Feb 2004
- WO Udai Shankar (655204), Med Asst, 10 Feb 2004
- WO Kewal Singh (655214), Med Asst, 12 Feb 2004
- WO Vishnu Kumar (655303), Med Asst, 02 Aug 2004
- WO Rajeshwar Dubey (655403), Med Asst, 02 Aug 2004
- WO Maheswar Pradhan (655454), Med Asst, 02 Aug 2004
- WO Subhas Chandra Saha (655571), Med Asst, 02 Aug 2004
- WO Skand Gupta (655626), Med Asst, 04 Dec 2004
- WO Indra Singh (286753), MT Fit, 02 Aug 2003
- WO Jahar Singh Yadav (286871), MT Fit, 04 Oct 2004
- WO Abul Khair Khan (287171), MT Fit, 02 Sep 2003
- WO Murlidhar (287621), MT Fit, 02 Feb 2003
- WO Biplab Kumar Chackraborty (287663), MT Fit, 02 Nov 2002
- WO Gurna Chandra Mohanty (615024), MT Fit, 02 Sep 2003

- WO Dinesh Prasad Srivastava (615459), MT Fit, 15 Jul 2003
- WO Radha Mohan (659312), MT Fit, 02 Nov 2002
- WO Dhoop Chand Tanwer (659689), MT Fit, 02 Dec 2002
- WO Pandey Ajay Kumar (659764), MT Fit, 02 Dec 2002
- WO Dashrath Singh (659779), MT Fit, 02 Dec 2002
- WO Ram Khelawan Singh (659791), MT Fit, 02 Apr 2003
- WO Baban Prasad Singh (659850), MT Fit, 02 Mar 2003
- WO Balwinder Singh (659919), MT Fit, 02 Apr 2003
- WO Umesh Kumar Singh (660174), MT Fit, 04 Oct 2004
- WO Desh Raj Rana (660366), MT Fit, 02 Jun 2003
- WO Subhas Chandra Nandwana (603368), Telst RTO, 03 Sep 2003
- WO Jeet Lal Gupta (611016), Clk GD, 03 Jan 2004
- WO Kuldeep Singh (611176), Clk GD, 01 May 2004
- WO Ramchandra Debnath (611841), Clk GD, 01 May 2004
- WO Ratam Setty Madhusudhana Rao (612165), Clk GD, 06 Jul 2004
- WO Sumesh Chander Saini (612349), Clk GD, 06 Jul 2004
- WO Bhoni Venkat Rao (612454), Clk GD, 08 Jul 2004
- WO Chandar Singh Pharswan (612787), Clk GD, 10 Jul 2004
- WO Jayaraj Ramakrishna Pillai (641418), Clk GD, 10 Jul 2004
- WO Balwinder Singh Rana (641094), Photo Fit, 01 Feb 2004
- WO Sheikh Khushi Mohammad (641197), Photo Fit, 04 Feb 2004
- WO Ramzan Ali (642541), Photo Fit, 01 Aug 2003
- WO R Kaliappan (643188), Photo Fit, 04 Aug 2003
- WO Abhay Kumar Singh (644011), Photo Fit, 01 Feb 2004
- WO Umashankar Roy (644437), Photo Fit, 01 Jun 2004
- WO Santokh Singh S Pal (291848), WPN Fit, 01 Jun 2004
- WO Ghan Shyam Ojha (291932), WPN Fit, 01 Feb 2004
- WO Satyendra Singh (292988), WPN Fit, 01 Feb 2004
- WO P Kirshnamoorthy (297412), WPN Fit, 01 Feb 2004
- WO Rabindra nath Chaterjee (612738), WPN Fit, 01 Jun 2004
- WO Ramesh Chander Dixit (642020), WPN Fit, 04 Nov 2003
- WO Birendra Bhatta (642036), WPN Fit, 01 Feb 2004
- WO Muttaiiah (642699), WPN Fit, 04 Nov 2003
- WO Ramesh Chandra Kushwaha (642872), WPN Fit, 01 Feb 2004
- WO Sukumar Gayen (643688), WPN Fit, 01 Jun 2004
- WO Rabindra Nath Sahoo (644080), WPN Fit, 01 Jun 2004
- WO Pradip Kumar Mahto (660737), AF Fit, 02 Dec 2003
- WO Murthy V V (700605), ED Inst, 01 Jan 2004
- WO Dharendra Kumar Das (700811), ED Inst, 01 Jan 2004
- WO Onkar Tripathy (725809), ED Inst, 03 Jan 2004
- WO Biju AS (727083), ED Inst, 01 Jan 2004
- WO Gobinda Chandra Dash (727446), ED Inst, 01 Jan 2004
- WO Prasanta Kumar Rath (727449), ED Inst, 01 Jan 2004
- WO Poli Joseph (728396), ED Inst, 03 Jan 2004
- WO Basanta Kumar Tarenia (728555), ED Inst, 03 Jun 2004
- WO Amulya Kumar Mohanty (728557), ED Inst, 01 Feb 2004
- WO Ashok Kumar Khatri (728614), ED Inst, 03 Jun 2004
- WO Dipak Kumar Mondal (728622), ED Inst, 03 Jun 2004
- WO Ramankutty Vijaya Kumar (610753), Eqpt Asst, 02 Jun 2003
- WO Gurpal Singh Kalra (610822), Eqpt Asst, 02 Jun 2003
- WO Medara Chandranna (610959), Eqpt Asst, 02 Jun 2003
- WO Nand Kishor Singh (611413), Eqpt Asst, 15 Jul 2003
- WO Suresh Kumar Sharma (611700), Eqpt Asst, 02 Aug 2003
- WO Darshan Singh (611707), Eqpt Asst, 02 Aug 2003
- WO Dhruvendra Kumar Shukla (613306), Eqpt Asst, 02 Sep 2003
- WO Ravi Kant (613659), Eqpt Asst, 02 Sep 2003
- WO Bijoy Chand Mukherjee (613817), Eqpt Asst, 02 Sep 2003
- WO Rajinder Kumar (614362), Eqpt Asst, 02 Oct 2003
- WO Jagjit Singh Saini (641633), Eqpt Asst, 02 Aug 2003
- WO Sheo Mohan Singh Chauhan (612939), GTI, 01 Mar 2004
- WO Ram Raj Verma (612940), GTI, 01 Mar 2004
- WO Rafiuddin (613315), GTI, 01 Apr 2004
- WO Shyam Bahadur Sharma (615340), Iaf (P), 03 Nov 2003
- WO Virendra Kumar Sharma (650145), Inst Fit, 03 Apr 2003

- WO Sadananda Sahoo (616075), MTD, 10 Feb 2004  
WO Gokul Bihari Patro (616311), MTD, 01 Mar 2004  
WO Damodar Belwal (617126), MTD, 01 Jun 2003  
WO Puliya Kode Jayachandran Nair (617135), MTD, 01 Jun 2003  
WO Indal Singh (617161), MTD, 01 Jun 2003  
WO Shiv Pal (617173), MTD, 16 Jul 2003  
WO Bindeshwari Mandal (617259), MTD, 16 Jul 2003  
WO Pratosh Kumar (617323), MTD, 01 Jul 2003  
WO Roopa Ram Choudhary (617352), MTD, 16 Jul 2003  
WO Mitha Singh Rawet (617353), MTD, 01 Jul 2003  
WO Arvind Kumar (617383), MTD, 01 Mar 2004  
WO Yogendra Kumar Dixit (617389), MTD, 01 Jul 2003  
WO Shyam Lal Singh (617727), MTD, 03 Aug 2003  
WO Ramayan Roy (617742), MTD, 03 Aug 2003  
WO Dibya Lochan Das (617765), MTD, 03 Aug 2003  
WO Dinkar Shankar Gade (617769), MTD, 03 Aug 2003  
WO Raj Bhanu Singh (617797), MTD, 03 Aug 2003  
WO Kapil Deo Roy (618014), MTD, 03 Aug 2003  
WO Swapan Kumar Bhattacharjee (618027), MTD, 03 Aug 2003  
WO Chakraborty Anup Kumar (618047), MTD, 03 Aug 2003  
WO Raghavan Nair T V (618054), MTD, 03 Dec 2003  
WO Rama Shanker Pachori (618213), MTD, 03 Dec 2003  
WO Pra Bha Kara Panda (618348), MTD, 03 Dec 2003  
WO Omprakash (618397), MTD, 03 Dec 2003  
WO Jawahar Lal (618496), MTD, 01 Feb 2004  
WO Amarendra Bhattacharya (618812), MTD, 10 Feb 2004  
WO Davendra Singh Bahura (618854), MTD, 10 Feb 2004  
WO Vijay Kumar Vishwakarma (632180), MTD, 03 Dec 2003  
WO Arvind Kumar (638779), PMF (Elec), 01 Mar 2005  
WO Bipin Bihari Pattanaik (654195), PMF (Elec), 01 Mar 2005  
WO Goutam Dutta (654304), PMF (Elec), 01 Mar 2005  
WO Yogeshwar Onkarrao Sonar (669260), PMF (Mech), 13 Jul 2004  
WO Ngangom Kunjabihari Singh (631061), RDO Tech, 02 Jan 2003  
WO Nirmal Kumar Sarkar (631089), RDO Tech, 07 Feb 2003  
WO Rajesh Kumar Chhabra (631806), RDO Tech, 03 Feb 2003  
WO Mahindra Bahadur Mahindra (632085), RDO Tech, 03 Feb 2003  
WO Subodh Prasad Singh (632177), RDO Tech, 03 Feb 2003  
WO Om Prakash Poddar (632706), RDO Tech, 03 Jun 2003  
WO Krishna Deo Pathak (632994), RDO Tech, 03 Apr 2003  
WO Deo Narayan Sharma (633013), RDO Tech, 03 Nov 2003  
WO Laurachhiya H.K.P. (633038), RDO Tech, 07 Feb 2003  
WO Karnail Singh Saini (633202), RDO Tech, 03 Apr 2003  
WO Dinesh Prasad (633447), RDO Tech, 02 Jan 2003  
WO Vindhychal Singh (633544), RDO Tech, 02 Jan 2003  
WO Surender Singh Thakran (633589), RDO Tech, 03 Apr 2003  
WO Ashok Pal Singh Teotia (633847), RDO Tech, 03 Feb 2003  
WO Malkhan Singh (633849), RDO Tech, 03 Apr 2003  
WO Deshraj Deshwal (633913), RDO Tech, 03 Jun 2003  
WO Bidyadhar Lenka (634132), RDO Tech, 03 Feb 2003  
WO Rajendra pratap Singh (634295), RDO Tech, 02 Jan 2003  
WO Arulappan Louis (634391), RDO Tech, 03 Jun 2003  
WO Dhireswar Kalita (634484), RDO Tech, 02 Jan 2003  
WO Ramashankar Vishwakarma (292433), WS Fit (B), 01 May 2003  
WO CS Kushwaha (292438), WS Fit (B), 05 Oct 2003  
WO Gyan Singh (292439), WS Fit (B), 01 May 2003  
WO Avtar Singh (292450), WS Fit (B), 03 Oct 2003  
WO Bashist pandey (292601), WS Fit (C), 07 Oct 2003  
WO Biswanath chakraborty (292800), WS Fit (C), 07 Oct 2003  
WO Man Singh (292825), WS Fit (C), 09 Oct 2003  
WO Purshotam Lal (293065), WS Fit (C), 14 Jul 2004  
WO Amarjit Singh Sidhu (293402), WS Fit (C), 14 Jul 2004  
WO Rajendra Prasad Yadav (644914), WS Fit (M), 02 Jan 2003  
WO Umashankar Prasad (657191), WS Fit (M), 02 Jun 2003  
WO Ram Ujagir Yadava (657474), WS Fit (M), 02 Nov 2002  
WO Narpat Singh Rajput (648743), Crypto, 07 Aug 2003  
WO Balwan Singh (601705), RDO Fit, 05 May 2003  
WO Lekh Ram (602329), RDO Fit, 05 May 2003

- WO Padma Charan Dehury (604203), RDO Fit, 01 Aug 2003
- WO Joshi PD (604254), RDO Fit, 01 Aug 2003
- WO Gajjalapu Ansara Rao (632141), RDO Fit, 01 Jan 2004
- WO Kulwant Singh (632193), RDO Fit, 01 Feb 2005
- WO Nagendra Singh (632260), RDO Fit, 01 Apr 2004
- WO Dinesh Kumar Gupta (632563), RDO Fit, 01 Feb 2005
- WO Ram Naryan Singh (632588), RDO Fit, 01 Aug 2003
- WO Prsiddh Narain Dhar Dubey (632991), RDO Fit, 01 Jul 2003
- WO Arvind Kumar Singh (633023), RDO Fit, 01 Feb 2005
- WO Malay Kumar Majumdar (633249), RDO Fit, 01 Aug 2004
- WO Harendra Singh (633291), RDO Fit, 01 Apr 2004
- WO Ompal Singh Soam (633438), RDO Fit, 05 May 2003
- WO Ravinder Kumar (633549), RDO Fit, 01 Aug 2003
- WO Ranbir Singh Lohchab (633673), RDO Fit, 01 Feb 2005
- WO Girijesh Pathak (633941), RDO Fit, 01 Jul 2003
- WO Chatur Bhuj Singh (633970), RDO Fit, 01 Feb 2005
- WO Shaikh Mushtak Ahmad (634257), RDO Fit, 01 Nov 2003
- WO Ram Prasad Saw (634292), RDO Fit, 01 Aug 2004
- WO Ashok Kumar Chndram (634589), RDO Fit, 05 May 2003
- WO Radha Gobind Ojha (634655), RDO Fit, 05 May 2003
- WO Madan Pal Singh (634689), RDO Fit, 01 Aug 2003
- WO Sharma CS (634703), RDO Fit, 05 May 2003
- WO Arun Kumar (634780), RDO Fit, 01 Aug 2004
- WO Narayanasamy Nammalwar (634793), RDO Fit, 01 Aug 2004
- WO Gurumurthy Swaminathan (634794), RDO Fit, 01 Apr 2004
- WO Vijay Kumar (634849), RDO Fit, 05 May 2003
- WO Bhagat Ram (603159), Telst RTO, 06 Jun 2004
- WO Ram Swaroop Yadav (603512), Telst RTO, 02 Oct 2003
- WO Narayan Singh Jodha (603852), Telst RTO, 02 Jan 2004
- WO Gala Has Mukhlal Devraj (603865), Telst RTO, 04 Jun 2004
- WO Chandra Shekher Pandey (603917), Telst RTO, 04 Jun 2004
- WO Ram Ishwar Dass (604293), Telst RTO, 06 Jun 2004
- WO Ram Kumar Gupta (631361), Telst RTO, 08 Jun 2004
- WO Vasudevan Pillai R (641314), Telst RTO, 08 Jun 2004
- WO Akkepady Udaya Bhaskar (619386), ADSO, 03 Jun 2004
- WO Sarat Chandra Tripathy (619549), ADSO, 03 Jun 2004
- WO Jai Nath Sharma (620906), ADSO, 03 Jun 2004
- WO Bhalachandra Ramakrishana Bhat (635739), ADSO, 03 Jun 2004
- WO Dominic S.K.G (635851), ADSO, 03 Jun 2004
- WO Jagdamba Prasad Misra (298679), Clk Accts, 05 Aug 2003
- WO Avinash Singh (299572), Clk Accts, 19 Aug 2003
- WO Puran Chand (612784), Clk Accts, 08 Aug 2004
- WO Sunil Kumar Saxena (612898), Clk Accts, 08 Aug 2004
- WO Babul Chandra De (610376), Clk GD, 03 Jan 2004
- WO Prem Masih Rahi (606857), Elect Fit, 01 Nov 2003
- WO Dilip Kumar Srivastava (607281), Elect Fit, 01 Nov 2003
- WO Somayajula Siva Prasad Gopal (607495), Elect Fit, 01 Nov 2003
- WO Inder Jeet Singh (608048), Elect Fit, 03 May 2003
- WO Bijay Kumar Mandal (608183), Elect Fit, 05 Jun 2003
- WO Dhiraj Kumar Bhattacharjee (608455), Elect Fit, 01 Nov 2003
- WO Gurmukh Singh (608587), Elect Fit, 05 May 2003
- WO Indrapal Singh (608925), Elect Fit, 01 Nov 2003
- WO Nageshwar Singh (609603), Elect Fit, 05 May 2003
- WO Subodh Kumar Biswas (609658), Elect Fit, 03 May 2003
- WO Vijayan Nair K R (609826), Elect Fit, 03 May 2003
- WO Ganga Dhar Dwivedi (609834), Elect Fit, 05 May 2003
- WO Madan Kumar Singh (609882), Elect Fit, 02 Dec 2003
- WO Subas Chandra Apata (609888), Elect Fit, 03 May 2003
- WO Badri Prasad Chaudhary (609940), Elect Fit, 03 May 2003
- WO Sheo Kumar Gupta (611400), Elect Fit, 05 May 2003
- WO Rabinarayan Mohanty (622162), Elect Fit, 05 Aug 2003
- WO Balwant Singh (622263), Elect Fit, 03 Aug 2003
- WO Hari Singh (622596), Elect Fit, 03 Aug 2003
- WO Pashu Pati Mandal (634865), Elect Fit, 05 Feb 2003



WO Brijesh Kumar Sharma (634961), Elect Fit, 01 Feb 2003  
WO Siluvai Rayan Alfred (634968), Elect Fit, 03 May 2003  
WO Surendra Kumar (635000), Elect Fit, 01 Feb 2003  
WO Ashokan Kollon (635121), Elect Fit, 03 May 2003  
WO Jagat Narayan Pandey (635124), Elect Fit, 03 May 2003  
WO Shiva Bahadur Rai (635125), Elect Fit, 03 Aug 2003  
WO Gopinathan Thacharakkal (635672), Elect Fit, 05 Jun 2003  
WO Yogendra Prasad (635692), Elect Fit, 03 Aug 2003  
WO Nawal Kishore Thakur (635839), Elect Fit, 03 Aug 2003  
WO Suraj Prasad Vishwakarma (635877), Elect Fit, 03 Aug 2003  
WO Ram Prasad (650029), Elect Fit, 03 Nov 2003  
WO Jai Pal Singh (650053), Elect Fit, 02 Dec 2003  
WO Veerasamy Thevar Ramalingam (650080), Elect Fit, 03 Aug 2003  
WO Suresh Singh (650121), Elect Fit, 03 Mar 2003  
WO Nagina Prasad (650226), Elect Fit, 03 Mar 2003  
WO Mukhtar Singh (650228), Elect Fit, 02 Dec 2003  
WO Shri Ram (650261), Elect Fit, 03 Mar 2003  
WO Dulal Krishna Majumdar (650332), Elect Fit, 03 Nov 2003  
WO Mohammad Ali Ansari (650347), Elect Fit, 05 Aug 2003  
WO Ramdhan Malik (650424), Elect Fit, 03 Nov 2003  
WO Dulal Kumar Das (650460), Elect Fit, 03 Aug 2003  
WO Daljit Singh Dharwalia (650521), Elect Fit, 05 Feb 2003  
WO Kishore Chandra Mohapatra (650759), Elect Fit, 03 Nov 2003  
WO Pashupati Nath Singh (650820), Elect Fit, 01 Feb 2003  
WO Hari Singh Bhardwaj (650949), Elect Fit, 01 Feb 2003  
WO Nawneet Sudhan (650990), Elect Fit, 03 Nov 2003  
WO Gulshan Kumar Manikatala (651563), Elect Fit, 03 Aug 2003  
WO Anil Kumar Sahu (676823), Flt Eng, 14 Jun 2003  
WO Didar Singh (677529), Flt Eng, 14 Jun 2003  
WO Ajay Kumar (677920), Flt Eng, 14 Jun 2003  
WO Kumar A M S (695966), Flt Eng, 14 Jun 2003  
WO Binod Kumar Chauhan (696048), Flt Eng, 14 Jun 2003  
WO Suresh Kumar Khatri (696659), Flt Eng, 02 Dec 2003

WO Dinesh Kumar Singh (658829), Flt Gun, 02 Dec 2004  
WO Padam Singh Chauhan (662193), Flt Gun, 02 Dec 2004  
WO Balwan Singh (666870), Flt Gun, 02 Dec 2004  
WO Job Palakkunnel Augustine (655248), Med Asst, 12 Feb 2004  
WO Parminder Singh (286926), MT Fit, 02 Aug 2003  
WO B Baskaran (615653), MT Fit, 04 Oct 2004  
WO Indrajeet Singh (659759), MT Fit, 02 Dec 2002  
WO Ram Awadh Singh (659770), MT Fit, 02 Dec 2004  
WO Narayanan Kutty Kunokji (659849), MT Fit, 02 Feb 2003  
WO Dev Singh (660133), MT Fit, 02 Jun 2003  
WO Chandra Ket Singh (660178), MT Fit, 02 Jun 2003  
WO Dinesh Kumar Pathak (660359), MT Fit, 02 Apr 2003  
WO Dhiren Chandra Kalita (292001), Photo Fit, 01 May 2004  
WO Satya Narain (287397), IAF (P), 02 Aug 2003  
WO Nand Kishore PD Yadav (287560), IAF (P), 02 Aug 2003  
WO Jee Reddy Rama Kesava Reddy (615357), IAF (P), 03 Jan 2004  
WO Om Perakash Assalia (616024), IAF (P), 13 Feb 2004  
WO Padam Singh Sinsinwar (616758), IAF (P), 13 Feb 2004  
WO Madan Mohan Rai (617020), IAF (P), 01 May 2004  
WO Banta Ram (297058), Inst Fit, 15 Jul 2003  
WO R Muralidharan (607341), Inst Fit, 02 Oct 2003  
WO Banshi Lal Verma (608740), Inst Fit, 02 Dec 2003  
WO Vijai Singh Katiyar (608814), Inst Fit, 02 Oct 2003  
WO Dadan Singh (608867), Inst Fit, 02 Sep 2003  
WO Shashi Kumar Singh (608978), Inst Fit, 15 Jul 2003  
WO Binay Kumar (609156), Inst Fit, 15 Jul 2003  
WO Bhola Prasad Singh (609346), Inst Fit, 02 Sep 2003  
WO Kamala Kant Mishra (650358), Inst Fit, 20 Mar 2003  
WO Omparkash Tushir (298603), Eqpt Asst, 02 Jul 2002  
WO Mahmood Ali (611778), Eqpt Asst, 02 Aug 2003  
WO Shyamal Baran Deb (611780), Eqpt Asst, 02 Aug 2003  
WO Pritipal Singh Jaiya (613380), Eqpt Asst, 02 Sep 2003

- WO Raj Deo Yadava (614205), Eqpt Asst, 02 Oct 2003
- WO Binod Narayan Jha (645397), Eqpt Asst, 02 Dec 2003
- WO Sher Singh Bhati (285849), MTD, 03 Jun 2003
- WO Basant Mahto (615730), MTD, 03 Jun 2003
- WO Upendra Prasad Mandal (616617), MTD, 03 Jun 2003
- WO Ranjit Singh (616818), MTD, 03 Jun 2003
- WO Satyendra Kumar Ghosh (617142), MTD, 01 Jun 2003
- WO Binay Shanker Mishra (617355), MTD, 01 Jul 2003
- WO Idicula Puthenkalathil Chacko (618038), MTD, 03 Aug 2003
- WO Pradip Maitra (618264), MTD, 03 Dec 2003
- WO Jai Chandra Singh (618465), MTD, 01 Feb 2004
- WO Birendra Singh Yadav (618467), MTD, 01 Feb 2004
- WO Trinath Sethi (618795), MTD, 10 Feb 2004
- WO Narayan Chandra Ghosh (613179), PJI, 03 Mar 2004
- WO Vivekananda Datta (617085), PJI, 01 Mar 2004
- WO Vijay Kumar (645253), PJI, 02 Nov 2003
- WO Manoranjan Padhi (662704), PMF (Mech), 13 Jul 2004
- WO Subhash Bhawsar (298821), Clk Accs, 05 Aug 2003
- WO Chuni Lal (287035), MT Fit, 02 Sep 2003
- WO Chinta Haran Bhakta (616178), MT Fit, 02 Sep 2003
- WO Sam Cherain (631791), RDO Fit, 01 Aug 2003
- WO Ram Badan Singh (633695), RDO Fit, 01 Feb 2005
- WO Pawar Gajanan Vishnu (633776), RDO Fit, 01 Jan 2004
- WO Ram Lubhaya (633800), RDO Fit, 01 Aug 2004
- WO Sujay Kumar (633814), RDO Fit, 01 Feb 2005
- WO Tara Prasad Sah (634094), RDO Fit, 01 Jan 2004
- WO Tej Singh Bhati (634117), RDO Fit, 01 Feb 2005
- WO Kailash Narayan (634286), RDO Fit, 01 Jan 2004
- WO Kanhendra Kumar Sharma (634585), RDO Fit, 01 Feb 2005
- WO Sushil Kumar Haldar (651103), RDO Fit, 01 Jul 2003
- WO Belam Singh (603440), Telst RTO, 03 Sep 2003
- WO Williams K A (603668), Telest RTO, 02 Oct 2003
- WO Ram Dulal Sengupta (603703), Telest RTO, 02 Jan 2004
- WO Wilson Nehemiah Serivella (299688), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO S Murugesan (299809), Clk GD, 13 Dec 2003
- WO Girish Chandra Josh (700926), ED Inst, 01 Jan 2004
- WO Narendra Pratap Singh (700972), ED Inst, 01 Jan 2004
- WO Chandar Pal Singh Bhandari (701720), ED Inst, 01 Jan 2004
- WO Narendra Prasad Mohapatra (704227), ED Inst, 01 Jan 2004
- WO Mani Bhushan Chaubey (726808), ED Inst, 01 Jan 2004
- WO Bidhu Bhusan Mishra (727458), ED Inst, 01 Jan 2004
- WO Durga Prasad Dash (727463), ED Inst, 07 Jan 2004
- WO Koshy Arathu Oommen (728394), ED Inst, 01 Feb 2004
- WO Narendra Dev Chauhan (606761), Elect Fit, 01 Nov 2003
- WO Harbans Singh Negi (607349), Elect Fit, 05 Feb 2003
- WO Balbir Singh (608902), Elect Fit, 01 Nov 2003
- WO Rama Shankar Prasad (609939), Elect Fit, 05 May 2003
- WO Daya Nand Yadav (609948), Elect Fit, 03 May 2003
- WO Satya Prakash Singh (621456), Elect Fit, 02 Dec 2003
- WO Palwinder Singh Virk (622476), Elect Fit, 03 Aug 2003
- WO Mohan Lal Suthar (622570), Elect Fit, 05 Aug 2003
- WO Shravan Kumar (635233), Elect Fit, 05 Jun 2003
- WO Kamal Kant Aggarwal (635414), Elect Fit, 05 Aug 2003
- WO Sadakat Husain (635625), Elect Fit, 05 Jun 2003
- WO Ram Niwas Rai (635780), Elect Fit, 05 Aug 2003
- WO Sankarshan Jena (650087), Elect Fit, 02 Dec 2003
- WO Vikram Singh Verma (650151), Elect Fit, 02 Dec 2003
- WO Subhash Chandra Panda (650171), Elect Fit, 03 May 2003
- WO Nand Lal Keshari (650615), Elect Fit, 05 Feb 2003
- WO Ram Prasan Singh (650810), Elect Fit, 01 Feb 2003
- WO Paresh Kumar Kar Mohapatra (651063), Elect Fit, 02 Dec 2003
- WO Johnson N K (651144), Elect Fit, 05 Jun 2003
- WO Surender Kumar Sharma (651150), Elect Fit, 02 Dec 2003
- WO Sambasiva Rao Vipparla (651282), Elect Fit, 03 Nov 2003
- WO Adesh Kumar Sharma (677914), Flt Eng, 02 Dec 2003
- WO Man Singh Chauhan (678153), Flt Eng, 14 Jun 2003

WO Laldhar Prasad Singh (609045), Inst Fit, 02 Sep 2003  
 WO Jagdish Chand Thakur (609686), Inst Fit, 02 Feb 2004  
 WO Aravindhavan Vijayaprakasan (299462), MET Asst, 06 Aug 2004  
 WO Satvir Singh Joon (603465), MET Asst, 07 Jun 2004  
 WO Yadunath Rai (632244), MET Asst, 01 Feb 2004  
 WO Sukumar Samanta (632415), MET Asst, 03 Jun 2004  
 WO Muhammed Hasan (617312), MTD, 16 Jul 2003  
 WO Lakhan Bahadur Singh (618394), MTD, 03 Dec 2003  
 WO Devanesan Ruben (619268), Musn, 16 Aug 2004  
 WO Ram Dinesh Jha (293184), Photo Fit, 03 May 2004  
 WO Ramakant Gupta (641783), Photo Fit, 03 Jun 2003  
 WO Ved Prakash (642296), Photo Fit, 04 Aug 2003  
 WO Ram Lakhan (642877), Photo Fit, 05 Jun 2003  
 WO Hari Krishna Singh (643181), Photo Fit, 01 May 2004  
 WO Isufsaheb Ganisaheb Doni (644015), Photo Fit, 01 Feb 2004  
 WO G. George (291830), WPN Fit, 01 Jun 2004  
 WO Main Singh Mor (293660), WPN Fit, 01 Jun 2004  
 WO Ramesh Singh (642005), WPN Fit, 04 Nov 2003  
 WO Surendra Prasad Poddar (642753), WPN Fit, 01 Feb 2004  
 WO Gane Bhima Rao (642945), WPN Fit, 01 Jun 2004  
 WO Satya Narayan Singh (643288), WPN Fit, 01 Jun 2004  
 WO Cherian Joseph (292587), WS Fit (B), 05 Oct 2003  
 WO Ved Prakash Sharma (641116), WS Fit (M), 04 Dec 2002  
 WO Ram Chendra Prasad Singh (618883), AFSSO, 07 Aug 2004  
 WO Ravindran Nair P B (631091), AFSSO, 13 Jul 2004  
 WO Santokh Singh (632108), AFSSO, 03 Apr 2004

WO Thakur Das (632736), AFSSO, 03 Apr 2004  
 WO Dinanath Singh (613118), CAT Asst, 03 Oct 2004  
 WO Shyam Kumar Rai (626134), RAD Fit, 03 Dec 2004  
 WO Sitanath Sahoo (626199), RAD Fit, 03 Dec 2004  
 WO Rai Pradeep Kumar Haridhar (638683), RAD Fit, 03 Dec 2004  
 WO Anop Chand Suthar (638959), RAD Fit, 03 Dec 2004  
 WO Kamalakar Chintaman Kolhe (639061), RAD Fit, 03 Dec 2004  
 WO Amarvalli Surya Rao (639246), RAD Fit, 03 Dec 2004  
 WO Dattatrya Eknath Sagare (654126), RAD Fit, 03 Dec 2004  
 WO Ernest Regi Deepak Adam (672959), RAD Fit, 03 Dec 2004  
 WO Parveen Kumar Singal (672979), RAD Fit, 03 Dec 2004  
 WO Vijay Kumar Jakhmola (673199), RAD Fit, 03 Dec 2004

ANJALI SINGH  
 Dy Secy

#### ARMY BRANCH

#### CORRIGENDUM

No. 499, dated 11 Sep 2007—The President is pleased to make the following amendment in the Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 19 May 2007 under the heading REGULAR ARMY and sub heading Wg Cdr/Gp Capt (TS) to be Gp Capt (Selection) & (equivalent):—

For

S Chowdhary (MR-04253M) (AF-16199) — 10 Apr 2006 with notional seniority without effect on Pay & Pension from 29 Dec 2006

Read

S Chowdhary (MR-04253M) (AF-16199) — 10 Apr 2006 with notional seniority without effect on Pay & Pension from 29 Dec 2005

G RAVINDRANATH  
 Dy DGAFMS (P)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007.

